

पद

रत्नावली

श्रीमदुपाध्याय रामचंद्रजी गणी

की

आज्ञानुसार

क. ला.

॥ विज्ञा पन ॥

लक्ष्मण केहोने का मुख्य सुख यही है कि अनेक पुस्तकें कृपे उन्हें हर को ई पाय सके इस लिये बनारस सूर टोले में श्री युत राय धनपति सिंह बहादुर के सहायता से जैन प्रभाकर प्रेस जारी किया है उसमें प्रथम पुस्तक मंगला चरण श्री भगवान जिनेन्द्र के अनेक रागों के स्तवन पदों की रत्ना वली भविकां के हितार्थ संग्रह कर्क कृपी गई है इस में भूत चूक होय तो क्षमा करें ॥

दाम फी पुस्तक	}	{	पहिली दफे
रुपैया २५			पुस्तक ४७५

॥ सूची पत्र ॥

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
	भैरवी		
योगीश्वर	३	चुन्नी	१
चेतनचतुर	३	चुन्नी	२
	प्रभाती		
देखोरेष्वा			
दीश्वर	३	खुस्याल	२
प्रातसमै	२	०	३
प्रातभयो	२	०	४
	वेलाउल		
चितसेवा	३	०	४
	भैरव		
साहिवकरु	४	चुन्नी	५
मैंबोहरी	४	चुन्नी	६
जबहमरूप	४	ज्ञानसार	७

ज्ञाननाम	पदसंख्या	कर्तृनाम	पृष्ठ
मनुश्रावस	६	ज्ञानसार	८
भोरमयो	४	ज्ञान०	८
जागरेसय	रागखट ३	ज्ञान०	९
मेराकपट	वेलाउल ७	ज्ञान०	१०
जिनधरण	४	ज्ञान०	१२
कतकह्यो	५	ज्ञान०	१३
अनुभवहम	४	ज्ञान०	१४
अनुभवहम			
तौराउरे	३	ज्ञान०	१५
ज्ञानकला	२	ज्ञान०	१५
ज्ञानपीयू	३	ज्ञान०	१६
परधरधर	३	ज्ञान०	१७

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
क्याकहिये	५	ज्ञान०	१८
	प्रभाती		
उठानेमो०	६	लाभउदै	१९
आजरिषभ	३	साधुकी०	२०
आंगनक	३	समैसुंदर	२०
क्यांकरभ	४	मान	२१
प्रभुजोतुम	३	हरखचंद	२२
प्रभुतुमता	७	हरखचंद	२३
	वेलाउल		
रेघरियारे	३	आनंद	२४
क्यासोवेउ	३	आनंद	२५
उदयोआ	३	लाभसूर	२५
मे रेइतनो	२	आनंद	२६
तबप्रभुअ	२	०	२६

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
	सुहावेला		
भगवत्सम	५	चुन्नी	२७
समक्रमन	४	चुन्नी	२८
	मैरवी		
दीनकेना	३	चुन्नी	२९
थदयाल	गजलभैरो		
गुरुदेवजी	४	चुन्नी	२९
काध्यान	आसाथरी		
औधूएजग	९	ज्ञानसार	३०
अवधूआत	३	ज्ञान०	३१
अवधूया	४	ज्ञान०	३३
अवधूआ	२	ज्ञान०	३४
औ०सुम	३	ज्ञान०	३५
औ०आत	३	ज्ञान०	३६

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
औ०आत	४	ज्ञान०	३७
श्रौ०जिन	६	ज्ञान०	३८
श्रौ०कैसी	४	ज्ञान०	३९
साधोभाई	३	ज्ञान०	४०
साधोभाई	५	ज्ञान०	४१
श्रौ०हमवि	५	ज्ञान०	४२
साधोभाई			
जबहम	५	ज्ञान०	४४
आसाश्रौर	४	आनंद	४५
	विभास		
जागियेनृ	५	खेमाजी	४६
भावधरि	३	जिनरा	४७
सुनत्रिभुव	२	गणिवि	४८
	विहाग		

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
कषनगत	३	शुद्धी	४९
नवरियाम	३	०	५०
मैतोक्किये	६	०	५०
	गधार		
घतुरनरघे	१॥	कल्याण	५२
	देवग०		
प्रमुतेरीमूर	४	रूपचद	५२
	रागनह		
अटकेनय	३	नवल	५३
अरजिनव	३	०	५४
होमेमीजि	४	गणिवि	५५
	खमाच		
सखिचदप्र	७	हरखच	५६
	नह		

गाननाम	पदसंख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
किनगुणभ	३	आनंद	५७
देखोआली	२	आनंद	५७
	खंभाच		
जिनंदकी			
मैंवारी	४	चुन्नी	५८
	परज		
भाई रेसो			
हीसदगुरु	७	हरखचं	५९
सिवायजि	४	चुन्नी	६०
निरभयप	४	चुन्नी	६१
मेरामनल	३	चुन्नी	६३
प्रनुमोसे	२	चुन्नी	६३
सासरेरी	२	ज्ञानसार	६४
ताजोगी	४	०	६५

गाननाम	पदसप्या कर्तानाम		पृष्ठ
	सारग		
मेरेपूजा	१॥	०	६६
चितवाहे	३	हरख	६६
अनुभोढो	४	ज्ञानसार	६७
नाथबिधा	०	ज्ञान०	६८
माइमेरो			
कस	०	ज्ञान०	६९
हमारीअ०	०	ज्ञान०	७०
प्रभुदीनद	२॥	ज्ञान०	७०
अनुमोहम	२॥	आनद	७१
नाथनिहा	२॥	आनद	७२
कहाकहिये	२॥	ज्ञान०	७३
	घनाश्री		
आजमहो	४	हरख	७३

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
पियामोसुं	३	ज्ञानसा	७५
प्पारेनाह	२॥	ज्ञानसा	७५
भूलोभम	२॥	चिदानं	७६
संतोअच	३॥	चिदानं	७७
करलेगुरु	४	चिदानं	७८
अवहमए	४॥	चिदानं	८९
कोटिकक	३	चुन्नी	८०
वेरवेरनहि	३	आनंद	८०
माईतरेआ	६	गुलाव	८१
	काफी		
पंथीडारेपं	४	०	८२
वोसाईमो	६	ज्ञान०	८३
मिलजाजो	३	०	८४
तारोमोहि	२॥	गुण०	८५

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
वाकैगठ	३	०	८५
अकधक	३	चिदा०	८६
	काफीज०		
जगर्मेनते	४४	चिदा०	८७
मूठीजग	३	चिदा०	८८
	काफी		
अवसेरोदा	५	ज्ञान०	८९
हठीलीआ	५	चिदा०	९०
साधोमाई	६	गुलाब	९१
अलखल	३	चिदा०	९२
जीलोअनु	३	चिदा०	९३
	टोटी		
निरपस्र	५	चिदा०	९४
उधुतामेरे	७	चिदा०	९५

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
कथनीक	५	चिदा०	९७
चेतनचतु	३	आनंद	९८
निपटहीक	४	हरख	९९
	जंगला		
जिनराज	५	चुन्नी	१००
नेमदुलहा	३	अमर	१०१
सांवरेसाज	२	०	१०१
	खेमटा		
नेमपिया	५	दयाध०	१०२
मेरेसाहिव	३	चुन्नी	१०३
	घाटी		
प्रभुकुंसु	४	चुन्नी	१०३
मनकेमनी	४	चुन्नी	१०४
देखोरीजि	३	०	१०५

गाननाम	पदसख्या	कर्तानाम	पृष्ठ
मेरोमनघ	६	ठाठघ	१०५
श्रीश्रेयास	४	घुन्नी	१०६
सवसेमला	४	घुन्नी	१०७
मेरोमन	३	रूपरि	१०७
अपनारूप	२	आनद	१०८
दर्शन प्रा	३	आनद	१०९
निसदिन	५	आनद	१०९
करुणाके	३	रूपरि	११०
सुनहुविम	३	रूपरि	१११
	केदारा		
देखोएक	३	आनद	११२
	जैजेवती		
अलखनिर	५	घुन्नी	११३
आजकीव	४	घुन्नी	११४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
तरसकी	२॥	आनंद	११४
मेरीसोमे	२	आनंद	११५
ऐसीकैसी	२	आनंद	११६
	गोड़ी		
नेमीश्वर	५	चुन्नी	११६
पर्वपजूश	४	चुन्नी	११७
अवताना	३	चुन्नी	११८
रिषभेश्वर	३	चुन्नी	११९
सोअवहम	४	गुलाब	११९
सोअवमेरे	४	गुलाब	१२०
प्रभुतेररूप	३	समयसु	१२१
प्रभुमेरेतेरे	७	०	१२२
आजमैप	५	गुणवि	१२३
विचारीक	५	आनंद	१२४

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
निसानीक	५	आनद	१२५
इकधोलते	५	शुन्नी	१२६
छकीछवि	३	ज्ञान०	१२७
	कल्याण		
मोहेकैसे	३	रूपचद	१२८
मेराजिय	३	सुत्याउ	१२९
घौरनसे	९	रूपचद	१२९
निपटकठी	४	निरजन	१३१
नठडोइ	३	निरजन	१३२
ठयिसेरी	५	०	१३३
घयिनासी	४	०	१३३
माइमेरो	५	हरखच	१३४
इससहर	४	रूपचद	१३५
	फलिगहा		

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
पदमप्रभु	७	चुन्नी	१३६
सुनिजर	५	चुन्नी	१३७
टुकवूभ	५	कनक	१३८
मैरेमन	४	धर्मसी	१३९
	इमन		
अवलागयो	५	चुन्नी	१४०
	कलिंगडा		
वेश धर	७	ज्ञान०	१४१
	सोहनी		
अनुभवजो	३	चिदानं	१४२
शरणतिहा	३	चिदा०	१४२
सुदरनेम	४	जिनदा०	१४३
	कहरवा		
समभूपरी	४	चिदा०	१४४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
चित्तमेधरो	३	चिदा०	१४४
प्रमपदप	४	रूपरि	१४५
प्रमुकेधर	७	निस्सोद	१४६
नामजीके	५	ज्ञान०	१४७
	सौरठ		
रहेतुम	३	ज्ञान०	१४८
धारानपद	३	ज्ञान०	१४९
मरणातो	४	ज्ञान०	१५०
मूठीयाज	४	ज्ञान०	१५०
घार्हमोने	३	ज्ञान०	१५१
घरे मन	५	धुस्ती	१५२
रुडोलागे	३	चिदा०	१५२
आवोजी	५	चिदा०	१५३
वारोजी	५	चिदा०	१५४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
प्रभुजीमै	४	चिदा०	१५६
वरसतव	५	हरखचं	१५७
मेरोकुम	३	जिनदा	१५८
तारकअ	७	रामचंद	१५९
घणोमूंगो	३	मूलचंद	१६०
कांईहठमां	६	हरख०	१६०
आजहमा	४	आनंद	१६२
मोनेंप्यारे	३	खुशाल	१६३
म्हैतोथा	३	चैनवि०	१६३
पिउप्रीत	६	जिनस०	१३४
कंतबिनं	५	चिदा०	१६५
होनदिया	४	रूपचं०	१६७
गिरनार	५	लालचं	१६७
केवलवा	४	रामचं०	१६९

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
चित्तमैधरी	३	चिदा०	१४४
प्रभुपदप	४	रूपरि	१४५
प्रभुकेघर	७	निन्दोद	१४६
नाभजीके	५	ज्ञान०	१४७
	सौरठ		
रहेतुम	३	ज्ञान०	१४८
धारोणपद	३	ज्ञान०	१४९
मरणातो	४	ज्ञान०	१५०
मूठीयाज	४	ज्ञान०	१५०
घाईमोर्ने	३	ज्ञान०	१५१
घरे मन	५	घुक्षी	१५२
रुडोलार्गे	३	चिदा०	१५२
घायोजी	५	चिदा०	१५३
तारोजी	५	चिदा०	१५४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
प्रभुजीमै	४	चिदा०	१५६
वरसतव	५	हरखचं	१५७
मेरोकुम	३	जिनदा	१५८
तारकअ	७	रामचंद	१५९
घणोमूंगो	३	मूलचंद	१६०
काईहठमां	६	हरख०	१६०
आजहमा	४	आनंद	१६२
मोनेप्यारे	३	खुशाल	१६३
म्हैतोथा	३	चैनवि०	१६३
पिउप्रीत	६	जिनस०	१३४
कंतबिन	५	चिदा०	१६५
होनदिया	४	रूपचं०	१६७
गिरनार	५	लालचं	१६७
केवलवा	४	रामचं०	१६९

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
नितम्बुरम	३	राम	१७०
अरजसुनो	४	हरख०	१७०
म्हानुप्या	४	०	१७१
	मल्हार		
अनुभवमी	३	शेतन०	१७२
धीरजिनव	४	लट्टिघ०	१७३
दिलझानी	४	हरख०	१७४
याठमअ	३	चिदा०	१७५
गुमाननव	३	शेतन०	१७६
विमळगि	३	धर्मवी	१७६
समकित्त	७	मूघर	१७७
घोरघः	३	आन०	१७८
मूरतस्था	४	क्षमाक०	१७९
गरजगरज	२	धर्मपा०	१८०

गामनाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
देखोप्राज	४	अचल	१८१
एमाईघन	४	०	१८२
मैतोठाढी	३	प्रतापां	१८३
श्यामहमा	५	प्रतापां	१८४
चेतनजी	५	बालचं	१८५
चेतनजी	४	बालचं	१८६
	भक्तोटी		
राखू रेह	५	हरखसू	१८७
सखीरीचं	२	जैनदास	१८८
कौनविध	३	पदम०	१८८
भजनबिन	३	रामचं०	१८९
	रागदेस		
परमातम	३	चुन्नी	१९०
क्योंनजप	४	गुलाब	१९१

गाननाम	पठस०	कर्तानाम	पृष्ठ
	बहार		
निरमलहो	६	क्षमाक०	१९२
महसेनघर	६	शुक्ली	१९३
	सहाना		
तेरीमूरत	४	शुक्ली	१९४
	अढानां		
एहीसुमाथ	४	नवल	१९४
	सामेरी		
सेधुजानु	६	०	१९५
साहियागि	५	मूपखि०	१९६
तेविसमा	३	रूपयि	१९८
माईहेमा	३	जिनरा	१९८
	रेखता		
घरीघन	४	नवल	१९९

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
प्रभुतुम	७	०	२००
कियेआरा	६	लाल	२०१
किएआरा	५	नवल	२०२
मुझेहैचाह	५	०	२०३
समझले	६	०	२०४
जगतपति	३	लालचं	२०६
कहूंवहब्र	५	०	२०७
नेकबातेां	५	चुन्नी	२०७
विनामत	४	चुन्नी	२०९
खलकएक	७	यदुराय	२१०
टुकनजर	५	०	२११
तेरेदरशके	३	मोती	२१२
प्रभुअबि	५	चंद	२१३
जिनआप	६	०	२१४

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
हरदमप्रभु	७	०	२१४
सावलिया	४	युधग०	२१७
	गजल		
हिमुनासिध	४	घुन्नी	२१८
कधीप्रभु	५	घुन्नी	२१९
दिएसेहरद	४	घुन्नी	२२०
	ग०जेरो		
गुरुदेयजी	५	घुन्नी	२२१
	गजल		
ससारनाम	४	जिनदा	२२२
जयतएक	३	घुन्नी	२२३
एगारहता	३	घुन्नी	२२३
	दुमरी		
बलोसमी	६	अधीर	२०४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ	
गिरनारी	३	०	२२५	
रथचढियदु	३	लालचं	२२६	
श्रीचिंता	४	गुलाब	२२६	
भमणकरत	५	} अमृतचंद्रसूरी	२२७	
श्रीमज्जिन	४		०	२२८
अगरमगर	७		०	२२९
जिनवरच	४		०	२३०
नवपदध्या	५	ललीरा	२३१	
नेमपिया	४	०	२३२	
नेमजिनंद	६	} अमृ	२३४	
संभवजिन	४		तचंद्र	२३४
	ख्याल			
तरसतजि	५	रामचंद्र	२३५	
वीरप्रभूकी	३	०	२३६	

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
तेरीदेहीहै	४	सुमन	२३७
प्रमुजीसुमे	४	सेवारा	२३८
जालमजो	५	निरजन	२३८
एतननिप	३	भूधर	२३९
भनमूरख	४	भूधर	२४०
	गजल		
ध्यानमेंजि	४	शुक्ली	२४०
	सगीत		
सोहेसुरन	४	यालघ	२४१
	छायनी		
सुमसजकर	४	जिनदा	२४२
खपरनही	५	छस्वपत	२४४
फिसीकी	४	जिनदा	२४६
सुगुणनर	५	क्षमाक	२४८

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
कुमतिकले	४	जिनदा	२४९
सरकजाकु	०	जिनदा	२५१
चतुरनरम	६	०	२५१
अरीमेरादु	५	०	२५३
नेमनाथमे	१०	चतुरकु	२५४
हेरीमाईमे	५	०	२५६
सुनियेरेवा	८	०	२५९
शांतिनाथ	५	पूज्यजी	२६१
	वसंत		
कितजइये	५	चुन्नी	२६३
आएसुख	८	हरखचं	२६४
तुमज्ञानवि	४	आनंद	२६७
कितजइये	३	ज्ञान०	२६७
कितजाण	५	आनंद	२६८

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
मेरेहृदयप	४	काधिरा	२६९
सुविधिना	४	चेतनवि	२७०
धर्मोआज	२	ज्ञान०	२७१
कृष्णजातच	३	ज्ञान०	२७२
मेरेहृदयक	४	गुणवि०	२७२
मनमोहन	५	अमृत०	२७३
	धमाल		
माईरगमर	५	०	२७४
	होरी		
आतमअनु	४	आनद	२७५
	धमाल		
होरीखेलि	४	जिनथ	२७६
	मैरवीहो		
धनिआया	५	धुस्ती	२७७

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
	हो०काफी		
प्रभुघरश्या	५	गुलाव	२७८
	होरी		
रंगलयावो	४	चुन्नी	२७९
हो०खेलैदो	६	रतन	२८०
अचरिजहो	४	ज्ञान०	२८१
शांतिकरो	२॥	चुन्नी	२८२
असोदाव	३	गुलाव	२८३
सांवरसु०	३	वाल	२८४
नेमनाथव	२॥	जयरंग	२८५
पायोनरअ	४	अवीर	२८६
घर्मजिणेस	५	चेतन	२८७
नेमनिरंज	२	जिनधर	२८७
चिदानंद	८	रतन	२८८

गाननाम	पदस०	कतानाम	पृष्ठ
कावरीसुर	७	नदीय०	२८९
समेतशिख	५	रामच०	२९०
घर्मजिनद	३	अमृत०	२९२
छाडदईठा	४	षद	२९३
आनदपा	५	रामघ	२९४
	धूरिया		
परघरखे०	३	ज्ञानसा	२९५
	हो०काफी		
माइमति	२	ज्ञानसा	२९६
	होरी		
साहयआ	३	चैनवि	२९७
तजराजुठ	२	चैनवि	२९७
मेरोपरम	३	अधीर	२९८
होरीघाह	६	धुकी	२९८

गाननाम	दपसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
हो०आईतुं	४	अवीर	२९९
अरीमैंकै	३	ज्ञानसा	३००
चेतनखेलैं	४	रूपरि	३०१
टुकसुनले	५	०	३०२
हो०खेलो	४	०	३०३
हो०षेलत	३	०	३०४
ज्ञानतोअ	३	विनय	३०४
मधुवनमें	३	क्षमा	३०५
समेतशिख	३	क्षमास	३०६
अैसेषेलत	५	०	३०६
रंगमच्यो	६	रतन	३०८
लागीमेरी	५	०	३०९

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
साखरेसक	५	रामध	३०९
	होरो		
झाजमधि	४	०	३११
	होरी		
किनहारी	४	नवल	३१२
सुधलोजे	४	धेतन	३१३
मेरोनेमपि	५	ज्ञानच	३१४
साधोमाइ	४	धुन्नी	३१५
	कलिगढा		
कुन पेलै	४	आनद	३१६
मतलोढो	३	०	३१७
जमयोली	७	जिनध	३१७
मनलागो	२	०	३१८
नेमश्याम	४	०	३१९

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
	भै०होरी		
अरेमनप्र	३	चुन्नी	३२०
	होरी		
जयबोलो	४	चुन्नी	३२१
मेरेप्रभुसे	४	चुन्नी	३२२
होरीखेले	३	चुन्नी	३२३
यादवमन	५	चद	३२३
केवलवाले	४	हीरधर्म	३२४
बदोभवि	५	प्रतापी	३२५
आजचालो	६	रामचं	३२६
घरआए	३	हरखचं	३२७
मुनिसुव्रत	७	चेतन	३२८
पावापुर	७	चेतन	३२९
होरीपेलो	४	पूज्यजी	३३०

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
याजिनदा	४	हसराज	३३१
सखीधोधि	३	भ्रमतचद	३३२
घदनकेकद	६	सूरि	३३३
सैयारेमेरे	४	अधीर	३३४
होरीअई	५	धुम्की	३३५
	कजरी		
तुमेरहोरे	९	नैनयि	३३६
सखियन	६	रामच	३३८
मेतोलागु	५	चद	३३९
देखोजिन	४	घाल	३३९
घढिभ्राध्यु	७	रामच	३४०
घाजहरख	३	धीर	३४२
राजुलकहे	२	धुम्की	३४२
कहतपुका	७	उ०रा०	३४४

गाननाम	पदसं०	कर्तानाम	पृष्ठ
लालनकी	५	०	३४५
नेमआंखा	४	०	३४६
कौनदिन	४	०	३४६
मेरे आज	५	राम	३४७
	गरभा		
श्रीचिंता	०	जिनचं	३४८
संभवश्रामी	६	मान	३४७
	देखी		
पहिलोअंग	८	विनय	३५१
	साधारण		
देखीतिहा	३	चुनी	३५४
साधोभाई	३	चुन्नी	३५४
प्रभुमया	५	क्षमाक	३५४
सिद्धाचल	५	क्षमार	३५५

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
मेरे प्रभु	६	धुआ	३५७
तुम्हेंसमझा	४	धुनी	३५८
दुःखनगर	१॥	०	३५९
अथतोषेत	५	धुआ	३६०
गफलतमें	५	धुनी	३६१
सिधधक	६	धमस०	३६१
नपपदजय	५	सुरि	३६२
धर्मश्वर	५	नेमधि	३६४
श्रीसीमध	५	धुनी	३६५
धनधनआ	५	धुनी	३६६
थाजतरग	४	न्यायखा	३६७
कुण्डगुरु	ने	लालध	३६८

नमः श्रीजिनप्रवचनाय

रागभैरवी

योगीश्वर तेरि गती क्या कोई
 विचारे यो० अनुभवकी वात अगम
 बिरला कोई धारे अदभुत अखंमजोत
 शोभात्रिभुवनमें होत निरुपम हे रूप
 परम गुण आनंद करे यो० । १ । योग
 में अयोग नही संसारी भोग नहीं
 राग द्वेष मोह कर्म फंदसैं किनारे । २ ।
 मत मत के भेद बहुत कर्मकी लपेट
 बहुत नानाविध रूप धरे पंथ न्यारे
 न्यारे यो० । ३ । स्वै मतमें भेद नहीं

गाननाम	पदस०	कर्तानाम	पृष्ठ
मेरे प्रभु	६	धुली	३५७
सुफेसमका	४	धुनी	३५८
दुकनजर	१॥	०	३५९
अयसोषेत	५	धुली	३६०
गफलसर्मे	५	धुनी	३६१
सिधषक	६	अमृत०	३६१
नपपदजय	५	सुरि	३६२
घर्मेश्वर	५	नेमयि	३६४
श्रीसीमध	५	धुनी	३६५
घनयनभा	५	धुनी	३६६
थाजतरग	४	न्यायसा	३६७
कुशलगुरु	ने	लाउष	३६८

केवल नाण उपाय जिणेसर मुक्ति
 रमणिकुं चायाहे दे० १ दशविध पूजा
 रचना जिनकी सबमिल मंगल गा
 याहे सेवै सोही लहे सुख संपत्त सब
 संतन मिल गायाहे दे० २ सुर नर
 मुनि जन भक्ति करतहे क्वि देशत
 मन भायाहे तीन लोकमे महिमा ते
 रो चंद्र खुस्याल गुण गायाहे ११ दे०
 ३ ११ इति पदं ॥

शगणी प्रभाती

प्रात सभै उठ चलो मंदिरमें जिन
 सै प्रीत जोला गीरे तुम विन देव अक
 र नहि वीजो देखा त्रिभुवन जोई रे १
 प्रा० दास तुभारो करत वीनती तु
 मविन मेरो नकीई रे प्रा० ॥ इतिपदं ॥

(१)
 वेदमें अवेद नहीं भर्मजाल घीचमै अ
 नेक भेदमारे चुन्नी लख अलख नाम
 अजपा जप सिद्ध काम सोह जयका
 री निजकाजही सुधारे । ३ ॥ इतिपद
 राग मैरवी

घेतन घतुर घोगानमें आघो जी
 सले मोह राजका लसकर जगमें शूर
 कहायो १ घे० घ र्मराज महाराज रा
 जके शमता शील जगायो २ घे० दा
 सघुन्नी श्री रिपभ पकजमें शिवपुर
 का सुखपायो ॥ इतिपद ॥

राग प्रभाती

देपो रे आदीश्वर स्वामी कैसा
 ध्यान लगायाहै देण कर उपर कर
 अधिक धिराजे नासा नेत्र लगायाहै

दोदरी द्रोपदा जिन भक्ति सदाई ते
 पूजत जिन राजकुं सुर पदवी पाई
 २ चि० शाशन पति नित समरिये
 बीरजी बरदाई श्री जिन लाभ लहै
 सदा गुण गण गहराई चि० ॥ ३ ॥
 इतिपदं ॥

॥ राग भैरव ॥

साहिब करूणा निधान सुन पुकार
 मेरी दीन बंधु जग दयाल शरणागत
 तेरी सा० भव अटवी विकट सघन
 जिसमै अगणित है विघन चार जार
 ठग लूटै डार मोहअंधेरी सा० किस
 विध उतरूंगा पार अपना केई नही
 है लार अवसर मै श्रामि नाथ चाहि
 ये नहि देरी सा० सानिध करिये

राग प्रमाती

प्रात भयो जाग प्यारे धरम मा
 रग लागरे दुष्ट बुद्ध काम क्रोध लोम
 मोह त्यागरे पचसु प्रपंच क्लोम पच
 होंसु हेत जोम पचहीसु करे काम
 पच होंसु पागरे प्रा० ९ पनरेसु प्री
 त खोय तेरेईसु सर्क होय सतरे का
 धीज घोय सातनते भागरे नघसु तुम
 नेहघरो जीतके भटार भरो घेदघा
 तिनाशहोय पावे शिख मागरे प्रा०
 ११ इतिपद ११

राग वेलाडल

धित सेवा जिन धरणकी करलें
 सुख दाईं घोघधीज निरमल हुवे मि
 ध्या मति जाईं धि० ९ शरण म

दोदरी द्रोपदा जिन भक्ति सदाई ते
 पूजत जिन राजकुं सुर पदवी पाई
 २ चि० शाशन पति नित समरिये
 बीरजी बरदाई श्री जिन लाभ लहै
 सदा गुण गण गहराई चि० ॥ ३ ॥
 इतिपदं ॥

॥ राग भैरव ॥

साहिब करूणा निधान सुन पुकार
 मेरी दीन बंधु जग दयाल शरणागत
 तेरी सा० भव अटवी बिकट सघन
 जिसमै अगणित है विघन चारं जार
 ठग लूटै डार मोहअंधेरी सा० किस
 विध उतरूंगा पार अपना केई नही
 है लार अवसर मै श्रामि नाथ चहि
 ये नहि देरी सा० सानिध करिये

दयाल प्रण अपनेकु समार दास
 चुकी पार लहै कूटै मय फेरी चा०
 इति पद ॥

राग मैरथ

मैघोहरी आत्म नही चीना नर
 भय पाय क्यू नही कीना मै० याल
 अथस्या खेल यितानी तरुण भई ज
 य सारन जानी आत्म ज्ञान यिना
 पकृतानी मै । यिरघ मए जय सांघ
 ए आया जन्म पदारथ यूहीं गमा
 या काम राग घट निस दिन भाया
 मै । एते फाल मै सय जग भटकी अ
 जहु चेत खघर ले नटकी दास चुनी
 नेह नाथसु अटकी मै । इति पद ॥

॥ राग मैरथ ॥

जब हम रूप प्रकाशा अवधू ज
 गत तमासा भासा ज । टागा बख्त न
 सिर पर भार तामैं भूखा प्यासा शे
 ग जरजरि देही जीरण एते पर फिर
 हासा ज । रूप रंग नही तनु बल व
 स्था भिक्षा सन नीरासा सानु रूप
 बनिताषूं संगत फिरहासैं पर हासा
 ज । चाहिये रूदन जहाक्यु हासा मोह
 क्क क्कियासा ग्यान सार कहि ज
 ग बासीकी वाहिर बुद्धि प्रकासा ज
 इति पदं ॥

॥ राग भैरव ॥

मनुआ वस नहि आवे अवधू कै
 सै शय दिखावे म । ग्यान क्रिया सा
 धन तैसाधो खातरमै न खतावे सो

घत जागत घैठत उठत मन माने
 जिहा जावे म । घाश्रव करणोंमै आ
 पेहों यिन मेरो उठ घावे समय क
 रणों जा आरोपु तो अतही छलसावे
 म । नोईद्विय सज्ञा हैयाकु परसथकुघू
 जावे इनकु धिरकीना सोपुरसा अ
 न्य पुरस न कहावे म । सुर नर मुनि
 घर असुर पुरदर जो इनके यस आ
 ये वेद नपुसए केलो अनकल खिण
 में रोय हसावे म । सिद्ध साधनै सथ
 साधनतै एहि अधिक कहावे ग्यान
 सार कहि मन यस याके सो निहचै
 शिव पावै म । इति पदं ॥

राग भैरव

भोर भयो भोर भयो भोर भयो

प्राणी चेतन तू अचेत चेत चिरिया
 चचहानी भो० ॥ कवल खंम खंम वि
 कस कौलनी मुदानी कंज उपम खं
 जनसी नैना न घुरानी भो० ॥ है वि
 भाव बीच नीद सुपन की निसानी
 तेरे सुसुभाव माहि दोनुं न समानी
 भो० ॥ अरोपित धर्म तैं सुरूप की
 दुरानी रूप के सुज्योत ज्ञान सार
 ज्योत ठानी भो० ॥ इति पदं ॥

॥ राग खट ॥

जागरे सब रैन बिहानी । उदयो
 उदया चल रवि भंमल पुन्य कालक्युं
 सोवे प्राणी जा० ॥ कमल खंम बन
 बन विकसाने अजहुं न तेरीं द्रुग
 उघरानी चेतन धरम अनादि तुमा

रो जम सगत तैं सुध विसरानी, जा०
 सुम कुल दोय अवस्था पहुँचे नौद
 सुपन ये जह नीसानी आत्म रूप
 सभार आपनो कय तुमरे घर कुमति
 घरानी जा० ॥ सुधि युधि भूले नि
 रूपम रूपकी याते घट घट होत क
 हानी निहचे ज्ञान सुरूप तुमारे ज्ञा
 न सार पद निज रजधानी जा० ॥
 इति पद ॥

॥ राग येलाउल ॥

मेरा कपट महल विश्व डेरा । आ
 तम हित चित्त नित प्रति आहु । न
 सजू साम्क सघेरा मे० ॥ सीघत घेठ
 त उठत जागत थाके खरच घनेरा
 मरणुप कठै आय लग्योहु अय क्यु

हिक अधिकेरा मे० ॥ द्वार प्रवेश
 जिन मत संबंधी लिंग क्रिया अनु
 सेरा दान शील तप भावुपदेसन च्या
 र साल चौफेरा मे० ॥ प्रवृत्त निवृ
 त्ती बाह्याभ्यंतर जालीए सुबिसेरा
 प्रगट विरुध जिन चरन प्रवृत्तुं एह
 भरोख भुकेरा मे० ॥ मेरे पद लखि
 भरम धरे केउ आतम तत्व उजेरा
 निहचै घटत प्रगट भया तव एसा
 वचन उचेरा मे० ॥ कपट कदागूह
 लखि गच्छ वासैं तज गच्छ वास वसे
 रा हिरदै नैण जौ नीका निरपूं ईह
 किंचित अधिकेरा मे० ॥ आतम तत्व
 लखन नहि दीसैं जिह तिह ममत
 घनेरा ज्ञान सार निज रूप न निर

खो तार्ते सब उर भेरा मे० ॥ इति
पद ॥

॥ राग वेलाउल ॥

जिन घरनन कोषेरो - हूतो आ
गै पीछे हूही तारिस तोक्यु करै भ
घेरो हू० ॥ घरमा घर्तन घरम करन
यिन कैसै मिटै भव फेरो तूस्यु ता
रिस तू तारकस्यु जो हूँ करिस नि
घेरो हू० ॥ निज सरूप निहचे नय
निरपू सुद्ध परम पद मेरो हूही अ
कल घनादि सिद्ध हू अजरन अमर
अनेरो हू० ॥ अन्धय अरु व्यतिरेक हे
तु छत्रि मेट रूप अघेरो परमात्म
अतर यहिरात्म सहिज हुओसुर भे
रो हू० ॥ तू परमात्म हू यहिरात्म

तू साहिव हूं चैरो दीन बंधु करं म
 हिर निजर भर ज्ञान सार पद नेरो
 हूं० ॥ इति पदं ॥

॥ राग वेलाउल ॥

कंत कह्यो हूनमाने माई मेरो ।
 किती वेर कहि कहि पचिहारी प्रग
 ट कह्यो कहि काने मा९ ॥ समझइ
 ये गोसैसिर सजनी दया कहिये म
 झयाने दुरी बात अपने भरताकी क
 हिये कैान बहाने मा९ ॥ हारी बार
 कही कहि सजनी तव प्रगटी कहि वा
 ने माया ममता कुबधि कूबरी उनके
 संग डुराने मा९ ॥ निज सरूप बाल
 क नहि जाने पर संगति रति माने
 भये सरूप ज्ञान ते भगनी अपने पर

पहिचाने मा९ ॥ तब तेरे पर-सग
 परेगो क्युं एतो दुख माने ज्ञान सा
 रते हिल मिल खेले सिद्ध अन्तत स
 माने मा ॥ इति पद ॥

॥ घेलाउल ॥

अनुभव हम कयके ससारी मरे
 जनमे न अनादि काल में सिध पुर
 यास हमारी अ ॥ राग द्वेष मिथ्या
 की परणित सुघ सुमाय न समावे
 अनकल अचल अनादि अर्वाधित
 घातम भाव समावे अ ॥ घघ मोक्ष
 नहि तीनू काले रूप न रग न रेखा
 निहचै नय जिन आगम सेती सुद्ध
 शुभाव परेखा अ ॥ कायन मायन
 जायन आयन भायन मायन जाता

सुद्ध शुभावै ज्ञान सार पद पर भावे
पर नाता अ ॥ इति पदं ॥

॥ वेलाउल ॥

अनुभव हम तौ राउरेखोरे अ ।
फोज बगस के लरके हो कर बार
गीरी मैं दोरे अ ॥ देश विरत जी
वाई यामैं क्या खावे क्या जोरै
गांठ गरथ घरके घोडे बिन कैसे
अरि दल तोरे अ ॥ घर वखरी सब
वेचे खार्ह हाथ हलावत डारे ज्ञान
सार जागीरी लेकर कैसे मूँछ मरौ
रे अ ॥ इति पदं ॥

॥ वेलाउल ॥

ज्ञान कला गति घेरी मेरी याते
भईय अंधेरी मे ॥ मिथ्या तिमर भ

मर पसरन ते सुकत नहि घर सरी
 मम मूला ईत उत ढढोरू है चेतन
 ता नेरी या दिन खर न अपने प
 रकी परसत घेर अघेरी मे ॥ खरमा
 धर्स नादि कारण कर पाकेगी भव
 फेरी ज्ञान सार जव हृष्टि खुलेगी
 अजर अमर पद केरी मे ॥ इति पद
 ॥ वेलाउल ॥

ज्ञान पिथूप पिपासी हम तो ।
 अनत काल भव भरण अनन्ता ए
 आसा न धीघासी ह ॥ मिथ्या त्वा
 दि यध कारण मिल चेतनता जइ
 मासी खीर नीर समदेस अव्यापक
 स्थैर व्यापक अघि मासी ह ॥ भव
 परणित परपाक कु मिल चेतनता

सुप्रकासी ज्ञान सार आत्म अमृतरस
तपत भगु निर आसी ह० इति पदं ।

॥ वेलाउल ॥

पर घर घर कर माच रह्योरी ।
प० कित्ती वेर गहि गहि कर छास्यो
कैसे अपनो याति कह्योरी प० ।
मर जन म्यो बिरच्यो नहि तबही
कबही न पर भव संग वह्योरी आ
यु भानो दीनो जेते तेतै तुभको ब
सन दयोरी प० । तूं न शरीर शरी
र न तेरो सोपाधै निज मान रह्यो
री ज्ञान सार निज रूप निहारी अ
कल अमर पद अमर भयोरी प० ॥
इति पदं ॥

॥ वेलाउल ॥

— क्या करिये छर दासा साधो ।
 वे जगो पूरक धासा साँ० । मानुज
 जनम देश कुल आरिज जनम दिया
 जिन खासा साँ० । यस उकेस लिंग
 जिन दरसन रूप रग बल भासा प्र
 गट पचइ दी नर हुदर पूरण आयु
 प्रधासा साँ० । याकी महिर लहिरपी
 रो दधि रज घानी धारासा सिव न
 गरी। अमि व्याप लोक के राज दि
 यो रिघ रासा साँ० । याके अग रग
 की सगति जग करता सुमकासा ज्ञा
 न सार निज गुण जय चीने हम सा
 हिय अम दासा साँ० । इति पद ॥

॥ प्रभाती ॥ ३ ॥

उठो नै मोरा आत्म राम जिन

मुख जीयवा जईयेरे उ० । जिणं जी
 नो दरसण छै अति दोहिली तेकिम
 सोहिलो जाणारे वार वार मानव भ
 वं जेहवो जुमवो मुसकल टानेरे उ०
 च्यार दिवसनं चटको मटको देखीने
 मत राचारे बिनसी जाता वारन ली
 गै काया घट छै काचारे उ० । अ
 नंत गुणे भरियो इह जिन वर पूरव
 पुन्यै पायोरे एहने देखी दिल में आ
 नंद करतुं सदा सवायोरे उ० । ही
 रो हाथ अमोलक आयो मूढ हिवै
 मति गम जेरे सहिजे संलूणा पास
 जिनंदसुं राजी होय चित रम जेरे
 उ० । मन गमता तुं माहरा आत्म
 करिजे सुकृत कमाईरे लाभ उदय

जिण खद, लहीने वरते सिद्ध यथाई
रे उ० । इति पद ॥

॥ प्रमाती ॥

आज रिपभ घर आवे देखो मा
इ आ० । रूप मनोहर जगदा नदन
सयही के मन भावे देखो० । केइ मुक
सा फल घाल विसाळ केइ मणि मा
णक ब्यावे हय गय रघ पायक घर
कन्या प्रमुजी कु बेग यथावे देखो०
श्री श्रेयसां कुमर दानेसर इक्षू रस
यहिरावे उत्तम दान अधिक अमृत
फल साधु कीरत गुण गावे देखो० ।
इति पद ॥

॥ प्रभाती ॥

आगन कल्प फल्योरी, हमारे मा

ई अंग । रिध वृधि सिध सुख संप
 ति दायक श्री शांति नाथ मिल्योरी
 हमारे अं० । केसर चंदन मृग मद भे
 ली माहि वरास मिल्योरी पूजत श्री
 शांति नाथजी की प्रतिमा अलग उ
 देग टल्योरी हमारे अं१ ॥ सरणे रा
 ख कृपा कर साहिव ज्युं पारे वा
 पल्योरी समय सुंदर कहै तुमारी
 कृपासैं हुं रहि स्युं सोहिलोरी हमा१
 डैते पदं ॥

॥ प्रभाती ॥

क्यो कर भक्ति करूं प्रभु तेरी
 क्यु१ ॥ काम क्रोध मद मान विषय
 रस कामत गेलन मेरी प्र१ ॥ करम
 नचावत तिमही नाचत माया बस

मट बेरी प्र ॥ ९ ॥ हृष्टि राग इठ
 घघन था ध्यो निकसत न लहे
 बेरी प्र ॥ करत प्रससा सय मिल
 अपणी पर निदा अधिकेरी ॥ कहते
 मान जिन माय भगत यिन शिव
 गत होत न बेरी ॥ प्र ॥ इति पद ॥

॥ प्रभाती ॥

प्रमु जा सुम तारक नाम धरायो
 तो तारो मुक्त बहीये प्र ॥ दीनें
 दयाल दया निधि साहिय मेरी और
 धितईये जो ॥ मोसु पतितन याहि ज
 गत मे दुजो ॥ ओर न पहये जो सुम
 पतित उधारन तारन अपनी ॥ विरु
 द बढइये जो ॥ जैसे केन दयाल
 जगत में जाके द्वारे जईये जो प्रमु

जी तुम मोहि बिसारो ॥ तो काको
 होय रहिये प्र९ ॥ सुमति जि
 नेसर साहिव जीसे बहुत कहा लग
 कहीये ॥ हरख चंद सेवक की लजा
 बाह गहे कि निबहिये प्र९ ॥ ईति पदं ॥
 ॥ प्रभाती ॥

प्रभु तुम तारक हो तिहुं जग के
 प्र९ ॥ आनंद कंद सदा सुख दायक
 नायक हो सिव मग के ॥ प्र९ ॥ मो
 सुं अधम अनेक उधारे अधिकारी
 जिय अघ के ॥ प्र९ ॥ श्वान सिंघ
 सुर पद दुर के कीने नाथ सुरग के
 प्र९ ॥ परम पातकी दुर गति गामीं
 साधन हार नरक के ॥ प्र९ ॥ अँसे
 पतित पवल करला रे सारे काज कु

रग के ॥ प्र९ ॥ दुरित दलन दुख से
 कट भजन सदा सदन उछ रग के
 प्र९ ॥ हरख अद ब्रध मान जिनेसर
 हित कारों चिहु सग के ॥ प्र९ पद ॥

॥ बेलाउल ॥

रे घरियाले याउरे मत घरिय
 यजावे नर सिर धार्ध पागरी तू
 क्या घरिय यजावे रे ॥ केवल काल
 कला कलै पै तू अकल कहावे अक
 ल कला घट मै घरों मोहि सो घरी
 मावे रे ॥ आत्म अनुभव रस भरों
 यामें ओर न मावे आनद घन अथि
 षल कला यिरका कोई पावे रे ॥
 पद ॥

॥ बेलाउल ॥

क्या सोवे उठ जाग बाउरे अंज
 रि जलज्यं प्रायु घटत है देत पो
 हरिया घरिय घाउरे क्या । इंड्र चं
 ड्र मुनी नागेंद्र चलै सब कुण राजा प
 ति साह राउरे क्या । भमत २ भव
 जलधि पाय के भगवंत भगति सुभा
 व नाउरे क्या । कहा बिलंब करे अब
 घोरो नर भव जल निधि पार पाउ
 रे आनंद घन चेतन मय मूर्ति सु
 द्र निरंजन देव धाउरे क्या० । इति

॥ बेलाउल ॥

उदयो आज आनंद मे० । देव
 दयाल भली विध देष्यो श्री श्रेयांस
 जिनंद मे० । सुंदर रूप बहल की
 शोभा बरन सकत नहि इद पूरण

पुन्य किया प्रभु पायो करुणा सजल
 समद मे० । सुध मन सेवित नाग न
 रा मर शब्द सुरिद मुनिद शरण क
 मल प्रणमति प्रमुदित चित श्री जि
 न लाम सुरिद मे० । इति पद ॥

॥ बेलाल ॥

मेरे इतनी चाहिये नित दरसन
 पाउ शरन कमल सेवा करू मेरा जी
 व रमाउ मे० । मन पकज के महल
 में प्रभु पास बसाउ निपट न जीके
 हुय रहू शरनें चित लाउ मे० । अत
 र जामो एक तु अतरीक गुण गाउ
 आनद के प्रभु पास जी मैं धोर न
 भ्याउ मे० । इति पद ॥

॥ राज बेलाल ॥

तब प्रभु अजित कहायो मेरो प्र
 भु काहूके बसि नायो त० । मास्यो
 मदन महा मेवासी मोह मही के मन
 भायो पं चेंद्री मन अरू षट क्रम
 तिहां निज हुकम मनायो त० । अं
 त रंग अरि सकल विनासे परमाणंद
 सुख पायो औसो राज अजित जिन
 चक्र धर उर पुर तखत सुहायो त०
 ईति पदं ॥

॥ सुहा वेलाउल ॥

भगवत भजन करन की वेला क्या
 सोवे उठ प्रगट उजेला भ० । काल
 निर्र्थक मत खोवो प्राणी फिर पा
 ना नर जनम दुहेला भ० । ज्योति
 श्वरूप निरख अविनाशी छट बासी

तन ताप युक्तेला म० । छलख निधा
 न प्रगट सन मुख ही जिनसे जनम
 मरण मय ठेला म१ । चुकी चित्त वि
 चार विश्वकी ज्ञान गुरु परधान है
 चेला म० । मिथ्या त्याग तिहा चढ
 धँटे जहा अधिधल सिद्धी का डेरा
 म० ॥ पद ॥

॥ सुहा बेलाउल ॥

समस्त मन जग धीखे की टाटी
 काल घनाद ते मोह नौद यस जि
 दगी अकारय काटी स० । गाफिल
 क्यु अथ चेत असुर नर काल खना
 लिये साटी स० ॥ अध्यात्म घर ध्या
 न हिये में तोम करम की काठी स ॥
 स्त्र गुण रच पर गुण मत राधो आ

खर एक दिन माटी स९ ॥ दास चु
नी शुभ भाव मै लीन हो लंघ भव
सागर घाटी स९ ॥ इति पदं ॥

॥ भैरवी ॥

दीन के नाथ दयाल सभन को
तैं काहेकुं कृपा बिसारी रे दी९ ॥
मै हुं दीन अनाथ जगत मै तुं सा
हिव उपकारी रे दी९ ॥ प्रण अपने
की रीत निबहिये दो संपद सुख का
री रे दी० ॥ दास चुनी सेवक की
अरजी सुनिये प्रभु जस घारी रे दी
ईति पदं ॥

॥ गजल भैरवी ॥

गुरू देव जी का ध्यान सदा चि
त मै लाईये पातिक सकल भव भव

के खिण मैं गमाईये ॥ निरुपम श्व
 रूप जिन का अभी रस से है मरा
 निर्मल गुणों को देख देख आनंद पाईये
 गए ॥ साहिय सुजान जिनके चरन
 की सरन गही जागी सुमति सुधर
 सैं परम पद को घ्याईये गए ॥
 दाता दयालु जिनके सिधाय जग में
 कोन है जिनकी कृपा शोधोच हिये
 मैं जगायिये गए ॥ गुरु भक्ति आन
 अपने हृदय बीच धूनी दास सेवा
 में मन को दीजे सुजस सुख से गाई
 येग० इतिपद ॥

॥ आसाधरी ॥

औधू ए जग का आकारा कोई
 कस्या न करणे हारा अ१ । पृथवी

पानी पवन आकाशा देखत हेत अ
 चंभा इत्यादिक आधेयै परगट दीस
 त कोयन थंभा अ१ ॥ या भरमै भू
 लै जग वासी करता कारण गावे
 करम रहित जग करता कारक कैसे
 कर संभावे अ१ ॥ कर्त्तू अकर्त्तू अन्य
 था करणे समरथ साहिव माया घ
 ट पट घटना यै पुन पटवी या रच
 जग निर माया अ० ॥ कस्यो न कोई
 करै न करसी एह अनादि सुभावे
 विनस्यो कवहि न विनसै ए जग
 जिन आगम जिन गावे अ १ ॥ अ
 गन सिला पंकज नहि अगटै शशक
 उठै नहि सींगा आकासै न हुवे फूर
 वारी कैसे माया अंगा अ१ ॥ कृत

विनास अक्षुत्त अविनाशी सद्यः प्र
 माण प्रमाणे ए लक्षण तुमरी लक्ष्णा
 ये सकर दूषण आनें अ ॥ अत आ
 दि विन लोक न कहिस्यो घण अ
 हिरण समासी प्रथम पछे घटना न
 हि समव सम का छैहि घमासी अ१
 प्रथम पछे पुरखा नहि नारी तेसै
 ईमा पखी घोज वृक्ष नहि पाछे प
 हिले हे सम काळ अपेखीं अ१ ॥
 लोक घनादि घनत भगर्षीं हे पट
 सूव्य घसेरा याके अंते ज्ञान सार पद
 सय सिद्धो का डेरा ॥ अ१ पद ॥
 ॥ आसाधरों ॥

अवधू आत्म तत गत घूमै आ
 पाहि आप सज्जमें अ१ ॥ आत्म दे

व धरम गुरू आतम आतम सिख सि
 ख शिक्षा आतम शिव पद कर्त्ता कर
 णीं आतम तत्व परिक्षा अ० ॥ आतम
 गुण थानक आरोहण क्षायक चरण
 वितरणी आतम के बल दंसण ना
 णी अचल अमर पद धरणी अ० ।
 अरिहंत सिद्ध आचारिज पाठक सा
 धू संयम वंता आतम मेरो ज्ञान सा
 र पद अव्याबाध अनंता अ० ।
 इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

अवधू या जग के जग वासी ।
 आसा धार उदासी अ० । जलधि
 उलंघै गिणयन अंगै जिय जोखम
 मेपेसै जे निर आसी खुसल उदासी

दिल चाहे उठ वैसे अ० । वे देह क
 धिन जो निर आसी सोइ विद्वन
 मासी याकी आसा धिन आसा नो
 धीज कौन उगासी अ० । कामादि
 क सुष यानी सतति पर परणित
 की मासी याते योगी सोय सरोगी
 जो आसा नहि चासी अ० । ब्रम्ह
 रघु मधि अन हृद धूनिकु सहजे आ
 प घुरासी आत्म परमात्मता अ
 नुसर ज्ञान सार पद पासी अ० ।
 इति पद ॥

॥ आसावरी ॥

अथधू आत्म मरम मुलाना या
 नें आत्म तत न पिछाना अ० ।
 आत्म तत में भ्रम तम नाही निज

सरूप उजियारा जनम मरण गति
 आगति नाही शिव पद विच वसि
 यारा अ० । जिह नहि रोग सोग न
 हि भोगा अचल अनादि अगाधा
 याके अभिधा ज्ञान सार पद अक्षय
 अव्या बाधा अ० । इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

अवधू सुमति सुहागन जागी कु
 मति दुहागनि भागी अ० । अविसं
 वाद पक्ष फल अन्वित जिन आगम
 अनुयाई अैसे सवद अरथ की प्राप
 ति याकी संगत पाई अ० । विधि
 प्रतिषेध करी आतम थी रूप दुव्य
 अविरोधी अैसे आतम धर्म गृहण
 विध गृहियो गृहण विबोधी अ० ।

न रह्या भरम भया उजियारा तदग
त धर्म विचारा ज्ञान सार पद निह
चे चीना जल मय जल व्यापारा अ
इति पद ॥

॥ आसाधरी ॥

अधधू आत्म रूप प्रकाशा भरम
रह्या नहि मासा अ० । नहि हम
इद्दी मन यष तन बल नहि हम
मास उसासा अ० । क्रोध मान मा
या नहि लोभा नहि हम जग की
आसा नहि हम रूपी नहि मय कूपी
नहि हम हरख उदासा अ० । अध
मोक्ष नहि हमरे कयही नहि उप
पात विनासा सुद्ध सरूपी हम सय
कार्ले ज्ञान सार पद यासा अ० ।

इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

अथधू आतम धर्म सुभावे हम
संसार न आवे येही भरम हम मय
संसारा हम संसार समाए उदित
सुभाव भानु आतम घट भ्रमत मते
भर माए अ० । पट घट घटना घट
पट न घटै तीनुं काल प्रमायै जला
व धारण थी सीता तप घट मैं क
ब न घटायै अ० । तैसे आप धरम
थी आतम केई काल न जावे नि
भरम सदा काल तुझ मांही चेतन
धरम रमावे अ० ॥ जल तरंग थी
अन चल चंचल क्वाया वृक्ष लखावे
ज्ञान सार पद मय निहचे नय सि

सु अनादि सुभावे अ१ ॥ इति पद
॥ आसावरी ॥

अथधू जिन मत अग उपगारी
या हम निहृषे धारी अ१ ॥ सरय
मर्ह सरयगे माने ससा मिन्न सुभावे
मिन्न २ पट मत गम माखे मत म
मत्त हट नावे अ१ ॥ नय धादी अ
पनो मत धापे और सहू उधापे ए
हने धाप उधापक युद्धी एक २ दे
से धापे अ१ ॥ जे २ सिद्धा तो मा
भाप्या पट मत अग यतावे जिन
मस ने सरयगी दाखे पिणन विरोध
जणावे अ१ ॥ मत ममत्त वाता न
उदीरे तदगत सुद्ध सुभावे यदे न
हि निदे नाहि सयकु यथा जोग्य

पर चावे अ१ ॥ एहवो निक्कोधी नि
रमानी अम माई अममत्ती तेणे जि
न मत रहिस पिक्काण्यो अन्य ते म
त्त ममत्ती अ१ ॥ झैसे सुद्ध जिना
गम वेदी जे निज आतम वेदे ज्ञान
सारथी सुद्ध सुपरणित पावे सिद्ध
अखेदे अ१ ॥ इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

अवधू कैसी कुटुंब सगाई थाको
नहि संबंध सदाई अ१ ॥ मात पि
ता दयिता बैठेही सक जो सुत मर
जाई उन बैठेही मात पिता सुत
झांधी मै उठ जाइ अ१ ॥ जननी
जाया जाया जननीं मर पिय थाये
माई माता बनिता बनिता माता

पित माता पुन घाई अ१ ॥ दुप दो
 हग दुरगते अकेलो जनमे फिर मर
 जायी बब भोग में आप अकेलो
 बपू समझे नहि मायी अ१ ॥ शुद्ध
 अनादि रूप कू सोचे जन्म में तू न
 समायी सम वायी गुन जौ तुम्ह सू
 के ज्ञान सार पद रायी अ१ ॥ यि
 ति पद ॥

॥ आसाधरी ॥

साधो मायीँ असा जोग कमाया
 चाते मुगध लोक भरमाया सा१ ॥
 याह्य क्रिया दर सायीँ साधी अभ्य
 तर से केरा मा साहस पर कर फिर
 सोधत रे रे आसम भोरा स१ ॥ स
 जम पा यो पुन्य सयोगेँ पाल्यो न

हि ते पापी फिर औसो नहि दाव
 बनेगो चितवन चित अख्यापी सा० ।
 क्या कहिये क्यु कह्यो हुन मानें रे
 रे आतम अंधा ज्ञान सार निज रूप
 निहारे निहचे हुय निर बंधा सा० ।
 इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

साधो भाई आतम खेल अखेला
 सो हम खेल न खेला सा० । बंध
 मोक्ष सुख दुख की घटना आतम
 खेल न घटना सिद्ध सनातन हैं सब
 कालें उपत विनास अघटना सा० ।
 नाही पुरुष नपुंसक नारी शब्द रूप
 नहि फासा नहि रस गंध नही बल
 आयू नहि केउ सास उसासा सा० ।

५

नहि तद्दा सूते नहि जागै नहि उमे
 नहि बैठे नाही जले जलन की भा
 ला नहि समाधि मे बैठे सा० । ए
 निहृषे आत्म के खेला इन में कब
 हू न आए हम विवहारी आत्म ह
 मरे भ्रमतमते भरमाए सा० । गया
 मरम भया उजियारा लोका लोक
 प्रकासा ज्ञान सार पद निरूपम भी
 भा उनका यही तमासा सा० इति
 पद ॥

॥ आसाधरी ॥

अधु हम विन जग कधु नाही
 जगत हमारे माही अ० । हमहों ने
 कीया ससारा हम ससार की पूंजी
 पाच दुष्य हमरो परिवारा हम वि

न वस्तु न दूजी अ० । उपति नास
 थित मय संसारा सो हमरो व्यवहा
 रा उपत खपत थित करता हमही
 याते हम संसारा अ० । एक कला
 हमरी हम छोडे सब जग कूं निर
 मावे वाही कला हम माहि मिलावे
 हम मैं जगत समावे अ० । एक क
 ला व्यापी जो हम घर याते असंख
 विभागे हमरो सर्व कला व्यापी घर
 जोति अखंडित जागैं अ० । ज्ञान
 स्तार पद अकल अखंडित अचल अ
 रुज अविनासी चिदानंद चिदरूप
 परम पद चिद घन घन अभिधासी
 अ० इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

साधो भाई जय हम भए निरा
 सी तय ते आसा दासी सा० । राव
 रक धन निर धन पुरसा सय ही
 हमरे सरिसा निर आदर आदर ग
 मनागम नहि कोई हरख उदासा
 सा० । राजा केउ पाय जो फरसे तो
 हू तनक न राजी दुर बचनें जो के
 उ सरजे तो आत्मन घिराजी सा०
 जरा जनम मरण बस काया याते
 नहीं भरोसा धिन प्रतीत के आसा
 धारे छोम दिया तिण सोसा सा० ।
 अत्र बेफिकर खुसी दिछ सय दिन
 बे तमाह मन भरती याते उदै अरस
 नहि धूर्ने क्या सूना क्या बरती
 भूख पिपासा शीत उसनता सरबे त

नु न खमावे सरस निरस लाभा लाभै
 पुन हरख शोक मन नावे सा० ।
 एते पर आतम अनु भोगति मन
 समाधि नहि आवे मन समाधि वि
 न ज्ञान सार पद कैसे हू नहि पावे
 सा० इति पदं ॥

॥ आसावरी ॥

आसा औरन की क्या कीजे ज्ञान
 सुधा रस पीजे आ० ॥ भट के द्वार
 द्वार लोकन के कूकर आसा धारी
 आतम अनुभव रस के रसिया उतरे
 न कबहुं खुमारी आ१ । आसा दा
 सी के जे जाए ते जन जग के दासा
 आसा दासी करे जे नायक लायक
 अनुभव प्यासा आ१ ॥ मनसा प्या

छा प्रेम मसाला प्रेमै अगनि प्रजा
 छी तन भाठी अबटाय पिये कस
 जागे अनुभव छाली अ१ ॥ अगम
 पियाला पीयो मसवाला चीनी आ
 तम घासा आनद घन वे जग में
 पेलें देखें लोक तमासा अ१ ॥ इति
 पद ॥

॥ राग विभास ॥

जागीये नृप नाभि नद प्राण ना
 घ प्यारे जा१ ॥ प्रात मयो तिमर
 गयो चिरिया बहकारे उद्योत अरु
 ण किरण धार हेत राग न्यारे ज१ ।
 अकई प्रीउ सु मिली खखर हु की
 भास पुली मदि परी दीप करी तेज
 हीन सारे अ१ ॥ कमल प्रकास भास

भमर गुंजार पास शीतल सुगंध मंद
 पौन चारे ज९ ॥ मुख तैं पट दूर
 कीजै जननी कुं दरस दीजै कुमर
 कलेंवा कीजै पास वास धारे ज९ ।
 सुन के सब बैन जागैं सबे बन जा
 न लागैं वागैं है मंगल तूर षेभ प्रा
 त वारे ज९ ॥ इति पदं ॥

॥ राग विभास ॥

भाव धरि धन्य दिन आज सफ
 ह्यो गिणुं आज मै सजनि आनंद पा
 यो भ९ ॥ हरख घर निजर भरि बि
 मल गिरि निरख कर रजत मणि
 कनक मोतिन बधायो भ९ ॥ पग
 पगै उमग धर पंथ नित पूकृता
 धन्य देा चरण जिण चलत अयो आं

ज घन दीह जागी सुकृत की दसा
 आज घन दीह प्रभु सुजश गाये
 भ९ ॥ दूर दुर्गति टर्ली जात्र विघ
 सुकरी पुन्य मठार पोर्ते मरायो घद
 त जिन राज मन रग सुर गिरि शि
 खर रिपम जिन घद सुर तरु कहा
 ये इति पद ॥

॥ राग विमाश ॥

सुण त्रिभुवन के रे राज अजित
 जिनेश्वर श्यामी प्रभु मोहि तारे
 दुख निवारो कौणै शिव पुर गामी
 अ९ ॥ काठ अनादि भूमतमै छहि
 यो निष अनुभव हित कर्मो परे प
 रणित शोचि रह्यो नित ज्ञान्यो जग
 अतर जामी अ९ ॥ परम पुरुष तु

तुं हि परमेश्वर पुण्ये तेरी सेवा पामी
 श्रव भूमभाव मिटाय करो सम गणि
 विलास जसनामी अ० ॥ इति पदं ॥

॥ राग विहाग ॥

कवन गत होगी आत्म राम क्यं
 भूले निज धाम क० । काल अनादि
 तैं लख चउरासी भटके ठाम कुठाम
 क० । श्वगुण परगुण पहिचान किए
 विन मिलैं नही विसराम चेतन चि
 त्त विचार के देखो निज गुण अप
 ना धाम क० । दास चुन्नी आत्म
 विचार मै पावैं पद अभिराम श्री
 वीर जिनेंद्र प्रभु को सेवा से सुधरे
 सय हीं काम क० । इति पदं ॥

॥ वीहाग ॥

नधरिया मध सागर में छटकी
 दीन दयाल नधरिया भ० । तारण
 हार अघर नही दूजो दूढ फिस्वो
 पिर काल न० । सुमा सुम गुन गु ये
 अनादि पुस्वो कर मन आल अन
 त नीर थलि थदरसट निपट थि
 कट थिकराल न० । में जाने सरयज्ञ
 सजाती अरज गुजारी हाल अपना
 जान अघस करलीजै सपूरण प्रति
 पाल न० । इति पद ॥

॥ देसी थिहाग ॥

मैतो कीयेहैपाप अनेक प्रमू जी
 कैसे तारे गे मै० । जनम २ मै कीं
 ने पातिक थिने धरम ननेक तुम
 प्रमु सारक जान्यो नाही हुधो न ह

दय विवेक प्र० । आगै पातिक जो
 मै कीने कहत न आवे पार छिन
 २ अजहूं पाप करत हूं समभक्त ना
 हि गवार प्र० । लघु पापी बहुतारे
 जे प्रभु सहज हूं तोते काज हम वर
 पापी कठिन तारवो सुन लीज्यो भ
 हा राज प्र० । मै भी हूं पतितन मै
 मुखिया तुम तारक प्रभु एक अत्र
 तो भली बनी कैसेही रहै तुमारी
 टेक प्र० । स्वार्थ काज कहै सब
 कोई अजुगत जुगती बात दया
 करो मोहि दीन जानके क्षमा करो
 मेरे तात प्र० । तुम गुण चितवन
 करतहि तत खिण पाप गए सब भाज
 सेवक अब जान्यो यह निहचे तारे

गो जिन राज प्र० । इति पदं ।

॥ राग ग धार ॥

चतुर नर चेत हु ज्ञान गुनी जी
धन धन छीजत छिन छिन में गो
खम नीर घुनी च० मोह महा मदि
रा मद मासो मारने न कही न सुनी
रामा रामा धन २ भोंखत जैसे दीन
दुनी च० । जो दिन जात घटत सो
तन थल आवत नाहि फुनी कर उ
पकार परम पद पावो कहत कषया
ण मुनी च० ३ । इति पद ॥

॥ देव ग धार ॥

प्रभु तेरी मूरत रूप धनी प्र० ।
अग अग की अनुपम शोभा मरनी
सपत फनी प्र० ॥ सकल विकार र

हित विनु श्रंवर सुंदर सुभ करनी
 निरा भरण भासुर कृषि लाजत के
 टि तरण तरणी प्र० वसु रस रहित
 शांत रस राजत बलि यह साधु प
 नी जाति विरोध जंतु जिहि देखत
 तजत प्रकृति अपनी प्र० ॥ दरसन
 दुरित दूर चिर संचित सुर नर मन
 मोहनी रूप चंद कहा कहुं महिमा
 त्रिभुवन मुकट मनी प्र० ॥ इति
 पदं ॥

॥ नह ॥

अटके नयना जिन चरणां अ०
 सोई सफल घडी प्रभु जी कुं निरुपुं
 चरन कमल चित चटके नयना ० ॥
 चंद चकोर की प्रीत लगी है भरत

चढ़ें जैसे नटके न० ॥ नवल प्रीत
छागी निज प्रभुसे प्रभु रस पीवत
गटके न० ॥ इति पद ॥
॥ नह ॥

छर जिनवर मेरे मन भायो मन
भायोरी मन भायो छर नाथ मेरे
मन भायो अ० ॥ आज जगी सुद
शा सखि मेरी रसना करि जे गुण
गायो अ० ॥ धिपया रस मूल्यो
मूल्यो अति आरत रीद्ध बहुत धायो
ताते अधिक ससार बढायो अथ मै
पूरेन प्रभु पायो अ० ॥ अब मै पर
मारथ धन सच्यो समकित रतन सु
धिर ठायो भाग्यो भरम धरम को
इह फल सरणी राज तेरे धायो अ०

इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

हो नमि जिन मै निज रूप न
 जान्यो अवि कल्पी अज अमर अ
 जल्पी अचल अमल मन मान्यो हो०
 पर को रूप सरूप निहारत मन मै
 अति हरखान्यो पुद्गलको सब देख
 पसारो ताही में भर मान्यो हो० ॥
 नर भव पाय अकारथ खोयो बोयो
 बीज अजान्यो ज्ञान दृष्टि धर रूप
 न जोयो सोयो नींद अजान्यो हो० ॥
 काल अनादि अविद्या संगत निज
 घर भेद न जान्यो हो० ॥ गणि वि
 लास पर अब किरपा कर ज्युं सुध
 परत पिछान्यो हो ० ॥ इति पदं ॥

॥ स्वभाष ॥

सखि षड् प्रभु मेरे मन घसिया
 सपूरन प्रभु मुख संपेषत तन मन
 पकज थिकसिया स० ॥ षड् समान
 कहे जो कोई सोही मूरख सिरसजि
 या स० ॥ अकलकित जिन षड् भ्र
 नोपम सकलकित नित है थसिया
 स० ॥ सदा उद्योत सहित प्रभु सो
 है थाको उद्योत हुवे निशिया स० ॥
 घटत बढत लेखै करि देखत वो
 रहै नित प्रति मलि मसिया स० ॥
 प्रभु भद्रभुत सुत धनिता त्यागी
 वो है रोहिणि रग रसिया स० ॥
 सुर नर राहु करे नित सेवा वो है
 राहु गूह गसिया स० ॥ हर्ष षड् प्र

भु चरणें लागो लाजत लंकन के मि
सिया पदं ।

॥ नह ॥

किन गुन भयोरे उदासी भमरा
कि० ॥ पंख तेरी कारी मुख तेरो
पीरा सब फूलन को बासी भ० कि०
सब कलियन को रस तुम लीनो सो
क्यूं जाय निरासी भ० कि० ॥ आ
नंद घन प्रभु तुमारे मिलन कुं जाय
करवत ल्यूं कासी भ० कि० ॥ इति
पदं ॥

॥ नह ॥

देखो आली नट नागर को संग
ओरहि ओरहि खेलत तानें फीका
लागत अंग दे० ॥ ओरहना कहा

दीजै बहुत कर जीवत है इह ठग
मेरे ओर बिघ अतर एतो जेतो रूपै
रग दे० । तन सुध खोय घूमत मन
ऐसे मानु कष्टु इक खाई मग एते
परि आनद घन नावत ओर कहा
को दीसे सग दे० । इति पद ।

॥ स्वभाष ॥

जिनद की मैं धारी कृषि प्यारी जि०
बलि हारी मैं धार हजारि जि० य
दन शोभा भर धद शरदसी मेटै अ
सुम अधियारी जि० ॥ निरख धकी
रां हरख मरुयो प्रमु आनद मगल
कारी जि० ॥ चुकी वृषत भए दरस
णसै पूरो घास हमारी जि० क०
य० ॥ इति पद ॥

॥रागणी परज ॥

भाई रेसोही सदगुरुहै पूरा जिन
 कर्म सघन बन चूरा भा० ॥ जाके
 शील सनाह विराजै बैराग बकतर क्वा
 जै उपशम शिर टोप सुचंगा जे चढै
 विवेक तुरंगा भा० । जाके क्षमा ख
 डग कर सोहै शुभ ज्ञान ढाल मन
 मोहै धरै ध्यान धनुष अति भारी
 तप तरकस श्रुती कटारी भा० भा
 ला संतोष सुहाया बंदूक विरति म
 न लाया समकित गुन सेली धारे
 संयम सुभट लिये लारे भा० आगम
 रण तूर वजाया सामंत सुगुण उठ
 धाया मारे जड पांचो थाना तव प
 कड लिए दोउ दाना भा० ॥ जित

ने ये अहित अनैरे ते एक पलक में
 घेरे जघ जाय मेघासे मारे तघ भा
 गे शत्रु विचारे मा० ॥ मिथ्या मति
 कोट गिराया मूमभाव दरवजा ढा
 या मूदी मद लृष्टना खाई तव फे
 रो नगर दुहाई मा० ॥ जघ लोक शि
 खर हृद कीना शिव पुरमें डेरा दी
 ना मुनि हर्ष चद गुण गाया शुभ
 सुकृत परगना पाया मा० ॥ इति पद

॥ परज ॥

सिधाय जिन पद के जग में प्या
 रे विचार हर दम न कोई किसी का
 पै नाम अनुभव हिसु है प्यारे वि०
 जिसै समझता है ए तु मेरा समझ
 तू ठिल में कहा है तेरा फसा है ना

हक ममत में घेरा वि० ॥ ए मोह
 की तैं बिक्काई चोसर लगाई स्वारथ
 की बाजी इस पर है जीत पासे के
 हाथ दिलवर वि० ॥ सुघर खेलारी
 सोही कहावे ज्यो कूके पंजे नरद
 बचावे के लख चोरासी में फिर न
 आवे वि० ॥ ए चुन्नी प्रभु के भजन
 कुं गावे गुरू के चरणो में शिर न मा
 वे गुरू धरम का मरम बतावे वि०
 इति पदं ॥

॥ परज ॥

निरभय पद नाम निरंजन है प
 र मारथ से वो भिन्न नहीं जप अ
 जप अभय पद सुख कारी खोजै
 कोई उस का चिन्ह नहीं नि० ॥

बुद्धि अनुमान प्रमाण करै निरपेक्ष
 विरला कोई लख पाये ज्यो जीव
 भ्रम में मूल रहे उन के घट ज्ञान
 दरसन नहीं नि० ॥ मत धाले मत
 मत के माते पट धार जटा धारी
 है नहीं जोग जुगत की रीत मिली
 आचार विचार लखन नहीं नि० ॥
 आगम धर वेद पुरान पढे पढ प
 हित नाम धराय रहे पाया नहीं भे
 द अमेदीका गफलत में आप चेतन
 नहीं नि० ॥ परपक्ष रहित परमात्म
 है चुनी घट अतर सूखिम धारी है
 कोई आप धम्पासी प्रकाश करे नि
 रखे धम्ह रूप कठिन नहीं नि० ॥
 इति पद ॥

- ॥ परज ॥

मेरा मन लागा रहै श्वामी के
 पद पंकज में मे० ॥ प्रेम की डोरी
 लगी सत गुरू जी जो गुडी बस धा
 गा रहै मे० ॥ श्वामी मिलन दी आ
 स घणैरी पाउं दरस रस पागा रहै
 मे० ॥ जीवन सफल करो चुन्ती को
 रैन दिवस प्रेम जागा रहै मे० ॥
 इति पदं ॥

॥ परंज ॥

प्रभु मोसै कवन बहाने बोलो ।
 रैन दिहा मानुं ध्यान तु सांडा अं
 तर दे पटखोलो प्र० ॥ हाल असंडा
 तुभनुं मालुम श्वामी जी टुक जोलो
 प्र० ॥ आस पुरावो दास की श्वामी

मूट पट सग मिलोलो दास धुनी
पायो रत्न अमोलक बेर र वयु तो
छो प्र० ॥ इति पद ॥

। परज ।

सासरे री आज रग यघाई गा
ष गोर वै प्रीतिम आए धुनि श्रवन
न सुन पाई सा० । घस मस घठी
य मिठी सयम घर निरख हरख
हरखाई माया ममता कुयुधि कूधरी
रहीय यदन थिलखाई सा० । चेतन
ता केवल शिव कमला सुमति सु
चेतन राई ज्ञान सार सु रस वस हि
रु मिष्ट छीने कठ जगाई सा० ।
इति पद ॥

॥ परज ॥

ता जोगी चित लाउं रे बाला ।
 क्षमा खपर समकित की सींगी आ
 तम अलख जगाउं रे बाला ता० ।
 आदि पुरष का चेला होय के मोह
 के कान फराउं धरम सुकल मुद्दा
 दोउ सोहैं उपमा कहत न पाउं रे
 बा० ता० ॥ संजम डोरी शील कछो
 टी घुल २ गांठ दिलाउं ज्ञान गूद
 री गल में डारुं जोगासन ठहराउं
 रे बा० ता० ॥ श्राठ करम कंडे की
 धूणीं ध्यान सु अगनि जराउं उपश
 म छिन्न भस्म ठान के मल २ अंग
 लगाउं रे बा० ता० ॥ या विध यो
 गा सन ठहराउं भुक्ति महा फल पा
 वुं विष्णु भूषण जैसे गुरु सेवो बहुर

न कलि में आवु रे घा० ता० इति
पद ॥

॥ सारग ॥

मेरे पूजा श्री मगधत की प्रात
न्हाय सेवा में आवु सारे सधैं जिय
जतु की मे० ॥ जैन धरम जे दया
पदारथ यह निहधै जिय जतु की
अश्व सेन नदन प्रमु पारस सुमरन
पूजाँ अत की मे० ॥ इति पद ॥

॥ सारग ॥

चित चाहत सेवा धरन की धि
अश्व सेन अचिरा जी के नदन शा
ति माथ सुख करन की धि० ॥ ज
नम नगर हधना पुर जाको लखन
रेखा हरिन की तीस अधिक दस

धनुष प्रमाणै काया कंचन वरण की
 चि० ॥ कुरु वंशे इक लाख बरस
 थिति शोभा संयम धरण की केवल
 ज्ञान अनंत गुणाकर कीरत तारण
 तरण की चि० ॥ तुम विन और
 देव नहीं ध्यावुं मैं अपने जिय जान
 की हरख चंद्र प्रभु शिव सुख दायक
 भीति मिटावो मरण की चि० ॥ इ
 ति पदं ॥

॥ सारंग ॥

अनुभव ढोलन कव घर आवे ।
 अ० ॥ शशि मुख वचना मृत विन
 कैसे हृदय कमल विकसावे अ० ॥
 मोहनीय के लडका लडकी हस र
 गोद खिलावे चौगति महल कुमति

रस सगति रमते रैन विहावे अ० ॥
 भूठी घात तुमारे आगे कैसे कर घ
 तलावे सुमता नाम सुनत ही श्रवन
 न आत्म अति कठिनावे अ० ॥ क
 हा कहे को सुने सयानी कोसुमनन
 मिलावे ज्ञान सार आपा पर धीने
 यिन तेहे उठ आवे अ० ॥ इति
 पद ॥

॥ सारग ॥

नाथ विधारी आप विधारी दा
 सी तैं हित नित रति खेले यामें सी
 भ सुमारी ना० घर अपहर सी सु
 दर नारी छोडी खेलत जारी अमख
 भखें फूर तज सूकर त्यो याने भख
 मारी ना० ॥ सयम रमणी रागी आ

तम पर संगति अति प्यारी देख २
 निज घर घरणीं सुं प्यार करत अण
 प्यारी अ० ॥ सुमति पठायो अनुभो
 आयो पर घर परठ निवारी सुमता
 घरमें ज्ञानसारकुं ल्यायो लगियन
 वारी अ० ॥ इति पदं॥

॥ सारंग ॥

माई मेरो कंत अत्यंत कुवाणीमा।
 पर परणति तैं नाता जोरत तोरत
 निजतैं ताणीं मा० ॥ सुमति विरति
 श्रद्धा गुण परणम बोलत अवली
 वाणीं माया ममता अविरति कथने
 करिय कुमति पठराणी अ० ॥ यातैं
 मेरे बैरी जिनते मिलत अपाने जा
 णीं प्राणै प्रीत वनावुं कैसे ज्ञानसा

र रस घ्राणीं अ० ॥ इतिपद ॥

॥ सारग ॥

हमारी अस्त्रिया अति उलसानी ह०
दरसन देखत चित्ता मणिको रोमरो
म धिक्सानी ह० ॥ हरस्त्रिप्त नाघत
नैन पुतरी पलन मूद उधरानी घु
घरे नाद घूमन मनु फुदी अनहद
नाद घुरानी ह० ॥ मादल ताल प
लनकी फरसन रोम तार पुतरानी
तुघे यीन समाज मिलत सघ ज्ञान
सार रस दानी ह० ॥ इति पद ॥

॥ सारग ॥

प्रमु दीन दयाल दया करिये मैहु
अधम सुम अधम उधारन अपनें धि
रुद फु निरयहिये प्र० ॥ अधम

उधार अधम उधारण विरुद गह्यो
 चित चिंतइये मोहि उधार प्रत्यक्ष
 प्रमाणै विरुद मनुज लोगै कइये प्र० ।
 तोसो तारक अधम न मोसो उधरन
 कस क्युं ना करिये ज्ञान सारं पर
 राज निवाजै सहिजे भव सायर
 तरिये प्र० इति पदं ॥

॥ सारंग ॥

अनुभव हम हैं रावरी दासी आ
 ई कहांते माया ममता जानुंन कहां
 की वासी अ० ॥ रींभ परे वाके सं
 ग चेतन तुम क्युं रहत उदासी बर
 ज्यो न क्युं ए कंत कंत कुं लोक में
 होत न हासी अ० ॥ समभक्त नाहि
 निठुर पति पतनी पलक जात कू

मासी धानद धन प्रभु घर की सम
ता छटकल ओर मियासी अ० ॥
इति पद ॥

॥ पुन ॥

नाथ निहारो आप मतासी य
घक सठ सधक सीरीते खोटी खातो
खता सी ना० ॥ आप विगूचण ज
ग की हासी सेणप कोण यतासी
निज जन सुरिज न मेला औसा जै
सा दूध पतासी ना० ॥ ममता दा
सी अहित करि हर विघ विविघ
मात सतासी धानद धन प्रभु धीन
ती मानु ओर न हितु शमता सी
ना० । इति पद ॥

॥ पुन ॥

कहा कहिये हो आंप सयानते ।
 अंत दुखाय कह्यो नहि जाये प्यारो
 अपनी यान ते क० ॥ अन्योक्ती ह
 ष्टांत सुनावे कोई घाट बयानते क ।
 एते पर भी मूरन बूमै प्रगट देख
 अखियान ते क० उदम सिद्ध निदां
 न सरम घर सुमति कहै सखियान
 ते जाय मिलै अब ज्ञान सार नें कौ
 न गरज लजियान ते क० । इति
 पदं ॥

॥ धनाश्री ॥

आज महोच्छ्व रंग रलीरी जा
 यो सुत त्रिशलादे राणी कामित पू
 रण काम कलीरी आ० । सजि सि
 णमार सकल सुर वनिता अपणे २

मेल चलीरी आ० । आवस सिद्धा
 रथ के अगन पूरत मोतिन चोक पु
 रीरी आ० इद्ध हुक्म करि धनद
 पठायो सय यसुधा धन धान्य मरी
 री आ० । कनक रजत मणि पष य
 रण के कुसुम यखेरत गली गलीरी
 आ० । इद्धाणी मिल मगल गाथे
 नाटक नाचत सुर कुमरी री आ० ।
 घाजत गहिरसुर देवदु दुमी घीणा ये
 णु मृदग यजी री आ० । जय २
 कार मयो तिहु जग मै घ्याधि घ्य
 था सय यिपत टरी री आ० । हर
 ख षद जनम्यो प्रमु मेरी मन की
 आसा सफल फली री आ० । इति
 पद ॥

॥ धन्यश्री ॥

पिया मोसुं काहें न बोलै दे दे
सोवे पीठ पि० । सोतिन संग पि
या विरमा ये नेक न जोरै दीठ पि०
को जानें गति अंतर गति की वा
चूं कहा बसीठ कोलौं कहि कहि
पिय समभाउं निठुर निलज है दीठ
पि० । वीर विवेक पिया समभा ए
ता पर अनुभो ईत सरधा सुमता
ज्ञान सार तैं जाय मनाए नीठ पि०
इति पदं ॥

॥ धन्यश्री मुलतानी ॥

प्यारे नाह घर बिन यैहीं जी
वन जाय पिय बिन या वय पीहर
वासो कहि सखि केम सुहाय प्या ।

मेल खलीरी आ० । आवत सिद्धा
 रथ के अगन पूरत मोतिन चौक पु
 रीरी आ० इ इ हुकम करि धनद
 पठायो सय असुधा धन धान्य मरी
 री आ० । कनक रजत मणि पच थ
 रण के कुसुम बखेरत गली गलीरी
 आ० । इ इाणी मिल मगल गावे
 नाटक नाचत सुर कुमरी री आ० ।
 थाजत गहिरसुर देवदु दुमी थीणा ये
 णु मृदग यजी री आ० । जय २
 कार मयो तिहु जग मै घ्याधि घ्य
 था सय थिपत टरी री आ० । हर
 ख षद जनम्यो प्रभु मेरो मन की
 आसा सफल फली री आ० । इति
 पद ॥

॥ धन्यश्री ॥

पिया मोसुं काहें न बोलै दे दे
सोवे पीठ पि० । सोतिन संग पि
या विरसा ये नेक न जोरै दीठ पि०
को जानें गति अंतर गति की वा
चूं कहा बसीठ कोलौं कहि कहि
पिय समभाउं निठुर निलज है दीठ
पि० । बीर विवेक पिया समभा ए
ता पर अनुभो ईत सरधा सुमता
ज्ञान सार तैं जाय मनाए नीठ पि०
इति पदं ॥

॥ धन्यश्री मुलतानी ॥

प्यारे नाह घर बिन यौहीं जी
वन जाय पिय बिन या वय पीहर
वासो कहि सखि केम सुहाय प्या ।

हा हा कर सखि पैया परत हु कठ
हो नाह मनाय घर मदिर सु दर त
नु मूपण मास पिता न सुहाय प्या०
इक इक पलक कलप सो धीतत नी
सासे जिय जात ज्ञान सार पिय
घान मिळें घर तो सय दुख मिट
जाय प्या० ॥ इति पद ॥

॥ घन्यश्री ॥

भूयो ममत तु कहारे अजान
आल पपाल सकल तज मूरख कर
अनुभव रस पान मू० ॥ आय कृता
त गहेगो इक दिन हरि मृग जेम
अधान होय गो तन घन थी तु न्या
रो जिम पाक्यो तरु पान मू० ॥
मात तात तरुणी सुत सेती गरज

न सरत निदान चिदानंद ए वचन
 हमारो धर राखो प्रिय कान भू० ॥
 इति पदं ॥

॥ धन्यश्री ॥

संतो अचरिज रूप तमासा । की
 ढीके पग कुंजर बांध्यो जलमें मगर
 पियासा सं० । करत हलाहल पान
 रुची धर तज अमृत रस खासा चिं
 ता मणि तज धरत हैं चितमें काच
 शकल की आसा सं० ॥ धिन वादल
 बरखा अति बरसत विन दिग वह
 त बतासा बज गलत देखा हम ज
 लमें कोरा रहत बतासा सं० । वेर
 अनादि पिण उपर थी देखत लगत
 सगासा चिदानंद सीही जन उत्तम

क्या पतिया कापासा स० ॥ इतिपद
॥ धन्यश्री ॥

करले गुरुगम हान विधारा क०
नाम अध्यात्म ठवण सुधयी मा
व अध्यात्म न्यारा क० । एक शूद
जलयी जव प्रगटै श्रुत सागर विस
तारा धन्य जिनुने उलट उदधि कु
एक शूदमे डारा क० ॥ वीज रुधी
धर ममता परिसह लहि आगम अ
नु साश पर पखयी लख हण विध
आपा अहि कशुकि जिम न्यारा क०
मासपरत भूम नाश हुतासहु मिध्या
जगत पसारा चिदानंद चित अचल
होत ईम जिम नम धूका सारा क०
॥ ५ ॥ इति पद ॥

॥ धन्यश्री ॥

अब हम ऐसी मन में जांणी अ०
परमा रथ पथ समझ विना नर वे
द पुराण कहांणी अ० ॥ अंतर लक्ष
विगत उपर थी कष्ट करत बहु प्रा
णी कोट जतन करि उपल होत न
हि मथतां निसदिन पाणी अ० ॥
लवण पूतली थाह लेणकुं सायर मांहि
समाणी तामें मिल तदरूप भईते पल
ट कहैं कुण बाणी अ० ॥ षटमत मि
ल मातंग अंग लख युक्ती वहीत व
खाणी चिदानंद सरबांग विलोकी
तत्वारथ लहै ताणी अ० ॥ इतिपदं

॥ धन्यश्री ॥

कोटिक कष्ट हरो प्रमु मेरे को०

गुन गाउ ध्याउ प्रभु जी मैं धरन
 कमल धित धरके तेरेको० ॥ यह ससा
 र असार सागर मै मोह जनित स
 क्लेश घनेरे तुम बिन कौन दयाध
 उधारे धिसयादिक दुर गति मै गे
 रे को० दुख मजन कर नाथ निर
 जन छूटे घोरासी कस फेरे सुख दा
 यक प्रभु दास धुनी कु मध जल पा
 र उत्तार सर्वेरे को० ॥ इति पद ॥

॥ धन्यश्री ॥

धेर धेर नही आवे रे अघसर धे
 र धेर नही आवे अ० ॥ उयो जाने
 तो कथु कर छै भलाई जनम जनम
 सुख पावे अ० ॥ जाको मन साधे
 से राधो धाकु म्हुठ न भावे अ० ॥

तन कूटें धन कौन कामको काहे
 कृपण कहावे अ० । ज्यो कबु देना
 सो कुक्क लेना विन देनें नहि पावे
 आनंद धन प्रभु चलत पंथ पर स
 मर समर गुन गावे अ० । इति पदं
 ॥ धनाश्री ॥

माई तेरेआंग वधाई चंद्र कुमर
 सुत जाई मा० ॥ धन लक्षणादे भा
 ग तिहारो तू जंगमात कहाई मा०
 कृष्ण दिश कुमरी सब मिलके भूष
 ण वसन सजाई प्रभु गुण गावत
 नाचत आवत धपमप ताल वजाई
 मा० । २ । इन्द्रादिक सब सुर परि
 कर लेई मेरु शिखर पर जाई विधि
 पूर्वक मिलि न्हवण करावत मोहन

गोद थिठाई मा० । ३ । षड् पुरी में
जन्म महो छष घर २ मगल ठाई
जै जै कार करत नर नारी महसेन
नृप घर आई मा० । ४ । षड् सर
स द्युति कुमर निरख छवि दिग प
कज थिकसाई अचल रहो जग ना
यक मेरे पल २ जोत सधाई मा० ।
५ । पद इग तस्वरु ग्रम्ह सुषच्छर हे
म पूषम पदगाई मूत थिमल तिथि
सेवक सुख हित नमत गुलाथसदाई
मा० ॥ ६ ॥ इति पद ॥

॥ रागणी काफी ॥

पथीदारे पथ थलैगो प्रमु मजलै
दिन च्यार प० । मूठी काया मूठी
माया मूठी सब परिधार प० । था

ल पणो मैं खेल गमायो यौवन मा
या जाल पं० । बूढा पणआयो धर्म
न पायो पीछै करत पुकार का ले
आयो का लेजासी पुन्य पाप दोउं
लार पं० दया मया कर पास आवं
ती अब तेरोहि आधार पं० ॥ इति

॥ काफी ॥

वो सां इ मो वी नती कैसे
करूं वो० काल अनादि वयो मेरो
तुम विन भव बन माहि फिरूं अ
वतो तृभुवन नायक पेष्ट्यो हरखी
पाय परूं वो० क्युं कर नापुं तोहे
तुव तारो तेरा अंचल गही हुं भग
हुं वो० दरसन सुद्ध चरण अनुभव
के पर चेताय घरूं वो० तामैं अनु

गोद बिठाई मा० । ३ । चङ्ग पुरी में
 जन्म महो कृष घर २ मगल ठाई
 जै जै कार करत नर नारी महसेन
 नृप घर आई मा० । ४ । चङ्ग सर
 स द्युति कुमर निरख कृषि दिग प
 कज विकसाई अचल रहो जग ना
 यक मेरे पल २ जोत सयाई मा० ।
 ५ । पद इग तत्वरु ब्रम्ह सुबच्छर हे
 म पूषम पदगाई भूत विमल तिथि
 सेवक सुख हित ममत गुलाय सदाई
 मा० ॥ ६ ॥ इति पद ॥

॥ रागणी काफी ॥

पपीडारे पय चलेगी प्रमु मजलें
 दिन च्यार प० । मूठी काया मूठी
 माया मूठी सय परिघार प० । वा

॥ काफी ॥

तारो मोहिश्वाभी सरण तुमारे
 आयो काल अनंता नंत भमत में अ
 वमै दरसन पायो ता० तूं शिव ना
 यक सब गुण ज्ञायक नायक विरुद
 धरायो लायक जांणि आन मन भा
 वन पाय कमल चित लायो ता० ॥
 तुही निरंजन जनम निरंजन खंजन
 नैन सुहायो गुण विलाश प्रभु जि
 न शभि नंदन वंदन कुं ललचायो
 ता० ॥ इति पदं ॥

॥ काफी ॥

वांके गढ फोज चढीहें वाजै न
 गारंरी ठोर वांकोही मारग वाको
 ही राजा वांकोही कटक हें जोर

भ्रम चरन ध्यानसै पर श्वेताय धरु
ज्ञान सार प्रमु गुणमो तिनको क
ठै हार धरु यो० ६ ॥ इति पद ॥

॥ काफी ॥

मिल जा ज्यो रे साहिब ध्यान
नमै अजय अनुभव रगै मीठो रीभ
रह्यो तेरे नैननमै मि० एकही ध्या
नें प्यारो न्यारो करत भरम के फेन
नमै तख रूप सुधारस कोहँ मगन
भयो तेरे घेननमै मि० तू आलघन
सूरज उग्यो मो मन ढाके घेननमै
एक रूप इक ताने होवै ज्यो पार
घी एननमै मि० ज्ञान विमल जिन
ध्यान होये एही अखय सुख घेनन
मै मि० ॥ इति पद ॥

॥ काफी ॥

तारो मोहिश्वाभी सरण तुमारे
आयो काल अनंता नंत भमत में अ
बमै दरसन पायो ता० तूं शिव ना
यक सब गुण ज्ञायक नायक विरुद
धरायो लायक जांणि आन मन भा
वन पाय कमल चित लायो ता० ॥
तुही निरंजन जनम निरंजन खंजन
नेन सुहायो गुण विलाश प्रभु जि
न शभि नंदन वंदन कुं ललचायो
ता० ॥ इति पदं ॥

॥ काफी ॥

वांके गढ फोज चढीहें वाजै न
गारांरी ठोर वांकोही मारग वाको
ही राजा वांकोही कटक हें जोर

घा० मन दीवाने उपशम आगे ब
न आय मिले इक ठोर घा० ध्यान
नाला घूटे कोटि करम दूटै ज्ञान ग
गन घन घोर घा० ३ श्री सुविधि
जिने सर हुकम करोतो पकड मगा
उ आदुहि घोर घा० ॥ ४ ॥ इतिपद ॥
॥ काफी ॥

अकथ कथा कौण जाणै तेरो ब
तुर सनेही अण नय घाद नय पक्ष
गुहीनें भूठा भगडा ठाणै निरपख
लख खख श्वाद सुधा को ते तो त
नक नताणै ते० । छिनमै रूप रषत
नाना विध वेद अरूप यखाणै छि
न मूरख ज्ञानी हुये छिनमें न्याय
सकल जग जाणै ते० घोर साध क

छु कह्यो न पर तुहें लख नाना गु
ण ठाणै जैसो हेतु तैसो चिदानंद
चित्त श्रद्धा इम श्राणै ते० ॥ इति॥

॥ काफी जंगला ॥

जग में न तेरा कोई नर देख हु
निहचै जोई सुत तात मात श्र
रु नारी सहु श्वारथ के हितकारी
बिन श्वारथ शत्रू सोई ज० । १ ।

तू फिरै महा मद माता विषयनसंग
मूरख राता नीज संग की सुध बुध
खोई ज० ॥ २ ॥ घट ज्ञान कला न

विजाकुं पर निज मानत सुन ताकुं
श्राखर पकृतावा होई ज० ॥ ३ ॥

नबि अनो दम नरभव हारो निज
सुद्ध सरूप निहारो अंतर शमता

मलः खोई ज० ॥ ४ ॥ प्रभुः चिदान
 दकी घाणी निहृषे धाररे जग प्र
 णीं जिम सफल होत भव दीई ज०
 ॥ इति पद ॥

॥ काफी जगल ॥ १ ॥

भूठो जगत की माया जिने जा
 णी तिने भेद पाया भू० तन, धन
 जीवन सुख जेता सहु जानहु अयि
 रए तेता नर जिम यादल कोछाया
 भू० १ जिम अनीस भाव चित आ
 या लख गलित ब्रम्हकी छाया घूके
 करकडू राया भू० २ अय चिदानद
 मोहि क्यु करिये ममता नाहि सदगु
 रु य भेदलखाया भू० ३ ॥ इति पदं

॥ रागणी काफी ॥ १ ॥

अब तेरो दाव बन्यो है गाफिल
 क्यों मति मान आरिज देश उतम
 धूम संगति पाई पुन्य प्रमाण ते० ।
 क्रोध लोभ अरु माया ममता मि
 थ्या अरु अभिमान रात दिवस मनु
 वचनें रातो चेतन चेत सयान ते० ।
 मद मद क्वाक क्कथो ज्युं मैंगल
 पर मत गति आलान उपाडै तेरै क
 हा कारज जिन मत रहिस पिछान
 ते० । ३ । सत्ता वस्तु भिन्न है सब मैं
 सरबंगे सम भान इक २ देसी सब
 मत जाणै सरब देशी जिन जान
 ते० । ४ । सरबंगै सम जिन मत
 साधै बाधे आतम ज्ञान ज्ञान सार
 जिन मत रति आवै पावै प्रद नि

मलः खोई ज० ॥ ४ ॥ प्रभुः खिदान
 दकी घाणी निहचे धाररे जग प्र
 णी जिम सफल होत भव दीई ज०
 ॥ इति पद ॥

॥ काफी जगला ॥

भूठो जगत की माया जिने जा
 णी तिने भेद पाया भू० तन धन
 जीवन सुख जेता सहु जानहु अथि
 रए सेता नर जिम घादल की छाया
 भू० १ जिम अनीत माव चित आ
 या लख गलित ब्रम्हकी छाया धूमके
 करफडू राया भू० २ अथ खिदानद
 मोहि कथु करिये ममता नाहि सदगु
 रु य भेदलखाया भू० ३ ॥ इति पदं

॥ रागणी काफी ॥

अत्र तेरो दाव बन्यो है गाफिल
 क्यौं मति मान आरिज देश उतम
 धूम संगति पाई पुन्य प्रमाण ते० ।
 क्रोध लोभ अरु माया ममता मि
 थ्या अरु अभिमान रात दिवस मन
 वचनें रातो चेतन चेत सयान ते० ।
 मद मद क्वाक क्क्यो ज्यूं मैंगल
 पर मत गति आलान उपाडै तेरै क
 हा करज जिन मत रहिस पिछान
 ते० । ३ । सत्ता वस्तु भिन्न है सब मै
 सरबंगे सम भान इक २ देसी सब
 मत जाणै सरब देशी जिन जान
 ते० । ४ । सरबंगै सम जिन मत
 साथै बाधे आतम ज्ञान ज्ञान सार
 जिन मत रति आवे पावै प्रद नि

रघान ते० । ५१ इति पद ॥ -

॥ काफी ॥

हठीली घ्राप्या टेकन मेटै फिर
 फिर देखन जाई ए आकणी। छयल
 छधीली पीय छधी निरख तपति
 न होई हठ करी दुक हठ के देत
 निगोरी रोई ह० । १ । मागर ज्यू
 दुगाय के रही पीय सधि के धार
 लाज डाग माने नही कान पिछेडा
 डार ह० । २ । अटकत नेक नही
 काहु की हठ के नही तिल कोर हा
 धी घ्राप मते अरे पावे न महावत
 जोर ह० । ३ । सुन अनुभव प्रीतम
 धिना प्राण जात नवि आहि हजी
 न चातुर घ्रातुरी दूर आनद घन

नाहि ह० । ४ । इति पदं ॥

॥ काफी ॥

साधो भाई पंच दकार सहाई
 सो जग गुरु श्री मुख गाई पंच द
 कार किई गति पंचम पाय विभै वह
 जाई सा० । १ । दान रु दया दमिं
 ङ्गी दर्शन देवार्चन सुख दाई पंच
 विधान दान जिन भासै तिन में दो
 शिव दाई सा० ॥ २ ॥ तीन दान
 जग सुख के कारण सुजस धजा फ
 हराई दया प्रगट सब मत में वरणी
 पिण जिन अधिक सुनाई सा० ॥ ३
 इंङ्गी दमन हरण भव संकट मुक्ति
 वधू वर दाई सत्य सरूप लखन स
 च जग को दर्शन नाम कहाई सा०

१ ॥ धीत राग जग देव थिमल की
 सेवा सूत्र जणाई पक्ष रहित यहै आ
 घ पाष्य तु जो जग घहत थडाई
 सा० ॥ ५ ॥ कर्म फद दूटे थिन कैं
 से हित की यात सुहाई कहत गु
 लाथ थिना सद गुरु तेरो भर्म न
 जैंहें भाई सा० ॥ ६ ॥ इति पद ॥

॥ काफी ॥

अलख लखा किम जावे हो अ
 सी कोउ जुगति यतावे अ० 'तन
 मन वचना तीत ध्यान घर अजपा
 जाप जपावे होय अढोउ लोउता
 त्यागी ह्यान सरोज यतावे हो अ०
 १ ॥ सुद्ध शवरूप में सुगत सभारे म
 मता दूर यहाये कनक उपल मल

भिन्नता काजै जोगानिल उपजावे
अ० ॥ २ ॥ एक समै सम श्रेणी रो
पी चिदानंद ए गावे अलख रूप हो
य अलख समावै अलख भेद इम पावै
हो अ० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ काफी ॥

जोलौ अनुभव ज्ञान रे घट में
प्रगट भयो नहीं जो० तोलौ मन थि
र होत नहीं छिन जिम पीपर को,
पान वेद भन्यो पिण भेद बिना सब
पोथी थोथी जान जो० ॥ १ ॥ रस
भाजन में रहत बीनीत नहीं तस
रस पहिचान तिम श्रुत पाठी पंडि
त कुं पिण प्रवचन कहत अज्ञान जो
२ ॥ सार लह्यां विन भार कह्यो श्रु

स खर दृष्टात प्रमाण चिदानन्द अ
 ध्यातम सेती समभक्त परत एक तान
 जो० ॥ ३ ॥ इति पद ॥

॥ टोढी ॥

निर पख विरला कोई अवधू दे
 खा जगत सहु जोई अ० ॥ समरस
 भाव भला चित जाके थाप उधाप
 न होई अ० ॥ १ ॥ राव रक में मेद
 न जानें फनक उपल सम लेखै ना
 रो नागिन को नहि परिचय ते शि
 व मंदिर देखै अ० ॥ २ ॥ निदा अ
 स्तुति श्रवण सुणी नें हरख सोक
 नाथि आर्णें ते जग में जोगीश्वर पू
 रा नित धद ते गुण ठाणें अ० ॥ २ ॥
 धद समान समता है जाकी सायर

जिम गंभीरा अप्रमत्त भारंड परे
नित सुर गिरि सम शुचि धीरा अ०
४ ॥ पंकज नाम धराय पंकसुं रहत
कमल जिम न्यारा चिदानंद असा
जन उत्तम ते साहिव कां प्यारा अ०
५ ॥ इति पदं ॥

॥ टोडी ॥

लघुता मेरे मन मानी लही गुरु
ज्ञान निसानी ल० मद अष्ट जिनुं
ने धारे ते दुरगति गये विचारे देखो
जगत में ये प्राणी दुख लहत अधि
क अज्ञानी ल० १ ॥ शशि सूरज व
डे कहावे ते राहू के बस आवें ता
रा गण लघुता धारी सुरभानुं भीत
निवारी ल० ॥ २ ॥ छोटी अति

जोयण गधी लहे पट रस श्वादः सु
 गधी करटी मोटाई धारे ते क्कार सीसै
 निज डारे ल० ॥ ३ ॥ जय घाल श्द
 होइ घायें तव सहु जग देखण धात्रे
 पुनिम श्द यडा कहावे तव खीण
 कला होइ जावे ल० ॥ ४ ॥ गिरुवा
 हम मन मा घेदै उप, श्रवण नासि
 का क्कदै अग माहें लघु कहावे ते
 कारण शरण पुजावे ल० ॥ ५ ॥ मि
 शु राज धाम में लावे सखि हिल मि
 ल गोद खिलावे होय यमा जाण त
 वि प्रावे जावे तो सीस कटावे ल०
 ६ ॥ अतर, मद भाष घहावे तव श्रि
 मुखन नाप कहावे इम चिदानद ए
 गावे रहणी विरला कोड पावे ल०

७ ॥ इति पदं ॥

॥ टोढी ॥

कथनि कथै सहु कोई रहणी अ
 ति दुरलभ होई शुक राम को नाम
 बखाणै नवि पर मारथ तस जाणें
 या विध भणी घेद सुणावे पिण अ
 कल कला नवि पावे क० ॥ १ ॥ ष
 ट श्रीस प्रकारे रसोई मुख गिणतां
 तृपति न होई शिसु नाम नहि तस
 ह्वे रस श्वादत सुख अति वेवें क०
 २ ॥ बंदी जन कमखा गावे सुणि
 सूरु सीस कटावें जव रुंड मूढता
 भासैं कहुं आंगल चारण नासैं क०
 ३ ॥ करणी तो जगत मजूरी रहणी
 तो बंद हजूरी कहणी साकर सम

मीठी रहणी अति लागे अनीठी। क०
४ ॥ अब रहणी कायर पार्वे कघणी
सय गिनती । आर्वे अब चिदोनद इम
जोई रहणी की सेज रहे सोई क० ॥
५ ॥ इति पद ॥)
॥ टोडी ॥)
॥ श्वेतन चतुर शैगान छरी री जी
सखे मोह राज को कसकर मसि क
रि छाडि अतादि धरी री से० ॥ १
नागी काढे ताड से दुसमन लागे काँ
षी दोय धरी री अघल अवाधित
फेवल मुन सिफ पावे शिध पद गा
ह मरी री से० ॥ २ ॥ ओर कुराई करै
सो भोरा सूर प्रहारे । माये अरी री
धरम मरम कहा घूमै न ओरै रहे

आनंद घन पद पकरी री चे० ॥ ३
इति पदं ॥

॥ टोडी ॥

निपट ही कठिन कठोर री शिवा
देवी को नंदने नि० ॥ १ ॥ मेरी घेर
भये सुन सजनी जैसे नेम निठोर री
शि० ॥ १ ॥ नव भव नेह निवार प
लक में प्रीत पुरानी तोर री शि०
तोरन थी रथ फेर सिधारे गढ गिर
नार की झोर री शि० ॥ २ ॥ कृष्ण
न कोटि यादव हरि हल धर ठाढे
करत निहोर री शि० काहू को क
ह्यो मानत नाही मांड रहे हठ जोर
री शि० ॥ ३ ॥ बहुत मनाय मनाय
रही हूं अरज करूं कर जोर री हरख

शब्द नेमं मामत नाहों रयन गर्हं म
यो मोर री शि० ॥ ४ इति पद ॥

॥ जगला ॥

जिन राज चरण की मैं शरण
गही महाराज चरन की मैं श० अ
रजी सुमिये नाथ हमारी भव नाट
क मेटो चाह गही म० । १ । नव २
भात घमाय के माची लख बीरासी
फिरत रही म० । २ । जग पालक
महिमा गुण सुम के मैं तो तोरे रग
राख रही म० । ३ । समकित सार
पदारथ पायो प्रसन्न भई जिन राज
सही म० । ४ । अह निशि ध्यान
घरे नित खुसी मन की धाँखा सफ
ल लही म० ॥ ५ इति पद ॥

॥ जंगला ॥

नेम दुलहा थारी घाटमी उ
 भी जोउं हो मंदिर में राणी राजुल
 जोवै खडी २ हो ने० सव यादव
 मिल व्याहन आये जान बरात भलि
 य धनी हो ने० । १ । तोरन आये
 मंगल गाये सव सखिधन मिल हर
 ख धरी हो ने० । २ । तोरन आय
 चले रथ फेरी पशु पुकार तैं कान
 धरी हो ने० । ३ । उलट नेम गिर
 नार सिधाये दास अमर पद शरण
 धरी हो ने० इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

सांवरे साजन प्यारे मिलना ज
 रूर वे सा० । तुम दिल जानी मह

रम प्यारे 'पलक न होना दूर वे
सा०-॥१॥ कृपा निवासी अरज
यदादी रखना श्याम हजूर वे सा०
२ ॥ इति पद ॥

१ ॥ ७ ॥ खेमटा ॥ १० ॥ १

नेम पिया हो दरस मोहि दीजै
दरश मोहि दीजै अरज सुनि लीजै
भव २ पातिक छीजै ने० । १ । रज
सत्त तमो गुण तीनु त्यागे अघिघल
पद्म घरीजै ने० ॥ २ ॥ भव २ की
में दासी तुमारी अशरन सरने करी
जै ने० ॥ ३ ॥ जोरि जुगल कर अ
रज करति हु कलि मल दोख हरी
जै ने० ॥ ४ ॥ दया धर्म तुम गुण
मणि आगर पद्म शरण चित

लीजे ने० ॥ ५ इति पदं ॥

॥ खेमटा ॥

मेरे साहिव चतुर सुजान सकुच
कर मै बोलुं मे० मै भोरी कंबु मर्म
न जानुं मेहर करो हित श्रान अंतर
के पट खोलुं मे० ॥ १ ॥ सुधर साहे
ब्र पै तन मन वारुं लाउं चरण वि
च ध्यान प्रेम सरस रस घोलुं मे०
२ ॥ भव आताप बुभाउं मै चुन्नी
पी पी अमृत रस ज्ञा आतम अं
तर घोलुं मे० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ धाटो ॥

प्रभु कुं सुमरना चाहिये घडी पल
छिन ना विसराइये प्र० ॥ १ ॥ जो
ति सरूप श्रखंड श्रवाधित निशचल

चित्त धर ध्याइये म० ॥ २ ॥ आधि
 व्याधि सकलैय विनाशी जिनही के
 गुण गाइये म० ॥ ३ ॥ दास बुनी
 घू पद की सेवा धारण कर सुख पा
 इये म० ॥ ४ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

मम के समोरय पूरण प्रगटो ज
 ग मान हे सखिया म० ॥ १ ॥ धन
 दिन धन आज की बेटा पायो धि
 तामणि लाल हे स० म० ॥ २ ॥
 भाग्य , दशा अथ जागी प्रभु गुण में
 मन अनुरागी दुख दूर गये सब हे
 स० म० ॥ ३ ॥ स्वामि माध के चर
 न जुहारे जिन महावीर सुख करे
 बुनी दास पै सुनिजर हे स० म०

४ इति पदं ॥

॥ घाटो ॥

देखोरी जिनंदा प्यारा जिनंदा
भये भगवान सफल मेरी आज की
घडियां सफल भये नयना प्राण दे०
१ ॥ दरस सरस निरष्यो जिनंद जी
को जग नायक जग भाण दे० ॥ २
सोक संताप गयो अब मेरो पायो
अभिनव ज्ञान दे० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरो मन बस कर लीनुं जिनवर
प्रभु श्री पास मे० ॥ १ ॥ अखिंधा
कमल पांखडियां मुख सुंदर जास
मे० ॥ २ ॥ नील बरन तनु सोहे
त्रिभुवन परकास मे० ॥ ३ ॥ काने

फुडल दीय भाल कै सीस सूर सम
मास मे० ॥ ४ ॥ प्रमु तुम धरण र
ही जे समरू सासो शास मे० ॥ ५
काल षद की अरज सुणीजै पूरो ध
हित आस मे० ॥ ६ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

श्री श्रेयास सय दुख मेठो दीजे
सुख भर पूर हे श्रामी श्री० ॥ १ ॥
महिमा तिहु जग छाजै भाजै अरि
दक्ष गज हे० श्री० ॥ २ ॥ तुम बि
न कौन छोटाये आठो कर्म के फद
हे० श्री० ॥ ३ ॥ खुशी धरन नित
सेवे दिन २ अधिक आनद हे० श्री
४ ॥ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

सब से भला है येही भजले शां
ति सनेही स० ॥ १ ॥ मन पर घेर
तू मत जा रे आत्म सै रंग लगारे
चित चेत चतुर गुण गेही स० ॥ २
मन अजपा जाप जपे तूं तव अन
हृद नाद सुनें तूं सोहम र रटले हे०
स० ॥ ३ ॥ मन परमात्म पद धावे
चुनी दास परम सुख पावे दुख दो
हग दूर न सेही स० ॥ ४ ॥ इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरो मन तुम से लाज्ञो जाज्ञो
धरम सनेह मे० मैं समरुं जिम च
कवा रे चकवी मोरा चाहे जिम मेह
मे० ॥ १ ॥ श्री मुनि सुव्रत समरुं

ममरा मन जिम फूल प्रभुपद पकज
माहेरहु सदा अनुकूल मे० । २ । तु
म प्रभु सारक जग के तारो मैं हु
अनाथ मे० रिपि रूप नें मध मध
दीजो धरण कमल करे साथ मे०
३ । इति पद ॥

॥ पुन ॥

अपना रूप जय देखा करता कौ
न करनी फुनि कैसी कौन मागे गो
लेखा अ० ॥ १ ॥ साधू सगति और
गुरु की कृपा ते मिट गई कुल की
रेखा आनद घन प्रभु परधो पायो
उत्तर गयो दिख भेखा अ० ॥ २ ॥
इति पद ॥

॥ पुन ॥

दरशन प्राण जीवन मोहि दीजै
बिन दरशन मोहि कलन परत है
तरफ तरफ तनु छोड़ै द० ॥ १ ॥

कहा कहुं कबु कहत न आवत बिन
सइयां किम जीजै समझाओ सखि
जाय मनाओ आपहि आप पतीजै
२ ॥ देउर देउरानी सास जेठानी यूं
सबही मिल खीजे आनंद घन बिन
प्राण न रहे छिन कोर जतन क
र लीजे द० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

निस दिन जोउं थारी बाटडी
घर आओ रे ढोला मुझ सरिखा
तुझ लाख है मेरे तूहीं ममोला नि०
१ ॥ जौहरी मोल करै लाल का मे

रा लाल अमोला जिस के पटतरे को
नहीं उस का क्या मोला नि० ॥ २
पथ निहारत लोचने टग लागी अ
ढोला जोगी सुरति समाधि मे मानु
ध्यान भकोला नि० ॥ ३ ॥ कौन सु
ने किस से कहु किम माहू खोला
तेरे मुख दीठे टलै मेरे मन का घो
ला नि० ॥ ४ ॥ भीत विवेक कहे
हितू समता सुनि द्योला आनद धन
प्रमु ध्रावस्यै सेकमी रग रौला नि०
५ ॥ इति पद ॥

॥ केदारा ॥

करुणा के सागर तुमहीं क्यु जि
न महाराज । सुनि कर सुजस में
आयो पायो धर्म जिहाज क० । १

जो प्रभु मो को नतारो तो स्यूं
तारक नाम मो से जो पतित उबा
रो तो प्रभु तारक नाम क० २ ।
मुझ पर करुणा कीजै दीजै बंछित
दान रिषि रूप जो जिन को ध्यावै
पावै शिवपुर थान क० । ३ । इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

सुनहु विमलजिन श्रामी मेरे तु
म भगवान सु० । १ । कोई ध्यावै
रामा रामा कोई ध्यावै शिव कान
तुमही कुं ध्याउं मैं समरुं मेरे प्रभु
गुण धाम सु० । २ । तुम प्रभु जो
करुणा के शिंधू मो नें पार उतार
रिषि रूप अरजत येही दीजै शिव

सुख घान सु० । ३ । इति पद ॥

॥ केदारा ॥

देखो एक अपूरय खेला आपहि
घाजो आप घाजीगर आप गुरू आ
प खेला दे० लोक अलोक विष आ
प विराजत ज्ञान प्रकाश अकेला आ
जी कूड तिहा घट घैठे जिहा सि
द्धो का मेला दे० । १ । सहु में
किस के किस के खेला किस के २
घोला पाहणको भर फाही उठावत
इक तारे फा घोला दे० । २ । घट
पद पद के जोगी सरिखी सहै ध्यु
धर गज पद तोला आनद घन प्र
भुआप मिलो सुम मिट जाय मन
काभोला दे० ॥ ३ ॥ इति पद ।

॥ राग जैजै वंती ॥

अलख निरंजन के गुण गाउं
माई अविनासी वासी शिव पुर के
मै तो मन बच क्रम से ध्याउं मा०
अ० ॥ १ ॥ अनुरागी प्रभु चरण क
मल की आनंद रंग रस अधिक ब
ढाउं मा० अ० ॥ २ ॥ ज्योति श्वरू
प पिछान ध्यान धर पातिक पंक
सबै दूर नसाउं मा० अ० ॥ ३ ॥
अजर अमर - निरगुण निकलंकी
भाव अखंडित अजप जगाउं मा०
अ० ॥ ४ ॥ दास घुनी जिन श्रेयांस
नाथ जी की सेवा में अविचल सुख
पाउं मा० अ० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

आज की धवन कृषि अजय नी
की धनी माई आ० तिलक जहाव
जहयो मस्तक मुकट घस्यो श्रवण
कुडल सोहे फूलन की सेहरो मा०
अ० ॥ १ ॥ गुण मणि माल सोहे
धाजु धद छोए कर कगना क्वाजै २
रूप मनोहरु मा० अ० ॥ २ ॥ सिहा
सन क्त्र घरे मस्तक धमर ठरे शो
मा धया धरणे श्यामि गुण गहरु मा ।
आ० ॥ ३ ॥ धाणी गुण गभीर सुन
सान रहै प्रीर निरप्या नयन ठरे
धूनी लासो जिन से नेहरो, मा०
आ० ॥ ४ इति पद ॥

॥ पुन ॥

तरस कीजिये वई को वई कीस

वारी री तीकून कटाकू कूटा लागत
कटारी री सायक लायक नायक मा
न को पहारी री काजर काज न ला
ज बाजें न कंहुं वारी री त० ॥ १ ॥
मोहनी मोहन ठज्ञो जगत ठगारी
री दीजिये आनंद धन दाह हमारी
री त० ॥ २ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरी सो मेरी सो तु मेरी री तुम
ते जु कहा दुरी कहो नें सवेरी री रू
ठे से देख मेरी मनसा दुख घेरी री
जाके संग खेलो सोतो जगत की चे
री री मे० ॥ १ ॥ सिर कूदी आगे ध
रे और नहीं तेरी री आनंद धन कि
स से कहुं हूं अनेरी री मे० ॥ २ ॥

आज की घदन कृषि अजय नी
 की यनी मार्ग आ० तिलक जहाव
 जहयो मस्तक मुकट घस्यो श्रवण
 कुदल सोही फूलन को सेहरो मा०
 अ० ॥ १ ॥ गुण मणि माल सोहे
 वाजु यद लोए कर कगना काजै २
 रूप मनोहरु मा० अ० ॥ २ ॥ सिहा
 सन छत्र घरे मस्तक घमर ठरे शो
 भा क्या धरणै श्रामि गुण गहरु मा ।
 अ० ॥ ३ ॥ घाणी गुण गभीर घुन
 सा न रहे पीर निरप्या नयन ठरे
 घूनी छाहो जिन से नेहरो, मा०
 अ० ॥ ४ ॥ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

सरस कीजिये दर्श को दर्श कीस

वारी री तीकून कटाकू कूटा लागत
 कटारी री सायक लायक नायक मा
 ने को पहारी री काजर काज न ला
 ज बाज न कहूं वारी री त० ॥ १ ॥
 मोहनी मोहन ठज्ञो जगत ठगारी
 री दीजिये आनंद धन दाह हमारी
 री त० ॥ २ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरी सो मेरी सो तु मेरी री तुम
 ते जु कहा दुरी कहो नें सवेरी री रू
 ठे से देख मेरी मनसा दुख घेरी री
 जाके संग खेलो सोतो जगत की चे
 री री मे० ॥ १ ॥ सिर कूदी आगे ध
 रे और नहीं तेरी री आनंद धन कि
 स से कहूं हूं अनेरी री मे० ॥ २ ॥

इति पद ॥

॥ पुनः ॥

ऐसी कैसी घर बसी जिनस अने
सी री याही घर रहिसी वाही आपद
ही सीरी ऐ० ॥ रपम सरम देसी घर
में हुपे सीरी याहीं से मोहनी में सी
जग जस गेसी री ऐ० ॥ १ ॥ कोर
की गरज नैसी गुर जन बखे सीरी
आनद धन सुनो सी घदी घरज क
हे सी ऐ० । २। इति पद ॥

॥ गौढी ॥

नेमिधर छाल निस दिन मोहि
सुहायै सोरी पुर महन जिन राय
हरि यसै प्रभु सहु मन माय ने० १
समुद्ध धिजे धिवा देवी के धदन क
न६५

मल सोहै पूनिम चंद ने० । २ ।
श्याम बरन दश धनुष प्रमाण सह
स बकर आयु स्थिति जाण ने० । ३ ।
शंख लंकुम गुण सिंधु अपार भक्ति
वत्सल प्रभु परम अधार ने० । ४ ।
सुर तरु सम प्रभु दीन दयाल दास
चुनी की करो प्रति पाल ने० । ५ ।
इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

पर्व पजूशन मेला देखो भाई व्रत
पचखान करै नर नारी कोई उपास
कोइ वेला दे० । १ । गुरुमुख सूत्र
सिद्धांत सुनै नित कर कर शुभ म
न तेला ते नर ततखिण सुर पद पा
वै शिव पुर पंथ सुहेला दे० ॥ २ ॥

इति पद ॥

॥ पुन ॥

ऐसी कैसी घर बसी जिनस अने
 सी री याही घर रहिसी याही घापद
 ही सीरी ऐ० ॥ रपम सरम देसी घर
 में हुपे सीरी याहों ते मोहनी में सी
 जग जस गेसी री ऐ० ॥ १ ॥ कोर
 की गरज नैसी गुर जन घरखे सीरी
 धानद घन सुनो सी यदी अरज क
 हे सी ऐ० । २। इति पद ॥

॥ गौडी ॥

नेमिश्वर छाल निस दिन मोहि
 सुहावी सोरी पुर महन जिन राय
 हरि बसै प्रमु सहु मन माय ने० १
 समुद्ध विजे शिवा देवी के धवन क
 नद

ब क्यूं करत निरासी सुध लीजै म
हाराज चुनी की मेढो करम गत फा
सी अ० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

रिषभेश्वर श्रामी दिल भर दरस
न दीजै मो मन चाह रहत निस
बासर अब तो देर न कीजै रि० १
आसा पूरण संकट चूरन दारिद्र
दुख हरीजै रि० ॥ २ ॥ चुन्नी के प्र
भु आनंद कारी लुलि २ पाय परी
जै रि० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

सो अब हम नव पद नेह सनें
पातिक पंक छने सो० ॥ इन सम
तारक जग महि कोउ खनि खनि

षोड् अठाड् करै मेरे प्यारे ज्ञान
 प्रकाश उजेलग ध्यान लगाय परम
 गुण चितै जनम मरण भय ठेला दे
 ३ ॥ उक्ख कर कोड् पूज रखावै म
 क्ति करै कोड् खेला दास खुनी मन
 भवना भावै आत्म रग में खेला दे
 ४ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

अथ तो माय विहारी मै दासी
 दूर करो तुम माया ममता सुन अ
 बिचल पद दासी अ० ॥ १ ॥ प्या
 सी हु मै माय दरस की तुम यिन
 रहस उदासी दरस अमृत रस हित
 कर दीजे करुणा कर सुख पासी अ
 २ ॥ यकिस भई हू मैं ममते -२ अ

सों ॥ १ ॥ सुंदर सरस सुघर कृषि ते
 री मोहन रूप धरे तुव पद रज पै
 तन मन वाहं निरखत नैन ठरे सो
 २ । तुम सम सुखद न श्रौर जगत
 में देवन देव खरे भव दव ताप हर
 न जल धर से तुम हीं जान परे
 सो० । ३ । अचल मिहर सैं नाथ ह
 मारी रहियो बांह धरे कहत गुला
 ब लगी सुध तेरी बिसरी ना बिस
 रे सो० । ४ । इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

प्रभु तेरो रूप बन्यो अति नीको
 प्र० पंच वरण के पाठ पटंबर बि
 च भावो कसनी की प्र० । १ । मस्त
 क मुकट कांन जुम कुंडल हार हिये

सार खने सो० ॥ १ ॥ अरिहत सिद्ध
आधारज पाठक साधू सूत्र भणे व
सण नाण धरण तप उत्तम ए नव
नाम गने सो० ॥ २ ॥ गगन नेत्र
धिय अक छपा कर सय मिल धर
स यने प्रथम मधू सित वेद इदु
तिथि अघहर गुण धरने सो० ॥ ३ ॥
औसो सरस सुधा न गूसै जो भूले
मद अपने कहस गुठाय मिले नाहि
तार्को धिय रमणी सपने सो० ॥ ४
इति पद ॥

॥ पुन ॥

सो अय मेरे कारज सकल धरे
सुख सय दूर टरे सो० आसु पूज्य
जिन धर प्रभु तेरे पद पकज पकरे

अति आलस वंत प्र० ॥ ४ ॥ कहत
सुनत अकुलात इंद्र फुनि पावत क
बहुं न अंत प्र० ॥ ५ ॥ अब अपने
आत्म में कीनों, हम ऐसे मे मंत
प्र० ॥ ६ ॥ सहस नाम इक नाम
में साहिव राज प्रभू अरिहंत प्र०
७ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

आज मैं पुन्य उदै प्रभु दीठो
आ० सीतल चित्त भयो अब मेरो
प्रसव्यो मोह अंगीठो आ० ॥ १ ॥
ऐसो रंग गत्यो जिन जी सां जैसो
चोल मजीठो आ० ॥ २ ॥ ना जा
नूं कब नैनन के पथ हृदय में आ
न पईठो आ० ॥ ३ ॥ सो निजरूप

सिर टीको प्र० १ २ । समकित नि
रमल होय सुमन में देख दरस जिन
जी को प्र० ॥ ३ ॥ समध सरण में
श्याम धिराजै साहिय दीन दुनी को
प्र० ॥ ४ ॥ समय सुदर कहें प्रमुजी
कु मेटत सफल जनम उनहीं को प्र०
५ ॥ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

प्रमु मेरे तेरे नाम अनत प्र० ।
अजर अमर अयिनासी अविचल
भक्ति बहूल भगवत प्र० ॥ १ ॥ पु
पुपोत्तम शकर कमलासन धुंढ राम
धलवत प्र० ॥ २ ॥ अपने २ दरसन
में सब मानंत हैं मुनि सत प्र० ॥ ३
रसना ब्रह्म मति मद जू मेरी फुनि

अति आलस वंत प्र० ॥ ४ ॥ कहत
सुनत अकुलात इंद्र फुनि पावत क
बहुं न अंत प्र० ॥ ५ ॥ अब अपने
आत्म में कीनें हम ऐसे मे मंत
प्र० ॥ ६ ॥ सहस नाम इक नाम
में साहिव राज प्रभू अरिहंत प्र०
७ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

आज मैं पुन्य उदै प्रभु दीठो
आ० सीतल चित्त भयो अब मेरो
प्रसव्यो मोह अंगीठो आ० ॥ १ ॥
ऐसो रंग गल्यो जिन जी सो जैसो
चोल मजीठो आ० ॥ २ ॥ ना जा
नू कब नैनन के पथ हृदय में आ
न पर्ईठो आ० ॥ ३ ॥ सो निजरूप

मे आज पिछान्यो जो अमृतते मी
ठो आ० ॥ ४ ॥ गुण थिलांस शीत
छ जिन निरस्वत पात्तिक पच सुनी
ठो आ० ॥ ५ ॥ इति पद ॥

॥ गडडी ॥

विधारी कहा विधारे तेरो आग
म अगम अपार दिन आर्षे आधा
नहीं रे दिन आधेय आधार मुरगी
दिन अडा नहीं रे या दिन मुरग
की नार वि० ॥ १ ॥ मुरटा बीज
विना नहीं रे बीज न मुरटा टार
निस दिन दिषस घटे नहीं रे दिन
दिन निस निरधार वि० ॥ २ ॥ सि
द्ध ससारी दिन नहीं रे सिद्ध विना
ससार करता दिन करणी नहीं रे वि

न करणी करतार वि० ॥ ३ ॥ जाम
न मरण विना नहीं रे मरण न जनम
विनाश दीपक विन परकाशता रे
विन दीपक परकाश वि ॥ ४ ॥ आ
नंद घन प्रभु वचन की रे परिणति
धरूं रुचिवंत साश्र्वत भाव विचार कें
रे खेल अनादि अनंत वि० ॥ ५ ॥
इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

निसानी कहा बताउं रे अगम
अगोचर रूप रूपी कहूं तो कबु न
ही रे बंधै कैसे अरूप रूपा रूपी जो
कहूं रे जैसे न सिद्ध अनूप नि०॥
१ ॥ सिद्ध सरूपी जो कहूं रे बधन
मोक्ष विचार न घटै संसारी दशा रे

पाप पुन्य अवतार नि० ॥ २ ॥ सि
द्ध सनातन जो कहू रे उपजै यिन
सै कौन उपजै यिनसै जो कहू रे
नित्य अथाधिस गौन नि० ॥ ३ ॥
सरयगी सरय नय घनी रे मानै स
रय परमान नय घादी पलछो गही
रे करै लराई ठान नि० ॥ ४ ॥ अ
नुमौ अगोचर वस्तु को रे जाणघो
येह इलाज कहन सुनन को कयु न
हो रे आनद घन महाराज नि० ॥
५ इति पद ॥

॥ पूर्वी ॥

इक थोलेते दम का नाता फिर
तो कयु नजर न आता कृत्रिम धिडी
अन थोली थोले ये अंधरज मन

खाता इ० ॥ १ ॥ जीव अजीव मि
श्र हो प्रेरक कर्म विचित्र बुलाता
इ० ॥ २ ॥ एक बोल दुरंगति का
कारन एक बोल सुख दाता इ० ॥
३ ॥ अमृत बोल बिना नर जग में
भुस के मोल बिकाता इ० ॥ ४ ॥
दास चुनी लख अलख बोलनां मो
ल अमोल खपाता इ० ॥ ५ ॥ इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

कृकी कृवि बदन निहार निहार
कृ० प्रोषित पति अगमा गम कीनो
विसरी विगत विहार कृ० ॥ १ ॥
गए अनादि काल में जैसे दीठो न
हिय दिदार निरूपम निजर निहार

निहारत रजिय रूप रिक्त धार छ०
 २ ॥ अतर एक महूरत अतर प्यार
 करी अण पार लीने ज्ञान सार पद
 भौतर चेतन सा भरतार छ० ॥ ३ ॥
 इति पद ॥

॥ कल्याण ॥

मोहे कैसे तारो गे दीन दयाल
 तारो तो प्रभु सुमहीं तारो विन त
 रवे कों लीजो समार मो० ॥ १ ॥
 कचन को कहा कचन करि धो म
 लिन कचन परि जाल मो पापिन
 को पावन करि धो बहुत कठिन हि
 कृपाल मो० ॥ २ ॥ काम क्रोध व
 पटे रह्यो नित हू माया मोह जजाक
 मरुखी नाथ ~~म्ह~~ नाथ ~~रि~~ जन

रूप चंद गुण गाय मो० ॥ ३ ॥ इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरा जियरा लगा जिनेसर सै
मे० केतकी मधुर चकोर कुं चंदा जै
सै कमल कुं खगा मे० । १ । देव ज
गत में है बहुतेरे तुम देवन विच न
गा मे० । २ । कहत खुशाल राय
कर जोरी भव भव पातिक भगा मे०
३ । इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

श्रौरन सैं रंग न्यारा न्यारा तुम
से रंग करारा है तुम मन मोहन
नाथ हमारा अब तो प्रीत तुमारा
है ओ० । १ । जोगी हुवा तो कान

फनाया मोटी मुद्दा सारी है गोर
 ख कहे छसना नहीं मारी घर २
 तुमची न्यारी है ओ० । २ । जगम
 आय वाजा बजमाये आछे तान
 मिछाये है सध का राम सरीखा थू
 भै काहे कु वेस लजाये है ओ० । ३
 जगम जाये भस्म बढाये जटा बढा
 यि के कैसा है पर भव की आशा
 नहीं मारी फिर जैसे का तेसा है
 ओ० ॥ ४ ॥ जती हुवा इदी नहीं
 जीती पच मूत नहीं मारा है जीवा
 जीव कु यूमा नाही वेस कु लेकर
 हारा है ओ० ॥ ५ ॥ वेद पढे से
 ब्राह्मण कहाये ब्रम्ह दया नहीं पाया
 है आत्म तत्त्व का अर्थ न यूमा

पुकार से जनम गमाया है ओ० ॥

६ ॥ काजी किताब खोल के बैठा

क्या किताब में देखा है बकरी के

गल्ले बुरी चलावत क्या देवेगा लेखा

है ओ० ॥ ७ ॥ जिन कंचन का म

हल बनया उन से पीतल कैसा है

डारा गले में हार हीरे का सब जुग

काला कैसा है ओ० ॥ ८ ॥ रूप चं

द रंग में मगन भया है नाथ निरं

जन प्यारा है जनम मरण का डरं

नहीं आनां चरण सरण में तिहारा

है ओ० ॥ ९ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

निपट कठोर कह्यो नहीं मानै

चंचल चपल है जोर रे मन निपटही

कठिन कठोर रे० ॥ १ ॥ बरज र
रह्यो सब घाफु डोरत जू चक डोर
रे० ॥ २ ॥ अटक अटक प्रभु जो घ
र लाउ छटक छटक जावे और रे०
३ ॥ नाथ निरजन मन यस लावे
जो पावे संत गोर रे० ॥ ४ ॥ इति
पद ॥

॥ पुन ॥

नट होई खेले देखू चातुरी न०
जान प्रवीन गुणी गुण खेले देखन
मनुष्य चातुरी न० ॥ १ ॥ याजत
मृदग नाचत है नट गावत मधुरी
वासरी न० ॥ २ ॥ प्रेम कछोटा या
धस मोठा ध्यान यथ चढि जातुरी
न० ॥ ३ ॥ तन मन सुरति समार

लीजै रींभै निरंजन नाथ री न० ॥

३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

कृबि तेरी सुहावन लागी दरसन
देष्यो पास कुमर को भाग्य दशा
अव जागी क० ॥ १ ॥ आनंद मंगल
सुख संपूरन भव भय भावट भागी
क० ॥ २ ॥ मंगल मूरत संकट चूरत
पास आवंती दुख त्यागी क० ॥ ३ ॥
श्री संखेसर पास चिंतामणी पास
गोडी गुण रागी क० ॥ ४ ॥ मया
करो प्रभु पारस मगसी माया मुगत
अव मांगी क० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥

॥ कल्याण ॥

अविनाशी के गुन गावना जा

की जोत अखड विराजत करत प
तिस कु पाथना अ० ॥ १ ॥ जनम
मरण का डर नहीं जाके फेर जगत
में आथना अ० ॥ २ ॥ षडदे राज
मासत है दरपन एक समय दिखलाव
ना अ० ॥ ३ ॥ भाव भगति मन ह
रखित होय नित परम अस को रि
माथना अ० ॥ ४ इति पद ॥

॥ पुन ॥

माई मेरो मन तेरो नद हरे । क
घन घरण कमल दल लोषन निर
खत नैन ठरे मा० ॥ १ ॥ पञ्च वरन
मन हरन जरन पर ठम ठम पाव
धरे रसन जटित कषन घूधरिया रु
ण भुण कार करे मा० ॥ २ ॥ हलत

लसत मुगता फल माला पीत बसने
उपरें मानुं चलि हैं मान शिखर तें
गंग प्रवाह खिरे मा० ॥ ३ ॥ धन
त्रिशलादे भाग तिहारो तूं तिहुं भु
रे तीन भुवन के नायक तेरे
में विचरे मा० ॥ ४ ॥ श्री
न जिनंद की मूरत बिनु देखे
हरख चंद प्रभु वदन विलो
बिही काज सरे मा० ॥ ५ ॥
पदं ॥

॥ पुनः ॥

स सहर बिच कौन दीवान है
राजान है परजान है पानी के कोट
पवन के कंगुरे दस दरवाजा मंडान
है ई० ॥ १ ॥ इस नगरी में तेवीस

तसकर नगरी कु करतः हिरान हे ई०
२ ॥ परजा पुकार सुणो तय जाहो
चेतन राय सुजान हे ई० ॥ ३ ॥
रूप घद कर्हे नाथ निरजन हाथ मे
ज्ञान कमान हे ई० ॥ ४ इति पद ॥
॥ कलिगढा ॥

पदम प्रमु जिन तारो मुक्त ना
म सुहावै नव निध रिध सिध सप
दा ध्यातां घर आवै प० ॥ १ ॥
पूरण ब्रम्ह जगत पति जग में जय
कारी जग नायक जगदीशरू महि
मा गुण भारी प० ॥ २ ॥ कौशवी
नगरी भली जिहा धार कल्याणक
मात सुशीमा मगवती पिता धर
सुख दानक प० ॥ ३ ॥ दो सै पंथा

रु धनुष नी काया रक्त वरनी पदम
लंकन सोहै भलो शोभा निरुपम व
रनी प० ॥ ४ ॥ तीस लाख पूरव
थिति कुल इक्षाकु दिनंदा पद पंकज
सेवै सदा सुर नर मुनि वृंदा प० ॥
५ ॥ श्रीजिन महेंद्र सूरीश्वरू जिन
पाट बिराजै तेज प्रताप अखंड वि
राजै शिव पदवी राजै प० ॥ ६ ॥
दास चुनी के जगपती पत हाथ तु
मारे दीना नाथ दया करो सारो का
ज हमारे प० ॥ ७ ॥ इतिपदं ॥

॥ पुनः ॥

सुनिजर कीजै प्रमु दीन दयाला
नाभिराय नंदन जग वंदन मरुदेवी
जी के लाला सु० । १ । जनम पुरी

अयोध्या नगरी - बस हृक्षाकु उजाला
कुल में परम प्रधान उद्योती गुण
मकरद विशाला सु० ॥ २ ॥ वृषभ
लहून धनुष पाषसै मोहन रूप, नि
राला लंख चउ रासी पूरष आयू ता
रक थिरुद शमाला सु० ॥ ३ ॥ तुम
सम कथन उदार जगत्, में जग मा
यक जग पाला पूरन ब्रम्ह परम प
र मेष्ठी खोले मुगत का ताला सु०
४ । दीन धधु मै याचक तेरो साहि
व कर प्रति पाला दास घुनी कु सु
ख सपति दीजै जिन सै होय नि
हाला । ५ । इति पद ॥

॥ पुन ॥

दुक धूम तन में कौन ही तन म

वन है मन पवन है याही में आवा
 गमन है तु० ॥ १ ॥ बंदा बनाया बंद
 का सीरा चढाया कंद का पम्दा ल
 गाया फंदका तु० । २ । तुज कुं
 बनाया जाप कुं तुम्हनें छिपाया आ
 प कुं तु क्योँ लोभाया पाप कुं तु०
 ३ । साथी हुवा उस चोर का लुक
 मा खोया सब रोज का सांसा पडा
 इस घोर का तु० । ४ । कहता है
 कनक विचार यह प्रभु का समरन
 सार है जोई भजै सोई सार है तु०
 ५ । इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मेरे मन मानी साहिव सेवा मी
 ठी और न कोई मिठाई मीठा और



नेम मुनी से धन तेरो अवतारो री
माई सु० ॥ १ ॥ इति पदम् ॥

॥ कहरयो ॥

समझ परी मोहे समझ परी जग
माया सब भूठी ज० ॥ १ ॥ आज का
लतुं कहा करै मूरख नाहि भरोसा
दिल येक घरो ज० ॥ २ ॥ गाफिल
छिन भर नाहि रहो तुम खिर पर घू
में तेरे काळ घरो ज० ॥ ३ ॥ चिदा
नद ये यात हमारी प्यारे जाणो हो
मित्त दिष्ट माहि खरी ज० ॥ ४ ॥
इतिपद ॥

॥ कहरयो ॥

चित्त में घरो प्यारे चित्त में घरो
ये सीख हमारी अब चित्त में घरो

धोमा सा जीवनां काज अरे नरका
हे कुं कुलपरपंच करो ये० ॥ १ ॥
कूड कपट पर ढोह करन तुम अरे
मन पर भव थाह भरो ए० ॥ २ ॥
चिदानंद जो ए नहीं मानो तो ज
नम मरन भव दुख में परो ए० ॥ ३ ॥
इति पदं ॥

॥ कहरवा ॥

प्रभु पद पंकज रमो मन भमरा
प्र० विमल कमल दल लोचन जैसा
विमल वदन सुखदाय म० ॥ १ ॥
विमल बानी सुणि सुख लहै मन
वा भवना पातिक जाय-म० ॥ २ ॥
विमल नाथ जी की सोभा अैसी
सूरज कोटि छिपाय म० ॥ ३ ॥

धिन सजर्म करणी मानू तुस फट
कायो वे० ६ ज्ञान सार तै नाम धरायो
ज्ञान को मरम न पायो वे० ७ ॥
इति पद ॥

॥ राग सोहनी ॥

अनुभव जोत जगी छे हीए ह
मारे अ० कुमता कुटिल कहा अथ
करि हे सुमता हमारी सगी छे अ०
१ ॥ मोह मिथ्यात निफट नवि छैहे
भव परिणति ज्युं पगी छे अ० २ ॥
विदानद चित प्रभु के भजन मां
अनुपम अचल नगी छे अ० । ३ ॥
इति पद ॥

॥ पुन ॥

शरण तिहारो गही छे चदा प्रभुजी

जनम जरा मरणादिक केरी वेदना
 बहोत सही छे श० ॥ १ ॥ पर दुख
 भंजन नाथ विरूद तुम ताते तुमको
 कही छे श० ॥ २ ॥ चिदानंद प्रभु
 तुमारे दरस थी वेदना नाहीं रही
 छे श० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

सुंदर नेम पियारो री माई शि
 वा देवी नंदन सब दुख भंजन यादव
 कुल उजवालो री माई सुं० ॥ १ ॥
 जा को मै ध्यान धरत हूं निस दि
 न पातिक पुन्य सिहारो री माई
 सुं० ॥ २ ॥ राजेमती दासी तेरे
 चरन की तप करि जनम सुधारो री
 माई सुं० ॥ ३ ॥ कहे जिन दास

नेम मुनी से धन तेरो अवतारो री
माई सु० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥
॥ कहरयो ॥

समझ परी मोहे समझ परी जग
माया सब भूठी ज० ॥ १ ॥ आज क
लतू कहा करै मूरख नाहि भरोस
दिल येक घरो ज० ॥ २ ॥ गाफिष
छिन भर नाहि रहो तुम सिर पर घु
में तेरे काष्ठ धरी ज० ॥ ३ ॥ चिदा
नद ये यात हमारी प्यारे जाणो ही
मित्त दिष्ट माहि खरी ज० ॥ ४ ॥
इतिपद ॥

॥ कहरया ॥

चित्त मे धरो प्यारे चित्त में धरो
ये सीख हमारी सब चित्त में धरो

थोमा सा जीवनां काज अरे नरका
रि कुं कुलपरपंच करो ये० ॥ १ ॥
कूड कपट पर ढोह करन तुम अरे
मन पर भव थाह भरो ए० ॥ २ ॥
चिदानंद जो ए नहीं मानो तो ज
नम मरन भव दुख में परो ए० ॥ ३ ॥
इति पदं ॥

॥ कहरवा ॥

प्रभु पद पंकज रमो मन भमरा
प्र० विमल कमल दल लोचन जैसा
विमल वदन सुखदाय म० ॥ १ ॥
विमल बानी सुणि सुख लहै मन
वा भवना पातिक जाय म० ॥ २ ॥
विमल नाथ जी की सोभा अैसी
सूरज कोटि छिपाय म० ॥ ३ ॥

रूप रिपी जो सेवी प्रमु कु अजर
अमर पद पाय म० ॥ ५ ॥ इति
पद ॥

पुनः ॥

प्रमु के घरन कज मेरो मन व
सियो अमर सेन कुल दिन कर प्र
गटयो भविक कमल चित अतिहि
हुजसियो प्र० ॥ १ ॥ सुर नर मुनि
जन हरख बघाई जय कारी त्रिहु
कोक हरसियो प्र० ॥ २ ॥ कोटका
मभारु या कृषि पर रोमागु कोटि
कु नाहीं फरसियो प्र० ॥ ३ ॥ अर
कत मणि सम तनु कृषि राजस अ
ष्टमि शशि मानु भाउ यिकसियो
प्र० ॥ ४ ॥ पच कमल अति शाति

सुधा रस निरख निरख अति भक्ति
 सरसियो प्र० । ५ । मोह तिमिर
 सहु दूर करण कुं लोका लोक सहु
 ज्ञान बरसियो प्र० । ६ । तुम प्रभु
 पतित उधारन कारण दरंशण करि
 निद्रोद हुलसियो प्र० । ७ । इति
 पदं ॥

॥ पुनः ॥

नाभ जी के नंदा जी से लगा
 मेरा नेहरा वो लगा मेरा नेहरा ना०
 वदन सदन सुख भदन कदन मुख
 प्रभु को वदन कीधूं शम रस मेहरा
 ना० । १ । अमल कमल दल नयन
 उजल जल मीन युगल मानु उच्छल
 त सेहरा ना० । २ । भाल रसाल

विद्याल अकल दुसि सारद शशि
 मानु अठमी की जेहरा ना० । ३ ।
 नासा घषा दीप कला सी दत्त पति
 कती मानु घद का उजेरा ना० । ४
 केतेलो व्रनन "कक ओपम कहा से
 घरु ज्ञान सार नाम पोयो ज्ञान न
 हौं गहिरा ना० । ५ । इति पद ॥

॥ सोरठ ॥

रहे सुम आज बयो जी घदन दु
 राय २० जिय जीघन सखियन मे
 प्यारी हारी हाहा खाय २० । १ ।
 अघिरसि घूघट पट उघारी अनुम
 घ मुख निरस्त्राय एते पर भी मान
 न मेले मूँ घ्याज यदाय २० । २ ।
 भय परिणति परि पाक इते पर

झाई धाई माय अति आगूह सब
ज्ञान सार कूं लीनें कंठ लगाय २०
३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

वारो नणदल वीर कहूं कवलों
वा० मिथ्या गणिकां पूंजी खाई व
णगै जनम फकीर क० ॥ १ ॥ गई
गई सो भलीय रही सो धर धर ह
र धर धीर कवलों धीर धरूं धीर
ज धर विरहें जनम वहीर क० ॥ २
भला लाल वींदी नहीं भावै आभू
षण नहीं चीर ज्ञान सार वाली आं
न मिले घर तो न रहै कोइ पीर
क० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मरणा तो आया माया अजु न
 युक्ताया याहिर धम्यतर धग स्वग
 ष्यु मानु जोग कमायो म० ॥ १ ॥
 निपट निकामी निपट निरागी नि
 रमोही निरमाया ध्यानी आतम
 ज्ञानी जानी औसा रूप दिखाया म०
 २ ॥ मान छोम मद कृकता छोडी
 छोडीघरकी माया काया सुसरुसा सय
 छोडी तौ धन धूटी माया म० ३ ॥
 जग तैं इक स्थेतयर अधि की सय
 शास्त्रे मे गाया ज्ञान सार के सय
 से घठती माया पाती आया म०
 ४ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

भूठी या जगत् की माया षयो भर

माया कबहूं मृग त्रिशना तें मृग की
 पांती प्यास बुझाया भू० ॥ १ ॥
 जैसे रंक सुपन भयो राजा राज हु
 कम फरमाया जागे तें कबु नजर न
 देखे हाथ ठीकरा आया भू० ॥ २ ॥
 भूठा धन गन भूठा जीवन भूठी
 माया काया मात पिता सुत वनि
 ता भूठे भूठे क्यों विरमाया भू०
 ॥ ३ ॥ निज सरूप निश्चय नय नि
 रखें तो में क्यों न समाया तूं तोते
 रे गुणको भोगी ज्ञान सार पद राया
 भू० ॥ ४ ॥ इतिपदं ॥

॥ पुनः सोरठ ॥

वाई मोनें लालनां लल चावे वा०
 खिण में रूसण टूसण खिण मे खि

ण में रोय हसावे या० ॥ १ ॥ अत
र घेदन कोयत्र यूकै प्रकट कही हू
न जावे घोयै घर उमाय इसै घर
जगल जाय धसावे या० ॥ २ ॥ धी
र विवेक सग लेआये सुमता कठ
सगावे ज्ञानसार प्यारी मृदु मुसक
न परमारथ पद पावे या० ॥ ३ ॥
॥ तिपद ॥

॥ पुन ॥

अरे मन छोमो धारी काई पर
तीत नहि गुरु भक्ति देवकी पूजा
निसदिन करत अनीत छ० ॥ १ ॥
भाई यद्य सुत कुट्य कधीका स्वार
थ के सथ मीत ॥ २ ॥ तू मूल्यो मा
या ठगनी सग यूहीं जनम गयो धीत

अ० । ३ । अजहूं चेत समभक्त मन चं
चल प्रभु सम कोईय न मीत अ०
४ । चुन्नी प्रभु की भक्ति उर धारो
पूरण पालै प्रीत अ० । ५ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

रूढो लागे क्ये जी थांको गढ गि
रनार भार अठार अपार कियो तिहां
वन राजी विस्तार निरमल नीर समीर
बहत तिहां पंथिक जन मनो हार
रू० । १ । सुद्ध समाधी विगत उ
पाधी जोगीश्वर चित धार करत गं
भीर गुहा में निस दिन गुरु गम
ज्ञान विचार रू० । २ । कल्याणक
तिहां तीन तिहारे सोभित जगदा
धार चिदानंद प्रभु अब मोहे तारो



ण में रोय हसाये या० ॥ १ ॥ अत
र वेदन कोयन यूँकै प्रकट कही हू
न जाये घोयै घूर उनाय इसै घर
जगल जाय बसाये या० ॥ २ ॥ धी
र विवेक सग लेआये सुमता कठ
लगावे ज्ञानसार प्यारी मृदु मुसक
न परमारथ पद पाये या० ॥ ३ ॥
॥ तिपद ॥ ।

॥ पुन ॥ ।

अरे मन लोमो धारी काई पर
सीत नहि गुरु भक्ति देवकी पूजा
निसदिन करत अनीस अ० ॥ १ ॥
भाई यध सुत कुटय कवीदा स्वार
थ के सय मीत ॥ २ ॥ तू भूल्यो मा
या ठगनी सग यूँही जनम गयो धीत

सा० । ३ । वा के बस वरती इम
नायक जे २ विध सुख पावो ते स
हु छाने नहीं कोउ मेसैं काहे को
प्रगट कहावो सा० । ४ । चिदानंद
सुमता के बचन सुणि भेज्यो हरख
बधावो तुम मंदिर आवत प्रभु प्या
री करिये न मन पकृतावो सा० ।
५ । इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

तारो जी राज तारो जी राज
अव मोहें तारो जी राज पूरव पु
न्य उदय तुम भेटे तारन तरन जि
हाज अ० ॥ १ ॥ पतित उधारन तु
म पण धारो मैं पतितन सिर ताज
अ० ॥ २ ॥ आगे अनेक तारे तद

जिम तारी निज नार ३० । ३ ।
इति पद ॥

॥ सोरठ ॥

आयो जी राज आयो जी राज
साहेय माहरे मोहले आयो जी राज
सीस नमाय कर जोरि कहत हू ज
रते कु न जरायो हस हस नाथ ज
रे पर अथ तुम काहे कू लैन लगा
यो सा० । १ । हम कु त्याग पिय
सोक सदन तुम विना बुलाये आयो
जा कारन नहि मेरे आवत ते
कोउ घूक देखायो सा० । २ । कुम
ता कुटिलके थस इम साहिय काहे
कु लोक हसायो तुम कु कवन सि
खायत सुमने और न कु समझायो

रंग जिम सुलटी शिक्षा तज उलटी
हू ठानें विषम गती अति याकी सा
हिय अति सिद्ध कोउ जानें प्र० ॥
४ ॥ अति उकताय कह्यो मैं तुम से
तुम से कौन सयाने चिदानंद प्रभु
ये बिनती की अब तो लाज छे तु
मने प्र० ॥ ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

वरसत बचन भरी हो सुगुरु मे,
रो ब० श्री श्रुत ज्ञान गगन तें प्रग
ठयो ज्ञान घटा गहिरी हो० सु० ॥
रुयाद वाद नय विजुरी चमकत दे
खत कुमत डरी हो० अर्थ विचार
गहिर धुनि गरजत रहत न येक घ
री हो० ॥ २ ॥ श्रद्धा नदी चढी अ

पी कठिन तार धो घ्राज अ० ॥
३ ॥ इण अक्षर जिम तिम करि र
स्त्रिये यिसद गहे की लांज अ० ॥
४ ॥ चिदानद सेवक जिन साहिय
कीनू यन्यो है समाज अ० ॥ ५ ॥
इति पद ॥

॥ पुन ॥

प्रमु जी में ठढो मनहो हटक न
माने यहुत भात समभायो या कू
घाटे हू अरु छाने प्र० ॥ १ ॥ पिण
एम सीखा मण रक्षक धारत नधि
निज फाने प्र० ॥ २ ॥ छिन में रुष्ट
तुष्ट हुय छिन में राय रक छिन मा
हि चंचल जेम पताका अचल तेहयो
गति अण माहि प्र० ॥ ३ ॥ यक्र तु

से न्यारो मे० ॥ २ ॥ कहैं जिनदास
नेम मुनीसे धन तेरो अ्रवतारो मे०
॥ ३ ॥ इतिपदं ॥

॥ पुनः ॥

तारक अ्रजित जिनंद भवि म्हा
रा ता० जिण देष्यां सुख अनुभव
जागे भागे भव दुख दंद ता० ॥ १ ॥
नयरि अयोध्या जित शत्रू राजै मा
ता विजया नंद ता० ॥ २ ॥ सार्ध
च्यार शत धनुष प्रमाणें दीपें देह
दिनंद ता० ॥ ३ ॥ आयु बहीत्तर ला
ख पूरबकीं सेवे सुर नर वृंद ता०
॥ ४ ॥ गज लंकन प्रभु पद कज दी
पें जीपें दोष गयंद ता० ॥ ५ ॥ भा
व भगत से प्रभु गुण गावे पावे प

ति जोरे सुद्ध सुभाव भरी हो० सुम
र भस्यो शमता रस सागर समकित
भूमि हरी हो० ॥ ३ ॥ अगटें फुनि
अकूर शिहू दिश पाप जवास जरी
हो० घातक मोर पपहया भविजन
दोलत भक्ति भरी ॥ ४ ॥ दया दान
व्रत सयम खेती भविककिसान करी
हरखधद सुर नर शिव सुख कर स
हज सुभाव फरी हो० ॥ ५ ॥ इति
पद ॥

॥ पुन ॥

मेरो कुमलानो फूल प्यारी घाणों
सुण श्री नेम प्रमू की लाग्यो खल
क सय खारो मे० ॥ १ ॥ गज सुक
माल जाग शिर सेजा कियो सरय

जुल उभी अरज करे छै कांई अ
रज सुणो महाराज ने० । १ । समुद्ध
विजै जी के लामले जी कांइ यादव
कुल सिणगार ने० । २ । नायक छो
तीहुं लोक ना जी गुण निधि ग
रीब निवाज ने० । ३ । खूब बरात
बनाय कै जी आये व्याहन कोज
तोरण से रथ फेरियो जी कांइ फिर
तां न आई थानें लाज ने० । ४ ।
आवो जी उठो घर आपणें जी हठ
छोमो नणदरा वीर तुम बिन इण
संसार में कोण मिटावै भव पीर ने०
४ । पशुवन पर करुणा करी जी मो
पै आन्यो रोस दीन दयाल कहाय के
जी निपट न लागै थानें दोस ने० ।

रमा नद ता० ॥ ६ ॥ राम चद कहें
साहिब मेरो काटो भव दुख फद ता
० ॥ ७ ॥ इतिपद ॥

॥ पुन ॥

घणो मूगो नाम हें रे म्हारे तो
केसरिया धाला नु ते नामे भव ज
छनिधि तरिये घरण सेवानो म्हारे
कामहै घ० ॥ १ ॥ कोई मजै प्रम्हा
धाला कोई सेवे शकर कोई विशनु
कोई ने रामहै घ० ॥ २ ॥ मूठ चद
कहै जय जग जीवन धूठेवे मरण
घणो घामहै घ० ॥ ३ ॥ इतिपद ॥

॥ पुन ॥

काई हठ मादयो कूजी राज ने
मजी ये काई हठ मादयो राज। रा

प्रभु तारण हार सकल संघ सेवक प्र
भु जी को आनंद घन उपकार आ०
४ । इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मोनें प्यारो लागे छे जी थारो
देश मो० । राणी राजुल अरेज करे
छै नेम पधारो म्हारै देश मो० १ ॥
उंची मैमी अजब भरोखा रींभ रही
छै थारी सेज मो० ॥ फिर मिर २
मेहला बरसै भींज रही गिर हेठ मो०
२ ॥ चंद खुसाल तेरा गुण गावे पान
फूलन की पेस मो० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

म्हेतो थारो लारै चालस्यां हो
शिव रमणी रा बर मेतो थारी०

५ । प्रोस पुराणी जाण कै जी राजु
ल राखो पास हरख घद प्रभु राजुल
धिनवै जी धाने हो ज्यो मुगति नो
वास ने० । ६ । इति पद ॥

॥ पुन ॥

आज हमारे धारू मगल धार ।
देप्यो दरस सरस जिन जी को सो
मा सुदर सार आ० । १ । दिन २
जन मनमोहन अरधो घस केसर
घन सार धूप जो खेवो करो आरती
मुख घोळो जय कार आ० । २ ।
विधिघ मात के पुहप मगाधो सफ
ठ करो धयतार समयशरण आदी
श्वर पूजो धीमुख प्रतिमा ध्यार आ०
३ । इह धरि धारे भाधना मावो ये

कहां जाय पुकारुं ठूटै न क्युं अति
ताणी हो पी० ॥ ३ ॥ विन प्रीतम
भादों की रजनी तारे गिनत बिहा
नी हो तरफरात विन कंत कामनी
ज्युं मच्छी थोडै पानी हो पी० ॥ ४ ॥
सातिन के जीवन सुं प्यारी जा जि
न के मन मानी हो मिटत नहीं कि
नहीं पर कीनों या विध लेख लिखा
नी हो पी० ॥ ५ ॥ तोही प्रेम निवास्यो
अपनो याही ज्ञात बखानी श्री जि
न समुद्ध कहे सुख पायो नेम रा
जेमती रानी हो पी० ॥ ६ ॥ इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

कंत विन कहो कौण गत न्यारी

दया क्षमा मे साथे उस्या शील सयम
 व्रत पालस्यां ही शि० ॥ १ ॥ पद्य महा
 व्रत दुद्धर घरस्या अष्ट करम पर जा
 ल स्या ही शि० ॥ २ ॥ चैन विजय
 राजुल इम यिनवै धारी सग न टा
 ल स्या ही शि० ॥ ३ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

पीउ प्रीत की रीत न जानी हो
 विगर गुनाह तजी अखला कू कीन
 दया वित आनी हो पी० ॥ १ ॥ गु
 ण वसी को सगन कीनो निगुणी म
 न सुध मानी हो यह चाहे ओभी न
 चाहि याकी विधन पिछानी हो पी०
 २ ॥ मानत नाही किस ही की मिश्र
 त ऐसे निदुर गुमानी हो कहा करु

५ ॥ चिदानंद घन सुजस विनो दे
रमे रंग अनुसारी कं० इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

हो नदिया मेरी बैरन भई रे ॥

न० ॥ कृष्णकोटि सब व्याहन आ
ए नव भव को नेह सही रे हो० ॥

१ ॥ तोरण से रथ फेर चले हो पसु
वन की चिंत लही रे हो० ॥ २ ॥

सहसा बन की कुंजगरिन में मोकुं
कबु न कही रे हो० ॥ ३ ॥ नेम रा

जुल दोउ मुक्ति सिधाए रूप चंद
गुण कही रे हो० ॥ ४ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

गिरनार बोल्या मोर हेली० ज
ल धर सम प्रभु को तनु निरखी टे

शुभति सब्बी जै वेग मनावो कहे चे
 तन ता प्यारी क० ॥ १ ॥ घन क
 न कघन महल मालिया पिउ धिन
 सयहि उजारी तो रे प्रीत पराई दु
 रजन अय ते दोष पुकारी क० ॥
 २ ॥ घर भजन को कहन न कीजे
 कीजे काज विचारी विमम मोह म
 हा मन विजुरी माया रास अघेरी
 क० ॥ ३ ॥ गरजित अरजित उवे
 रितु दादुर काम की भई असवारी
 पिउ मिठने कु मुक्त मन तरफे में
 प्रमु खिजमत गारी क० ॥ ४ ॥ मुर
 की दे गयो पीउ मुक्त को न छहे
 पीर पियारी सवेसा सुणि आए पि
 उ तुम भई धहुत मनुहारी क० ॥

केवल वाला केवल वाला मोहि
बताओ के० । जाकुं पूबूँ कबही टू
टे जनम मरण दुख जाला मो० ॥
१ ॥ भव भव भमतां पार न पायो
मो अरहट की माला सो दिन स
फल बचन सदगुरु के पीउं अमृत
प्याला मो० ॥ २ ॥ धन अपनें की
सोधन धारे मद आठे मत वाला
पाउं ज्ञानी जो हूँ पूबूँ कबहि मिटै
भव भाला मो० ॥ ३ ॥ सुपास प्रभू
को दरशन पायो आए समकित आ
ला शिव सुख कारी तिसकी संगत
राम चंद्र गुण भाला मो० ॥ ४ ॥
इति पदं ॥

॥ सोरठ ॥

रत है कर सोर हे० ॥ १ ॥ यादव
जानी खूब विराजै घटिया घपल
किशोर अदभुत छत्र नेमी सिर सो
है निरखत खुसिया जोर हे० ॥ २
तोरन आए ब्याहन कू जय पनी
नगारा ठोर पसुवा पुकार करी म
मु जी से रंधन दीनु तोर हे० ॥ ३
पीछा फिरिया ब्रत धित घरिया
सोर मधो चिहु ओर हरी हल धर
की घरज न मानी जैसे नेम निठोर
हे० ॥ ४ ॥ मोर सयन की आस पु
रानी हम कर धाके नौहोर छाल
घद राजुल हम माखै नेम गए धि
त ओर हे० ॥ ५ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

नव हाथ नुं हो दीपत देह दिणंद
एक ध्यान प्रभु को धरूं हो मन
धरि अधिक आनंद अ० ॥ ३ ॥ हूं
सेवक वूं ताहरो हो तुं साहिब सुख
चंद दीजे सेवा चरण की हो चाहै
हैं हरख चंद अ० ॥ ४ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

महानुं प्यारा लागो छो जी सु
मति जिणंद अद्भुत रूप अनोपम
छाजै लाजै कोटि दिनंद जग बांध
व जग नाथ छो जी तुम मेघ नरे
श्वर नंद म्हा० ॥ १ ॥ चौविस दंडक
माहें भमतां बहुत सहा दुख दंद
भटकत भटकत तुम मिले जी जग
जीवन जिण चंद म्हा० ॥ २ ॥ जनम

नित भ्रुमट लागो शिवा देवी के
 दरघार नि० । इक गावत इक मृदग
 अजावत इक नाचत दे तार शि० ॥
 १ ॥ इक आतुर शिव पुर की नारी
 इक सखित मोतियन धार शि० ॥
 २ ॥ कहा लो वरनन कीजे प्रभु को
 जगत राम धलिहार शि० ॥ ३ ॥
 इति पद ॥

॥ पुन ॥

अरज सुनो महाराज यामा जू
 के नद अम्बसेन के छाडले हो श्री
 जिन पास जिणद अ० ॥ १ ॥ जनम
 पुरी बनारसी हो लछन धरण फणि
 द सो वरशा नु आउखी हो कुल इ
 क्षाकु नरिद अ० ॥ २ ॥ नील धरण

नव हाथ नुं हो दीपत देह दिणंद
एक ध्यान प्रभु को धरूं हो मन
धरि अधिक आनंद अ० ॥ ३ ॥ हूं
सेवक वूं ताहरो ही तुं साहिव सुख
चंद दीजे सेवा चरण की हो चाहै
हैं हरख चंद अ० ॥ ४ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

महानुं प्यारा लागो छो जी सु
मति जिणंद अदभुत रूप अनोपम
छाजै लाजै कोटि दिनंद जग बांध
व जग नाथ छो जी तुम मेघ नरे
श्वर नंद म्हा० ॥ १ ॥ चौविस दंडक
माहें भमतां बहुत सह्या दुख दंद
भटकत भटकत तुम मिले जी जग
जीवन जिण चंद म्हा० ॥ २ ॥ जनम

सफल मुक्त है सही जी आज ह्ये पर
 मानद हण अथसर मुक्त धीनती जी
 जगत उजागर षद म्हा० ॥ ३ ॥ से
 षक जाणीं आपणीं जी दीजे शिव
 सुख कद म्हा० ॥ ४ ॥ इति पद ॥

॥ सोरठ राग सपूरण ॥

॥ राग मल्हार ॥

अनुभव मीत मिठा दे मुक्त कु
 शील सयम दीनु साधन मार्गे ध्या
 न घटा घन छादे मो कु अ० ॥ १
 म्हासा पवन चलत अस्ति मधुरी अन
 हद गरज सुना दे माधन विजुरी
 अमकत छिन २ ज्ञान भरी थरसा
 दे मो० ॥ २ ॥ चेतन राय कहत
 निज चित्त सु आत्म घोष जगा दे

दास चुनी के अंतर भीने बंच्छित
वेल बढ़ा दे मो० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

बीर जिन वर चरन भज मन
बीर जिन वर चरन पिता माता
भात भगिनी काहू के सुख करन मे
रे मन इक बीर जिन वर कोटि दु
ख के हरन भ० ॥ १ ॥ अगम अ
थाह अपार भव दधि किये मै जा
मन मरण लख चौरासी योनि भम
कर गह्यो तुमचो शरन भ० ॥ २ ॥
पतित पावन बिरुद तुमचो सुन्यो मै
प्रभु श्रवण मो पतित कुं ज्योंहि
तारो तो सही तारन तरन भ० ॥
३ ॥ पावा पुरी में चरण भेटे जिहां

लह्यो शिष्य पुर धरन लब्धि चद्
सूरी एमो जपै तुम हो अशरन शर
न म० ॥ ४ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

दिल ज्ञानी पास जिणदा ओ ।
दि० । अश्व सेन नदन सय जग, घ
दन घामा जी के नदा ओ दि० ॥
१ ॥ दिल दा महरम तूहीं असाडा
साहिय ही सुखकदा ओ कादर कद
र सयै तू जाणै जो हू फैल करदा
ओ दि० ॥ २ ॥ कुदरत पर फुरवा
न सिहारी कहा लग सफत करदा
ओ दे दर हाल दरस मनु अपनी
ओ सुख पावे घदा ओ दि० ॥ ३ ॥
तू सुद खाषद खलक मुलकदा हा

जर खलक रहंदा ओ हरख चंद हम
कोउ न देखा तुम विन और जि
पंदा ओ दि० ॥ ४ ॥ ईति पदं ॥

॥ पुनः ॥

बालम अब मत जाओ जोर वि
होर । पिउपिउ पिउपिउ रटत पपि
हरा गरजत घन अति घोर बा० ॥
१ ॥ चम चम चम चम चमकत चप
ला मोर करत मिल शोर उमग च
ली सरिता सायर मुख भर गए ज
ल चिहुं ओर बा० ॥ २ ॥ उंची अ
ठारी रयन अंधारी बिरहा करत
भक भोर चिदा नंद प्रभु एक बार
कह्यो हम जाणों बार करोर बा० ॥
३ ॥ ईति पदं ॥

॥ पुन ॥

गुमानन घरजो कर्षोनीं राज धा
रो पिया बल्यो परदेश आ० । आ
रज देश उत्तम कुल पायो पायो स
कल समाज गु० ॥ १ ॥ कुमति दु
हागिन को सग छानो छानो मि
ध्या काज सुमति सुहागिन सग ति
हारो जो सुधरे निज काज गु० ॥
२ ॥ अनुभव आतम को समभावत
समकत धेतन राज बाल कहें निज
नारी निहारत उपनीं कुल की लाज
गु० ॥ ३ ॥ इति पद ॥

॥ पुन

बिमल गिर क्यो न मए हम मोर
सिद्ध बह रायण रूख की शाखा भू

लत करत भकोर वि० ॥ १ ॥ आव
त संघ रचावत अरचा गावत धुनि
घन घोर हमभी कृत्र कला करि हर
खत कठनें करम कठोर वि० ॥ २ ॥
मूरत देख सदा मन हुलसे जैसे चंद्र
चकोर श्री रिस हे सरसूं धूम सी
करत अरज कर जोर वि० ॥ ३ ॥
इति पदं ॥

॥ राग मल्हार ॥

समकित सावन प्रायो री अवं
मेरो स० । बीत कुरीत मिथ्या म
ति ग्रीषम पावस सहज सुहायो री
स० ॥ १ ॥ अनुभव दामनि चमकने
लागी मोर सुं मन हरखायो री ॥
स० २ ॥ बोल्यो बिवेक विमल प

पैयो सुमति सुहागिन मायो गी स०

३ ॥ गुरु घन गरजत सुनत घुनी

जय सुरति घटो घन छायो री स०

४ ॥ साधक भाव अकूर उठे यहु

जित तित हरख सवायो री स० ॥

५ ॥ मूली घूली सध मूल न सुकत

समर सुजस मर लायो री स० ॥

६ ॥ भूधर क्यो निकसे अव बाहर

निज निश्चै घर पायो री स० ॥

७ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

घोरघटा करि आये जलघर आण

विष विष चमकत दामिनि डरानी

अधिक अघेर मचायो दिश दिश

मूम रहे दिख घादल गरज गरज हु

जरायो री ज० ॥ १ ॥ मूसर धार
परत धरनी पर हठ करि कमठ प
ठायो उमवाही को उत्तर कीनों अ
ध घन घोर वढायो री ज० ॥ २ ॥
आनंद के प्रभु पाश कृपानिध पर
मानंद सुख पायो री ज० ॥ ३ ॥
॥इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मूरत स्वामी तिहारी वो सुखकारी
लागै प्यारी । देखत ही दिल आनं
द पायो कुमति कलंक निवारी वो
मू० ॥ १ ॥ सदगुरु संगत सुनके उ
त्तम प्रभुवाणी मनुहारी पर पुदगल
कुं जव पहि चानां आतम शक्ति सं
भारी वो मू० ॥ २ ॥ विन श्वाथ स

य जग के तारक प्रभु हो पर उप
कारी भव भव मेरे तुम हों देवा यूं
कीनी इक तारी वो मू० ॥ ३ ॥ अ
मृत रूपी आदि जिणदा साहेब हो
सुधिचारी दास क्षमाकल्याण कु दी
जे निज सेवा निरधारी वो मू० ॥
४ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

गरज गरज घन घरसे देखी मा
ई ग० । नेमीश्वर प्रभु जोग धरे जि
ते तित ही दामिनि दरसे दे० ॥ १
यह सावन घन वैकोमल तनु देखन
कु जिय तरसे घरम पाळ जय जग
पति देखी तयही मो मन सरसे
दे० ॥ २ ॥ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

देखो आज गरज २ घन वर से
दे० । राजुल कहें सुण येरी सखी री
नेम बिना जिय तरसे दे० ॥ १ ॥
चिहुं दिस क्हाय रहे घन बदरा बि
च विच दामिनि दरसे मनमोहन
गिरनार सिधाये मुक्ति बधू वर वर
से दे० ॥ २ ॥ कलन परत घरि पल
किन मोहि कों विरह व्यथा नित
गरसे जा दिन जग जीवन मुख दे
खूं ता दिन मुझ मन ठरसे दे० ॥
३ ॥ तज संसार सखिन युत कुमरी
जाय मिली जिन वर से सेवक अ
चल मिलाप निरखि क्खि बार बार
पद फर से दे० ॥ ४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुन ॥

एमा घननन नन घन गरजे री
मन भायन रितु आर्हं धरपां की शा
न मिमल जल भरजे री मा० ॥ १ ॥
निशि अधियारी कारी घटा धरस
रहि चमक चमक जिया लरजे पवन
बलत सन नननन नननन विरह
ध्या सो हरजे री मा० ॥ २ ॥ वि
पय विकार उमग रहि नदिया केहि
धिघ पार उतरजे मनमोहन जग
नाथ बिना अथ कौन सुने मोरी
अरजे री मा० ॥ ३ ॥ एतनी अरज
सुन जग पति मोरी नजर मेंहरदी
करजे सेवक की आशा पूरो प्रभु
सुलि २ पायन परजे री मा० ॥

४ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

मै तो ठाढी भोजूं अजहूं न आ
ये प्राण पियारे मै० । घन गरजत
चमकत चिहुं ओरी डरपत जिअरा
मेरा आली इतनी अरज कहे दी
एयो मै० ॥ १ ॥ हाहा करत तेरे
पैयां परत हूं प्रभु आवे सो कीज्यो
ततखिन आय सुमति कर पकरत
सर्व विरति संग कीनूं मै० ॥ २ ॥
रेवत गिर पर राजुल पहुंचत यदु
पति से व्रत लीनों कर्म सघन बन
चूर प्रतापी राजुल नेमि चिरजीवो
मै० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

श्याम हमारा रे सम भावो श्या०
 चिमकत विजुरी घरसत मेहुला पि
 उ पठ रटत पपिहरा घनन घनन
 सखि घन गरजत हैं तहफत जिय
 रा हमारा रे स० ॥ १ ॥ दादुर मोर
 शकोर चिहू दिश मूमर करत भुकारा
 कोयल शब्द सुनावत सु दर विकस
 रहे घन सारारे स० ॥ २ ॥ हय ग
 य रघ पायक सहु सभकर आये श्या
 म हमारा पशुवां पुकार सुनत ही
 फिर गये कोटि कूपन नर सारा रे
 स० ॥ ३ ॥ नय मघ प्रीत सजी ने
 मी म्बर लाज नहीं यदुकुल की दा
 न सद्यकरि दे मधि जनने संयमसू
 चित धारा रे स० ॥ ४ ॥ प्रीतम प

हले राजुल नारी शिव पुरमें दिया
डेरा यादव कुल पति नाथ प्रतापी
बंदो भवि हितकारा रे स० ॥ ५ ॥
॥ इति पदं ॥

॥ भंभोटी ॥

चेतनजी सोही हैं राज हमारा
जाके धरम मारग व्यवहारा चे० मो
ह महा मद जोर करन कौं आन अ
खंड प्रचारा मंत्री राज विवेक वि
राजत संयम जसु प्रतिहारा चे० ॥ १
॥ आर्जव पाट गजेंद्र सुहावे विनय
तुरंग सु चारा रथ शीलांग सोहै
जाके चाकर शम दम आदि सुसारा
चे० ॥ २ ॥ समकित मदन मनोहर
चामर धर्म सकल सुखकारा सिंहा



सन संतोष विराजत जग जस हृप्र
सुधारा चे० ॥ ३ ॥ क्षमा स्वर्ग घर
मुनिवर भवि जन प्रजा लोक प्रति
पाठा घाल खद्द सुम हो मेरे स्वामी
सद्गुरु शुभ परि धारा चे० ॥ ५ ॥
इति पद ॥

॥ पुनः ॥

चेतन जी घट ही में धैरागी
जाकी लगन प्रभू से लागी चे० अ
कल अगोचर अगम कहावत सो
इह घट में धासी चे० ॥ १ ॥ गूढ़
वासी मठ धासी पढित राजा प्रजा
अनु रागी इत उत डोरत मत मत
धारी पग खोजत जैसे पागी चे०
२ ॥ भस्म उगाधत मूढ मुहावत का

न फरावत त्यागी मुख कुंत बोलत
वन मांही होरत मन वस विन है
सरागी चे० ॥ ३ ॥ मृग मद हूँढत
रांन रांन में भटवत जिम मृग भा
गी बाल चंद्र परमात्म आत्म ज्ञा
न जोत जब जागी चे० ॥ ४ ॥
इति पदं ॥

॥ भंभोटी ॥

राखूं रे हमारा घटमैं जिन राज
नाम तेरा महाराज नाम तेरा हो०
जाके परभाव मेरा अज्ञान का अंधे
रा भागे भया उजरे हो० ॥ १ ॥
सूरत तेरि रागे देखी विभाव रागे
अध्यात्म रूप जागे हो रा० ॥ २ ॥
मूढा प्रमोद कारी रिषभेश जो ति

हारी लागत मोहे प्यारी हो० ॥ ३ ॥
दृलोक नाथ तुमहीं करिये सनाथ
हमहीं हो रा० ॥ ४ ॥ प्रमुजी तिहा
रि साखैं जिन हृषं सूरि भाखैं दिख
माहि येहि राखैं हो रा० ॥ ५ ॥ इ
ति पद ॥

॥ पुन ॥

सखीरी घद घदन दी जोत
जय निरखू तय मोहनि मूरत लग
गहूँ कलेजवा में षोट स० ॥ १ ॥ ज
ईन दास जिन की कृषि निरखत चा
हैं शरण की छोट स० ॥ २ ॥ इति ।

॥ भक्तोटी ॥

कोण बिघ नाथ निकट तेरे आ
उ । काम क्रोध मद लोभ मोह रत

निश दिन प्रीत लगाउं धन दारा
परिवार सघन बन मन कुरंग जि
म धाउं को० ॥ १ ॥ कर्मकुटिल की
नें बहुतेरे सनमुख होत लजाउं धर
म जिनेश्वर साहिव सांचे ओर देव
नहिं ध्याउं को० ॥ २ ॥ तुम सम
दीन बंधु नहि दूजो चरण छोम क
हां जाउं दया धर्म प्रतिपद्म जयो
परि मन बंछित फल पाउं को० ॥
३ ॥ इति पदं ॥

॥ भंभोटी ॥

भजन विन यैहीं जन्म गमायो
भ० । लख चौरासी फिरता फिरता
दुरलभ नर भव पायो भ० ॥ १ ॥
तीन पचासा जीवत नाहीं संग न

लें नहि काया सुख सपत सुपने की
माया जइसे घादल छाया म० ॥ २
सप जप तीरथ कथू नहि कीना प्र
मु द्रक्षण नहि पायो राम चद्द प्र
मु जीको बेरो चितामण मैं पायो
म० ॥ ३ ॥ इति पद ॥

॥ रागिणी देश ॥

परमात्म के गुन गाना आपेकु
आप रिम्ताना शमता सरवर के उ
पर घोषो अतर मील सुघर नर नि
मंल हीय ध्यान लगाना तय निदु
पम रूप लखाना प० ॥ १ ॥ चेतन
अनुभव रस पीना सुख बिलखें नि
त्त नथीना सुमति अग अग लिपटा
ना घर आनद अधिक मठाना प०

। २ । शुभ ज्ञान लिया सदगुरु का
पाया मारग शिव पुरका भव अट
वी सैं लंग जाना चुन्नीदास अमर
पद पाना प० ॥ ३ ॥ इतिपदं ॥

॥ पुनः देश ॥

क्यों न जपत नव कार भविजन
जग जीवन आधार भ० । समरत
सकल संताप नासैं तुरत करें भव
पार भ० ॥ १ ॥ धरत ध्यान सुधा
र जो जन नमैं बारं बार कोटिक
कष्ट दुराय पलक में दे सुजश भंभा
र भ० ॥ २ ॥ गुण अनंत अपार
जाके कहत न आवे पार परम मं
त्र सिद्धांत भाषित चौदे पूरव सार
भ० ॥ ३ ॥ आधि व्याधि उपाधि ना

सक नायक परम उदार कहत गुला
य न घोर या घल सुख सपति दाता
रम० ॥ ४ ॥ इतिपद ॥

॥ षट्ठार ॥

निरमल होय मजले प्रमु प्यारा
सय शसार से ही वोन्यारा नि० ॥ १ ॥
पार्श्व प्रमूको दर्शण करलें भव जल
पार उत्तारण हारा नि० ॥ २ ॥ जा
को अघिचल जीत विराजे अलख
अगोश्वर रूप उदारा नि० ॥ ३ ॥
अकलकी अघिनाशी अदमुत तीन
मयन विष है प्रमु न्यारा नि० ॥ ४ ॥
जाके गुणको पार न पावे कहन स
कै कोई जस विस्तारा नि० ॥ ५ ॥
जाके मजन से पावत प्राणी सुद

क्षमा कल्याण प्रभु न्यारा नि० ॥ ६
॥ इतिपदं ॥

महसेन घर आनंद बधाई । ल
षमणा जी ने नंदन जायो चंद कु
मर त्रिभुवन सुख दाई म० ॥ १ ॥
चंद्र पुरी में जन्म महोच्छ्व कृपण
दिस कुमरी मिल आई म० ॥ २ ॥
तीन मान बंधान ज्ञान युत गीत
संगीत धू पद पद गाई ॥ ३ ॥ ती
न गाम षट एक साध स्वर राग कृ
तीस आलापत माई म० ॥ ४ ॥
जय २ कार करे नर नारी पावै दा
न मान जस गाई म० ॥ ५ ॥ च
नी की प्रभु आस पूरण भइ नव नि
ध रिध सिध बढत सवाई म० ॥ ६ ॥

इति पद ॥

॥ राग सहाना ॥

तेरी मूरत की सुदर सी लटक
छवि देखी सुहावनि लागे मली ।

ते० ॥ १ ॥ गल विष माल विषाल

अजय क्या घरनां छवि है मुख सो

भा प्यारी २ ते० ॥ २ ॥ सीस मु

कुट कुहल की लटक घाजू की भ

मक हैं कर पोहची न्यारी न्यारी

ते० ॥ ३ ॥ चरन कमल सेउ शक्ति

अचल दीजै यच्छित फल जावै दास

धुनी धारी धारी ते० ॥ ४ ॥ इति

पद ॥

॥ राग अढानो ॥

एही सुभाव पमा धो उस नयणु

दा ए० ॥ १ ॥ जिन दरशण विन
खिण न रहंदा ऐसी अमी ये अमा
व अमावे ए० ॥ २ ॥ होत खुसी
सुख रूप अनीपम भगत जंजीर ज
माव जडावे ए० ॥ ३ ॥ नवल कहत
भगवंत भजन सुं पातिक सकल भ
डाव पडावे ए० ॥ ४ ॥ इति पदं ॥
॥ राग सामेरी ॥

सेत्रुं जानुं वासी प्यारो लागे
मेरा राजिंदा गिरवारि यानुं वासी
प्या० । इण डोंगरियेरीभीणी भीणी
कोरणी उपर शिखर विराजै मे०
से० ॥ १ ॥ चौमुख विंध अनोपम
क्याजै अदभुत दीठां दुख भाजे मे०
से० ॥ २ ॥ कानें कुंडल मुकट विरा

जे बाहें बाजू घघ ह्राजे मे० से०
३ ॥ सीधा घंदन अवर अरगजा के
सर तिलक बिराजे मे० से० ॥ ४ ॥
हृण गिरि साधु अनंता सीधा कह
ता पार न आवे मे० से० ॥ ५ ॥
नयन विमल प्रभु हृण पर बोली भव
२ पार उतारो मे० से० ॥ ६ इति
पद ॥

॥ पुन ॥

साहिधा गिरि राज हमारा मो
हना गिरि राज हमारा । आज गि
स्वर गिर नयनें निरप्यो देखत मन
मेरो अति ही हरयो बीस टूंक पर
बीस जिणदा प्रभु दरगण से मिटत
भव फदा सा० ॥ १ ॥ अर अपार

में मधुघन सोहै जात्री जन आवें
मन मोहे संवत अठार असीयां व
रसे माधव मास मनोहर दिवसे
सा० ॥ २ ॥ नगर वालूचर संघ जं
य बंतो गिर वर पूजै मन हरखंतो
जेह शिखर गिर जात्रा करस्यें ते भ
वि जन मन बंछित वरस्यें सा० ॥ ३ ॥
धन धन ए तीरथ जंग मांहे पूजै
भवि जन मन उच्छाहें मानव भव
नां लाही लीजे तीरथ देखी उच्छव
कीजे सा० ॥ ४ ॥ जो ए तीरथ नि
त प्रति बंदे तेहनां कर्म सहू ए नि
कंदे भूपं विजय नो सेवक बोलै ए
तीरथ नें कोईय न तोलै सा० ॥ ५ ॥
इति पद ॥

तेविस मा जिन राज जोड़ी पा
री कीन जुरेगो अश्वसेन तात यामा
देवी माता तू तारण ससार जो० ॥
१ ॥ कमठ को गारण नाग को ता
रण समलायी नव कार जो० ॥ २ ॥
रूप विमल कर जोड़ी ते जिन ते
मख २ दीजो दीदार जो० ॥ इति ॥

॥ पुनः ॥

माई हे माई मेरो कत देशाबर
कीनो आए जोर हुकम सार्ई के पल
भर रहेण न दीनो हे० ॥ १ ॥ जाव
कहा दरगी पकरे गो बलहे खायि
खजामो पल पल घटत ओधि धू
मी नहो प्रेम सुधा रस पीनो हे०

२ ॥ दुनियां देखि चिहुर वा जीसी
तो भी पिउ न पतीनों श्री जिन
राज वदत उण चेतन संवल साथ
न लीनों हे० ॥ ३ ॥ इति पदं ॥

॥ रेखता ॥

घरी धन आजकी एही सरे
सब काज मो मनका गए अघ दूर
सब तजिकै लष्या मुख आदि जि
न वर का ल० ॥ १ ॥ विपत नासी
सकल मेरी भरा भंडार संपत का सु
धाके मेघ हू वरसे ल० ॥ २ ॥ भई प
रतीत हिये मेरे सही हो देव देव
न का टूटी मिध्यातकी डोरी ल०
३ ॥ विसद अैसे सुन्या मै तो जग
त के पार करने का नवल आनंद

हू पायो उ० ॥ १ ॥ इति पद ॥

॥ पुनः ॥

प्रभु तुम गण समस्त ही हुवा
 घट में उजारा है दिवानाहु तेरे उपर
 नजर मेरी न जाना है सकल तन
 मन सभी धारु धिसारु सध खजाना
 है प्र० ॥ २ ॥ दि खावो दर्श तुम
 अपना तुहीं साई हमार है उटै
 सध कम की मस्की न पाया मर्म
 धारा है प्र० ॥ ३ ॥ तिहारा खूब
 सुखजग मै तुहीं दिलखर हमार है
 प्र० ॥ ४ ॥ प्रभु मुक्त कर्म को नासी
 धिधारो धिरुद तुम अपना नजर म
 स वृद्ध मै राखो हरो तुम दोस सध
 मेरा प्र० ॥ ५ ॥ रटा दिन रैन में

तुम्हें कों निहारो कूक मेरी कुं चरन
की शरण में आया विचारो जान
घेरे कुं बसेरा दूर कर मेरा सही पु
दगल के घेरे कुं प्र० ॥ ७ ॥ इति
पदं ॥

॥ पुनः ॥

किये प्राराधना तेरी राखो जग
पती शरण मेरी तुम बिन कोई न
हैं मेरा समझ दिल ज्ञान सा हेरा
१ ॥ करम की कैद नें घेरा जहां न
हो कोई मेरा करम से तुम छुड़ो
गे सही संकट मिटाओगे ॥ २ ॥
मुझे एक आसरा तेरा रहूं तुम ना
म का घेरा कमठ के मान भजन हो
निरभय के निरंजन हो ॥ ३ ॥ गर

सुनो श्री नाभि के नदन परम सुख
देन जग धंदन मेरी यिनती अपा
वन की विश्वारो गे तो क्या होगा
२ ॥ फसा हूँ कर्म के फद में मुझे
सुम यिन छुटावे कौन तुमहीं वा
सार हो जग के निवाजो गे तो क्या
होगा ॥ ३ ॥ पढा सागर अघाही में
भ्रकोरे कुमति के निस दिम मेरी अ
घ नाथ अघ जल में निकारो गे तो
क्या होगा ॥ ४ ॥ अधम उधार पू
रण की सुमति की छाज दुक दीजो
जगत के फद से अघ के छुटाओ
गे तो क्या होगा ॥ ५ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

समझ ले जीय वे प्यारे मरम में

भूलनां क्या रे बहुत है तू सयाना
 रे भया है क्यों दिवाना रे ॥ १ ॥
 सुमति के संग में फिरनां कुमति के
 संग से डरनां ज्ञान के पेंच में पर
 नां करम के फंद से लरनां जुलुल
 का जोर क्या करनां कुफर का संग
 भी हरनां जगत का देख वे मरनां
 अकेला आग में जरनां ॥ ३ ॥ धरम
 में ढील क्या करनां पापमय पिंड
 क्या भरनां धरम के ध्यान कुं धर
 नां धरम बिन नांहि को सरनां ॥ ४ ॥
 जगतमें को नहीं तेरा कहा तू मानले
 मेरा जनम तू यों न पावेगा कहतहूं प
 कृतावेगा जगतकुं जानवे सुपनां जग
 तमें नांहि को अपना कुसल कुं चेतता



रखना चाहिये उस के रस कस का
मजा दम दम में रखना चाहिये
ने० ॥ १ ॥ रूप जिस का है निरूप
म लख सकै कोई क्या मजाउ जो
लखै उस के त्यों लख के हरखना
चाहिये ने० ॥ २ ॥ नाम जिन का
है अलख लक्षण का क्या देखे पता
मूँठ सच इसकी तूम्ही लाजिम परख
ना चाहिये ने० ॥ ३ ॥ ब्यान अनु
भव मित्र का घाया परम आनद में
देख कर स्वरूप अथ किस को निर
खना चाहिये ने० ॥ ४ ॥ दास चू
नों ज्ञान धन पाया धिमल जिन
देख सैं मुख सेती गुण गान अमृत
— रखना चाहिये ने० ॥ ५ ॥

॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

बिना मतलब गरज रखनां न च
हिये किसीका फिर करज रखनां न
चहिये मत्तालब से निकल जाता है
मतलब तो तालब से तलब रख
नां न चहिये ॥ १ ॥ इवा दंत की
यही सूरत परख ले कदम इस जा
कुठब रखनां न चहिये ॥ २ ॥ भरो
सा कुछ नहीं है जिंदगीका दिल
अपनां जां बलब रखनां न चहिये
॥ ३ ॥ ए बातें मोज़ दरिया दिल
से निकली चुनी कुछ रंज अब र
खनां न चहिये वि० ॥ ४ ॥ पदं ॥

॥ पुनः ॥

खलक एक रैन का सुपना सम
 क नर की नहीं घपना कटिन या
 लोम की धारा बह्या सब जात ससा
 रा ॥ १ ॥ घडा एक नीरका फूटा पत्र
 जैसे डालसे टूटा वीसी नर जान
 जिदगानी अभी तू चेत भमिमानी
 २ ॥ भुलो नर देख तन गोरो या
 जग में जीवनी घोरो सजन सुत
 मात परिवारा सभी उस रोज ही
 न्यारा ॥ ३ ॥ निकल जब ड्यान जा
 वेगा नही कोई काम आवेगा सदा
 मत जाण या देहा लगा जिन राज
 से मेहा ॥ ४ ॥ सुभ आर्य उत्तम कु
 ल पाना फिर २ जन्म नही पाना
 चेत भव चेत तुम प्राणी जिन

आगम धुनि सुनो वाणी ॥ ५ ॥
कुमतिके फंद कुं वारो सुमति के संग
कों धारो शीख एक मान सदगुरु की
करो नित भक्ति जिनवर की ॥ ६ ॥
कठिन जंम राज की धारा कहत
यदुराय मोहे तारा ख० ॥ ७ इति
पदम् ॥

॥ पुनः ॥

दुक नजर महर दी करणां जिन
मैं पकडा तेरा शरणां तु० ॥ १ ॥ मैं
हूं अधम पाप की मूरत मेरा दोष
न धरणां तु० ॥ २ ॥ अधम उधारण
तुम हो प्रभु जी अपनां विरुद समर
णां तु० ॥ ३ ॥ साहिव एक अरज
सेवक की भगवंत लाल तुम सरणां

दु० ॥ ४ ॥ तारणे तरण जैन सुणि
यत हें मोक्षु पार उधरणा दु० ॥ ५
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

तेरे दरस के देखे से मुझे आराम
होता है दरस मोहे दीजिये प्रमु
जी दरस की दिल हमारा है अघे
री रैन में जैसे चादणी का पसारा है
ते० ॥ १ ॥ कहु कयु और करु कयु
और यही अजाल होता है यही स
ष घात साधन की सरासर काम
होता है ते० ॥ २ ॥ मेरा महाराज
दिल ज्ञानी मंदिर के बीच बसता
है उसी के ध्यान में मोती भला
भल सा भलकता है ते० ॥ ३ ॥

इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

प्रभु बधि निरख के टुक सीस
नमाती जा चरण की शरण धर के
जरा सीस नमाती जा प्र० ॥ १ ॥
सुख संगत है सुखदाई पुन्य उदय
पाई छिन छिन भजो रे भाई सुर
लोक सोहाती जा प्र० ॥ २ ॥ प्र
भु पाय लगूं जी तेरे सब मतलब
ही के घेरे धन सींच २ खोयो वृथा
न गमाती जा प्र० ॥ ३ ॥ जाग २
रे बटाउ ईहां नाहीं कोउ तेरा सब
चोर लगे लारे धन धन लुटाती जा
प्र० ॥ ४ ॥ सब जोग मिल्यो नीको
विन करणीं है फीको चंद अवसर

के चूके फिर ही पहचतासी जा प्र०
५ ॥ इति पदम् ॥

॥ रेखता ॥

जिन आप कु जोया नहीं तन
मन कु खोजा नहीं मन मैल कु घी
या नहीं अबोल किये से क्या मया
१ ॥ लालच करे दिल दाम का घा
सद करे बदनाम का हिरदे नहीं सु
घ राम की हरी हर कहा तो क्या
मया ॥ ० ॥ कूता हुवा धन माल
का घघा करे अजाल का हिरदा हु
घा चढाल का काशी गया तो क्या
मया ॥ ३ ॥ गोगा करे ससार का
जाने कुजनों याजार का आया ती
र्य करि दारिका छापा लिया तो

क्या भया ॥ ४ ॥ जीवते पित्र कुं
सुख नही उनको जक आसक नही
चंडाल में कुछ सक नही तर्पन किया
तो क्या भया ॥ ५ ॥ इस सांस में कु
छ वास है जरा राम का परकास
है सोही भला जिन खास है ब्राम्हन
भया तो क्या भया ॥ ६ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

हरदम प्रजू कों याद कर दिल
में यकर येही पें कर या जिंदगी
भूठी समझ ममता सतारे येखबर
ह० ॥ १ ॥ चांम का दीदार है माया
कुटुंब परिवार है घरी दोय का
बाजार है जिन ही सुमर येही सुक
र ह० ॥ २ ॥ दुनियां में नही कोई

सारं है सघंही जमाया जाल है ये
 सुपन व्यु ससार है क्या सोया तू
 सुरा पान कर ह० ॥ ३ ॥ गज राज
 रतन झमोल है घन माल मुलक ते
 लोल है जैसा जन फल्लोल है कर
 घरम तासु नेह घर ह० ॥ ४ ॥ दे
 ही जो रग पतग है जैसा भूका रग
 हो तैसा जो रामा सग है चलील
 सावा तेहि कर ह० ॥ ५ ॥ दुनियाँ
 घटाई दूध हैं ऐसी-जमें जो सूय है
 जिन राज बेक महर्षय है निस दिन
 ताकी सेय कर ह० ॥ ६ ॥ तू कर
 ममू की धदगी सार्वे सफल होय जि
 दगी अथ छोड दे सघ रिंदगी कयु
 खयर कर कतू, मेहर कर ह० ॥ ७ ॥

इति पदम् ॥

॥ रेखता ॥

सांवालिया जैसे बने तैसे तारो मे
री करणी कलू न विचारो सां० ॥ १ ॥
नाग नागनी व्याकुल दोनूं जरत अ
ग्नि से उवारो जिन कुं राज दियो
शिव पुर को तो जननी अान उवा
रो सां० ॥ १ ॥ अस्वसेन को नंदन
कहिये माता बामा देवी प्यारो
वाल अवस्था में जोग लियो है तो
पंच महा व्रत धारो सां० ॥ २ ॥
जोग विरोध से कुल बरावत आठ
कर्म रूप न्यारो काया गाल गयो
शिव पुर कुं लोका लोक निहारो
सां० ॥ ३ ॥ धन्य धडी धन भाग है

मेरो शिखर समेत निहारो मन वच
काया नमो ध्रुव गंगा चरण कमल
बलि हारो सा० ॥ ४ इति पदम् ।

॥ गजल ॥

है मुनासिध अपने घर बेलाग
होकर आईये लाग तो रखना नही
लाजिम है मन समझाईये है० ॥ १
लाग में देखा तो क्या क्या सुरतें आ
ई नजर तार में लिपटी हुई वषसे इ
न्हें सुलझाईये लाग किस के हाथ
है और डोर किस से है लगी घर
व घर का नाच इसको देख गैरत
लाईये हैं० ॥ ३ ॥ दास धुनी नैं जी
देखा ज्ञान के चस्मे के बीच आप
तो बेलाग लगा रख अलग सुख

पाईये है० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

कधी प्रभु पदमें मन लाया तो
होता अरे निरगुन का गुण गाया
तो होता पडा हैं वेखबर माया के
फंद में जगत जंजाल सुलभाया तो
होता क० ॥ १ ॥ अब अवसर आ
मिला टुक सोच प्यारे आत्म हित
कार प्रभु ध्याया तो होता क० ॥ २
तू हैं मनमोहन के त्रिशला नंद प्या
रा जिन सेवा में सुख पाया तो हो
ता पुराओ आस चुनी की प्रभु जी
दिल भर दरस दिखलाया तो होता
क० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ गजल ॥

दिल से हर दम मैं तेरी याद
 किया करता हू तेरे बस्फो का गुना
 याद किया करता हू तू निरकार
 निराधाध अगम अगोचर मैं तेरे
 ध्यान में दिल याद किया करता हू
 दि० ॥ १ ॥ है अलख नाम कोई
 तुझ कु लखाधे विरला साबित
 अपनी यही युनियाद किया करता हू
 दि० ॥ २ ॥ दिल में बसता पैं तूर
 हता नजर सैं गायध क्या गुनह इ
 सकी मैं : फारियाद किया करता हू
 दि० ॥ ३ ॥ मिट गया मरम का प
 ददा खुले अतर के पठ खुशी खुस
 दिल अखै आयाद किया करता हू
 दि० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ गजल भैरवी ॥

गुरुदेव जीका ध्यान सदा चित्त
 में लाईये पातिक सकल भवभव के
 खिणमें गमाईये गु० ॥ १ ॥ निरुपम
 स्वरूप जिनका श्रमीरस सैं भरा नि
 र्मल गुनों को देखदेख आनंद पाईये
 गु० ॥ २ ॥ साहिव सुजान जिनके
 चरन की शरन गही जागी सुमति
 सुघर सैं परम पद को ध्याईये गु०
 ॥ ३ ॥ दाता दयाल इन के सिवाय
 जग में कौन हैं जिनकी कृपासे बो
 ध हिये में जगाईये गु० ॥ ४ ॥ गु
 रू भक्ति आन अपने हृदय बीच
 चुन्नी दास सेवा में मन कुं दीजे सु
 जस मुख से गाईये गु० ॥ ५ ॥

इति पदम् ॥

॥ गजल ॥

ससार नाम उसका जो सारा असार है इस जगमें न कोई मेरा तेरा नाम सार है । भयजल अगम अथाहरे इसका न पार है चारो गति कि भवरा पमती अपार है ॥ से० ॥ १ ॥
जिया देख डरा मेरारे तुम से नहीं छिपा तेरे हाथ मेरारे अयतो उधार है स० ॥ २ ॥ तुम सिषाय देख मे क्या उन दूसरा मनेसो अपने दिलमें रे किया अकरार है स० ॥ ३ ॥ अथ छोड सकल यात कू तेरी शरण गही जिन दास हाथ जोड के करता पुकार हे स० ॥ ४ ॥ इतिपदं ॥

॥ राग भैरवी ॥ गजल ॥

जब तलक तन मैं मेरे यह दम रहें
प्रभु नामका सुमरन मुझे हरदम र
है मैं तोहूँ चाकर तेरा जग नाथ जी।
तेरे चरनों में मेरा मन रम रहें। ज०
॥ १ ॥ तुझ बिन अपनी व्यथामैं कि
ससैं कहूँ। पाउं मैं बंछित क्षय उप
शम शम रहै। ज० ॥ ३ ॥ इतनी अर
जी हें मेरी सुन लीजिये ॥ चुनी कुं
आधार प्रभु दम दम रहै ॥ ज० ॥ ३ ॥
ईति पदं ॥

॥ गजल ॥

लगा रहता है प्रभु के मन चरन
में करूं सेवा प्रभु की रात दिन मैं
मिटा कर भरम का परदा जो देखा

है भूटा कार खाना सोच दिख में
ल० ॥ १ ॥ हुआ जय घोष आत्म
का मनन से तो पाया सार सद्गुरु
के वचन में ल० २ ॥ सफल जीवन
मनु घुस्त्री का कीना परम आनंद
पद ध्याता हूँ मन में ल० ॥ ३ ॥
इति पदम् ॥

॥ दुमरी ॥

चलो सुखी जिन वदन कु मधु
वन में मेरी साधरिया आस पास
में भगी भाडी पग २ माहे जल
मरिया व० ॥ १ ॥ पट रितु की
सुदर सिहा महिमा जैसे सुर की
फुल धरिया व० ॥ २ ॥ पल हलं
गरजन गिरि नीकरना मानु नम

नव वांदलिया च० ॥ ३ ॥ संध सक
 ल मिल दरशन आवे देश २ के जा
 तरिया च० ॥ ४ ॥ कर जोडी प्रभु
 के गुण गावे थेई थेई नाचत अप
 कुरिया च० ॥ ५ ॥ कहत अवीर
 मेरे पास जिनंद के चरण कमल पर
 चित धरिया च० ॥ ६ ॥ इति पदम् ॥

॥ ठुमरी ॥

गिर नारी की बता दे डागरिया
 नेम प्रभू जी नें जोग लिया गि० ॥
 कृष्ण कोड़ यादव मिल आये जू
 नां गढ की नागरिया गि० ॥ १ ॥
 सहसा बन की कुंजगलिन में पंच म
 हा व्रत आदरिया गि० ॥ २ ॥ हाथ
 जोड के अरज करत है चरण कम

ल मे चित घरिया गि० ॥ ३ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

रय चटि यदु नदन घ्रावत है
षलो सखी सय देखन कु २० मोर मुकु
ठ पीतायर सोहे गिर नोरी कु घ्याव
त हैं २० ॥ १ ॥ तीन छत्र और
तीन सिहासन चौसट घमर डोलाव
त हैं २० ॥ २ ॥ लाल चद की येही
अरज हैं सय सखि मगल गावत है
२० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

श्री चितामणि पार्श्व प्रभू तुम
षरण शरण हम जाये है मनमोहम
मुदा कृति उज्यल देखत डग हुल

कृतार्थ किये सु कीए श्री० ॥ १ ॥
तैसे भवि जन प्रभु दर्शण करि पर
म पीयूष पिये सो पिये श्री० ॥ २ ॥
परम चिदानंद घन मय मूरत निर
खत वृजिन गए सु गए श्री० ॥ ३ ॥
अमृत चंद्र सूरि जिनघर कुं प्रणत
प्रगल्भ थए सु थए श्री० ॥ ४ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

अगर मगर कर गहन करण पर
आय चले फिर सांवरिया अ० ॥ १ ॥
तोर दर्ई मेरी नव भव की प्रीत
परम सुख सागरिया अ० ॥ २ ॥
तेल चढी मुझ कुं छटकाई आप च
ढे रेवत गिरिया अ० ॥ ३ ॥ मंजुल

श्री शास्त्री जिन आनन निरखत
कुमति कुटिलता नय गर्ह रे मे० ॥

१ ॥ विश्वसेन नृप नदन धदन तै
वपुपचकोटि हुलस गर्ह रे मे० ॥

२ ॥ शिर सचित्त अघ दूर करन को
अनुभव सुमति थिकस गर्ह रे मे० ॥

३ ॥ मिथ्या तिमिर निवारण कारण
शरद षड्विका दरस गर्ह रे मे० ॥

४ ॥ अमृत षड् सुरीश्वर प्रणमत
प्रमु पद पद्म अहर्निधि गर्ह रे मे० ।

५ ॥ इति पदम् ॥

॥ तुमरी ॥

श्री भज्जान पद भेट भई आज
प्रथर प्रमोद भए सु भए श्री० । वा
सक जिम घन पाप पानु तें आत्म

कृतार्थ किये सु कीए श्री० ॥ १ ॥

तैसे भवि जन प्रभु दर्शण करि पर

म पीयूष पिये सो पिये श्री० ॥ २ ॥

परम चिदानंद घन मय मूरत निर

खत वृजिन गए सु गए श्री० ॥ ३ ॥

अमृत चंद सूरि जिनघर कुं प्रणत

प्रगल्भ थए सु थए श्री० ॥ ४ ॥

इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

अगर मगर कर गहन करण पर

आय चले फिर सांवरिया अ० ॥ १ ॥

तोर दई मेरी नव भव की प्रीत

परम सुख सागरिया अ० ॥ २ ॥

तेल चढी मुझ कुं छटकाई आप च

ढे रेवत गिरिया अ० ॥ ३ ॥ मंजुल

चञ्जुल कुज के अदर सहसा धन व्रत
 आदरिया अ० ॥ ४ ॥ तरण तारण
 प्रभु समथ सरण में सुर घर नर मु
 नि पर धरिया अ० ॥ ५ ॥ नाथ नि
 रजन सुमति दूक पर अधिचल पद
 धी अनुशरिया अ० ॥ ६ ॥ सुधा श
 शी रधि जदुपति से पहिली राजुल
 गई शिव मदरिया अ० ॥ ७ ॥ इति
 पदम् ॥

॥ पुन ॥

जिनवर घन सरन सुमरन को
 रस्वियै घट की गागरिया । अमल
 कमल जिम घवल विमल सय गुण
 गण के प्रभु आगरिया जि ० ॥ १
 अमर कुमर नर निकर जिनद की

वन्दत चित्त उजागरिया जि० ॥ २ ॥
परम करम भर मरम चरम कर दर
लीनी शिव नागरिया जि० ॥ ३ ॥
अमृत चंद्र सुरिंद प्रणति कर मांगत
शिव पुर डागरिया जि० ॥ ४ ॥
॥ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

नव पद ध्यान धरें जो भविजन
सो शिव पंथ सिधाते हैं न० । अरि
हत उज्वल है केवल धर कंजानन
हुलसाते हैं लोका लोक प्रकाशक
जिनवर सुर नर चरण लुभाते हैं
१ ॥ अलख अमूरति सिद्ध अवस्था
अक्षय स्थिति सुख पाते हैं अमल
अगात्र अरुज परमात्म शिव रम

णी सग राते हैं न० ॥ २ ॥ श्री आ
चारज पाठक हित कर साधु चरण
चित लाते हैं दर्शन ज्ञान चरण त
प रूपी पुद्गल सग कहाते हैं न० ॥
३ ॥ ए नयपद कु त्रिकरण सूधे ध्या
न त्रिकाल लगते हैं अविषल ध्यान
धरत भविजन के मव सचित अथ
जाते हैं न० ॥ ४ ॥ हरि हलधर
सुर असुर पुरदर सिद्ध चक्र नित
ध्याते हैं ए निधि पद के चरण स
रण कु लछि सेवक नित चाहते हैं
न० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

नेम पिया अरज सुणी जेहो ।
सेरे दरस की चाह मुझे तुक दरशण

दीजे हो ने० सबजादव मिल ब्याहन
आये देखत हों तन मन हरखाये
तोरण सें मति जाओ पिया कुल स
गरो हसी जेहो ने० ॥ १ ॥ पसुवन
देख दया दिल आई मो अबला कुं
खडी छटकाई औसी तुमकुं नाचहिये
इनसाफ करीजे हो ने० ॥ २ ॥ आठ
भवां लग संग में राखी वाही के प्र
भु तुम हो साखी नोमें भव में नेम
पिया मत दूर करीजे हो ने० ॥ ३ ॥
बहोत कही है राजुल नारी प्रीतम
जी नहि दिल में धारी सहियां के
मिलने खातर अब संजम लीजे हो
ने० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ ठुमरी ॥

नेमि जिनद पद घदत भयि
जन दुर्गति दुख न पावत है ने० ॥
१ ॥ समुद्र धिजै शिवा देखि के
नदन घदन सध जग आवत है ने०
२ ॥ श्रवण पुकार सुणी पशु केरी
सत-स्विण घघ घुमायत है ने० ॥
३ ॥ नय भयकी प्रमु प्रीत न पाठी
राजल कु छटकायत है ने० ॥ ४ ॥
रघ फेरी प्रमु समय कारण सहसा
घन कु ध्यायत है ने० ॥ ५ ॥
नेम राजल दोनु मुक्ति सिघाए सु
घा सूरि गुण गायत है ने० ॥ ६ ॥
इति पदम् ॥

॥ दुमरी ॥

सभव जिन सु प्रीत लगी है स० ।

सेनांगज प्रभु तात जितारी कांचन
तन की क्रांति चंगी है सं० ॥ १ ॥

औसे त्रिभुवन नायक बंदित कुमति
कुनारी मेरी दूर भगी है सं० ॥ २ ॥

पाप तिमिर के निकर गए सब सु
मति सखी मेरे चित्त जगी है सं० ॥

३ ॥ दीन दयाल कृपा निध साहिव
अमृत सूरी शिव लील मंगी है सं०

४ ॥ इति पदम् ॥

॥ ख्याल ॥

तरसत जियरा दरसन कुं प्यारे
देखुंगी दीदार सुख पाउंगी त० ।
चाहुं मैं सेवा तेरे चरन की प्यारे
पूज २ हुलसाउंगी त० ॥ १ ॥ संवर
नंदन तुझ मुख देखत भव २ पाप

मिटाउगी त० ॥ २ ॥ प्यारे निदा
न तेरी सुरत उपर तन मन घन कु
रयान करूगी त० ॥ ३ ॥ अंतर जा
मी तुम दिन स्वामी और देव
नही घ्याउगी त० ॥ ४ ॥ राम कह
त कर जोरी प्रभु से देखव छयि उ
पटाउगी त० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥
॥ पुन ॥

धीर प्रभु की दोस्ती में मेरी स
मता सखी मेहर धान भई रे थी० ।
आप नहीं आवे बोध पठावे तेरी
सूरत पर कुरयान हुई रे थी० ॥ १
तीरथ नायक एही अरज है दीजे
दरस बढो घेर भई रे थी० ॥ २ ॥
आस दास की पूरण कीजे तेरे घर

णन में लपटाय रही रे बी० ॥ ३ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

तेरी देही है बुद बुद पानी का
नाम जपले पास दिल जानी का
ते० । जब लग तेरे घट में पवन है
दूजा नहीं तुझ सांजी का नां० ॥
१ ॥ कौन भरोसे बैठ रहे हो म
त कर मान जवांजी का नां० ॥ २ ॥
जा दिन तनु से हंस उडै गा
मोल रहा कोमी कान्नी का नां० ॥
॥ ३ ॥ सुमन अधम कूं निज पद
दीजे सुन लीजे अरज भवि प्रांणी
का नां० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

। प्रभु जी सु लाग्यो मेरो नेह स
खी री अथ कैसे करि लूटे री प्र० ।

१ ॥ धिक् धिक् वाको जग मे जी
वणो अपणा प्रभु जी से रुठे री

प्र० ॥ २ ॥ जो कोई प्रभु जी सु ने
ह करे तो शिव पुर को सुख लूटे

री प्र० ॥ ३ ॥ सेवा राम गाठ रेस
म की लगी प्रीत नहि लूटे री प्र०

४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

जालम जीगीडा सु लगी मेरी
जान वो जा० । कौन देख घसी तु

म जीगी खेले कौन धोगान वी
जा० ॥ १ ॥ आगम घट मे बासा

ही तेरा खेले ग्यान धोगान वो जा०

७ ॥ भले पधारे पावन कीजे जोगि
ग जीवन ग्रान वो जा० ॥ ३ ॥
उगत जुगत अवधूत के आगे होय
रही मंगल तान वो जा० ॥ ४ ॥
नाथ निरंजन जोगी कै उपर तन
मन करूं कुरवांन वो जा० ॥ ५ ॥
इति पदं ॥

॥ पुन ॥

ए तन निपट गवार गरब नहीं
कीजै रे भूँठी काया भूँठी मार्या
छाई जो लख लीजै वो ग० ॥ १ ॥
कै छिन सांभ सुहागरु जोवन कै
दिन में जग जीजे वो ग० ॥ २ ॥
भूधर पल पल होत है भारी जो २
कांचलि भीजै वो ग० ॥ ३ ॥ इति

॥ पुन ॥

मन मूरख पछी इन मारग म
ति जायरे म० ॥ १ ॥ कामनि तन
कसार जहा है कुच परयत दुख दा
य रे म० ॥ २ ॥ कामी किरात घसै
तिह घानक सरयस लेत छिनाय
खाय खोयाय कीघळ से बैठे अरु
राषण से राय रे म० ॥ ३ ॥ और
अनेक लूटे इह पेमें कहा लो कीन
घढाय भूघर कहै यह मारग छोडो
सो जिय शिष पुर जाय रे म० ॥
इति पदम् ॥

॥ गजल ॥

ध्यान में जिन के सदा छयलीन
हीना चाहिये ज्ञान गुरु ज्ञानी से

ले परवीन होना चाहिये राह संज
म का पकड कल्याण की सूरत मि
लै काल गफलत में सजन् नाहक
न खोनां चाहिये ध्या० ॥ १ ॥ धर्म
की खेती किया चाहै जमीन को
साफ रख बीज समकित का हृदय
में सच्चे से बीनां चाहिये ध्या० ॥ २
॥ कामना मनकी सफल आनंद से
पूरन भई अबतो शमता सेज पर
सुख से लोनां चाहिये ॥ दास चुन्नी
अपने घर आंगन में फूलेगा कल्प
भव थिती पकनेसे मुक्ती फल सलोनां
चाहिये ध्या० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ संगीत ॥

सोही सुरन गाती संगती सो०

संगीत गत येई येई ता ता येइया
नार्चे नाटक साधी सो० ॥ १ ॥ घजा
ये मृदंग भार्वे घाघा किटता घाघा
किटता धप मप धुनि जाती सो० ॥
२ ॥ ता धिळाग घुन किट किट धि
म किट धिन्ना किट धिन्ना किट घा
किट धिन्ना किट ता धिन्ना किटता
घासी सो० ॥ ३ ॥ जमम समै जिम
जान झान सध शिखर शील जाती
सुरा सुरेइ सध खले घाल मिल गा
ती घजासी आसी सो० ॥ ४ ॥ इति
पदम् ॥

॥ लायनी ॥

सुम तज कर राजुल नार तजे
सध घर रे मै नमु नेम के पाय ग

या गिरवर रे । मैं प्रीत पिया की
 कर के पल्ले लागी तुम त्याग चले
 बन खंड हुवे वैरागी अब राजुल सी
 सतवंति भाव से त्यागी तेरे अंतर
 घंट में जोत ज्ञान की जागी अब
 रोती राजुल नार नैन भर २ रे मैं०
 १ ॥ मैं नहि कीनी तकसीर चले क्यों
 रुठे मेरे घर के कुटुंब परिवार च्यार
 दिस लूटे मैं जो रहूं घर मांहि जो
 बन जब लूटैं मैं चलूं पिया के साथ
 प्रीत क्यों टूटै मैं नेम मिलन की आ
 स मिलुं क्यों कर रे मैं० ॥ २ ॥ मैं
 बिनवूं बारंबार करो मन परसन मे
 रे सिर पर तुम सिरदार दीज्यो मो
 हे दरसन मैं सब सखियन को देख

लग्यो नित परसन मेरे आयो नैन
में नीर लग्यो नित धरसन मेरे नेम
धिना नहि और जगत में धर रे
में० ॥ ३ ॥ मैं अग्य कर कर जोम
सुणो साहेली मेरे जिन जी धिना
नहि और जगत में वेली प्रभु तारी
राजुल नार मुगत में मेली प्रभु नेम
गये निरघाण करम सय ठेही मु
अरज करस जिन दास सुणो जिन
धर रे मैं० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

स्वयर नहीं है जग में पल की
सुकृत करपा होय सी कर छे कुण
ज.पै कल की स्व० । जब तन दो
स्ती है इह बस्ती काया मडल की

सासो सास समर ले साहिव श्रायु
 घटै तन की तारा मंडल रवी चंद्र
 मा सवहि चला चल की दिवस च्यार
 को चमतकार है वीजलिया भल की
 ख० ॥ १ ॥ यह जग है सुपनें की
 माया ओस बूंद जल की बिनस
 जावतां वेर न लागै दुनियां जाय
 खल की हंसा या देही में जब लग
 खुसी है मंगल की हंसा छांड चले
 जब देही महीं जंगल की ख० ॥ २ ॥
 मन महावत तन घंचल हस्ती मस्ती
 है दिले की सदगुरु अंकुश आन
 मिले जब सब बातें थल की मात
 पिता सुत भाई बंधव सब जग मे
 तलय की काया माया नार सनेही

यह तेरी कथ की ख० ॥ ३ ॥ मूट क
पट कर माया जोड़ी करवाता हूँ
की पाप की गाठ बंधी सिर तेरे
कैसे होय हूँ की दया धरम साहि
ब का सुमिरन कही धाता सत की
राग द्वेष उपजत नहि जिम कु धि
मती असपत की ख० ॥ ४ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

किसी की खोटी ना कहिये बल
चेतन धर उठ कर अपने जिन मं
दिर जहिये धरण जिम धर जी का
मेटो भव २ सचित पाप करम समय
वन मन से मेटो हे जान सुकृत की
जे जिन धर का गुण भज लीजे स

मकित अमृत रस पीजे लाभ जिने
 भक्ती का लहिये च० ॥ १ ॥ करो म
 त मुख से बडाई तज तामस तन
 मन सुमत के घर घ्राणा भाई
 रीत से बोलो हे ज्यान रीत से बो
 लो आत्म सुमता में तोलो मत भ
 रम पार का खोलो मौन कर तन
 मन में रहिये च० ॥ २ ॥ जोवन
 दिन च्यार तणा संगी अंत समैं चे
 तन उठि चाल्यो काया पडो नंगी
 प्रीत सब टूटी हे० आउखा की ख
 रची षूटी चेतन से काया रूठी सुख
 दुख आप किया सहिये च० ॥ ३ ॥
 जगत में रहना उदासी फरस्या में
 जिन राज कटी मेरी दुर्गति की फा

सी सजा सय घषा हे० जिन घर
मुख पूनिम षदा जिन दास तुम्हा
रा षदा नेरे इक जिन दरसन चहि
ये हा रे मेरे इक जिन दर्शन चहिये
ष० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

सुगुण नर श्री जिन गुण गाना
विकट कोट सकट भव छटयी ता
कु लघ जाना प्रमु से कर इक
साना मोह जाल विष ही अति दुर्ग
म तहा नहि उलमाना सु० ॥ १ ॥
गुण अनस पारस प्रमु जी के ताने
धिस देना कर्म कीच कलधिस आ
सम गुण निरमल कर लेना सु० ॥ २ ॥
निर्विकार प्रमु विष निहारत निज

अनुभव वरना तज विभाव परिणति
 पर संगे शुध परिणति धरना सु०
 निरुपाधिक भावे चेतन तें निज घर
 में रमणा इह पर भव दुख कारण
 जानत पर घर नहि भमना सु० ॥

४ ॥ अैसे आतम शक्ति उलासे
 आतम गुण सजनां शुद्ध क्षमा क
 ल्याण परम पद संपद कुं भजनां ॥
 सु० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

कुमति कलेसण नारि लगी क्युं
 केडै चल सरक खडी रह दूर तुम्हे कु
 ण छेडै तू सुमती को भरमायो मुम्हे
 क्युं छोडी मेरो सदा शासतो संगच्छि
 नक मै तोडी ॥ १ ॥ तुम्ह बिन सू

नी सेक कहु कर जोड़ी । उठ बली
 हमारे सग रही सुख पोदी यू
 कुर २ कुमति आसु आसु सु रेई
 ॥ २ ॥ मेरी अनत काल की प्री
 ति पलक नहि पाली । सुमता के ल
 ग्यो सग मुझे षु टाली तू सुमता
 को सरदार सुनावे गाली । तेरे
 दोनुं हीं हम मार गोरी छौर का
 ली तू हम कु ठेले दूर सुमति कु ते
 रे । ॥ ३ ॥ अथ कुमती को
 छलघायो रती ना दिगियो । सुषि
 करे सूत्रकी यात सैंठो होय लगियो
 जेसन दूरो कुमति सेक सैं मगि
 यो । जिन राज भजन को ध्याम
 हिया में जगियो । जिन दास कुम

ति की बात खोटी मत छेडै । च०
४ ॥ इतिपदम् ॥

सरकजा कुमति नारि काली । तेरी
संगतसे गड़ लाली । सोबत मैं सु
मता की टाली । आतमा तप में न
हि जाली कुबुध नहि कुमता की
टाली आतमा निगोद की माली
अचल पद जिन दास मांगै रखो
प्रभु चरणो कै पासै इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

चतुर नर मन कों समझानां वि
कट घाट पाखड जग सरवर ताकें लं
ग जानां इसमें गोता नहि खानां आ
स पास रस्ता है खोटा जिस सें ट
ल जानां च० ॥ १ ॥ मधु वध धर

मिथ्या जल औंढा अधिके उनमाना
 पाप घरेतो पकड उधोवे कुगुरु सु
 ग्गर दाना ख० ॥ २ ॥ जल खारा
 घति रोग बघारे राग द्वेष माना
 निकट जाय जल पीवे सोही होवे हीरा
 ना ॥ ३ ॥ कुर्धरम विपम उजड मां
 रग है मोये मरम छाना श्लोष मान
 दोनु तस्कर मारी राक बहोत जाना
 ख० ॥ ४ ॥ सुषुध नाथ सुगुरु खेव
 टिया हुमके सग धाना खरपी छारें
 विमल भायना लीजो मन माना ख
 ० ॥ ५ ॥ कुयुध नाथहिषा भेरा इ
 लाज करधाना देव कहै सुर गा सर
 घाढो सोई सायधाना ख० ॥ ६ ॥
 ॥ इति पदम् ॥ ३

॥ पुनः ॥

अरि श्रेय दुख अतकर रे जननी
 नैं जाउंगी मिरनार दिक्षा लोंगी भ
 व तरणी । खूब वरात अनाथ व्याह
 न कूं आए नेम हरी तोरन से रथ
 फेर चले जिन पशुन पुकार सुनी अ०
 ॥ १ ॥ करत करम को नाश नेम जि
 न कामनि शिव रमणी हमकों छां
 ड चले जग भींतर अब कैसी करणी
 अ० ॥ २ ॥ मात पिता सुत वहन
 भाणजी करो कुशल सजनी अब
 रहणे की नाहि भद्र में करूं नेम
 मिलनी अ० ॥ ३ ॥ दुद्धर दुख तघ
 वारह व्रत कर हृदय क्षमा करणी
 पूरव पुन्य विभाव उदय से ए अ

बसर करणी अ० ॥ ४ ॥ मिथ्या म
स मद पिया हलाहल घेर २ मरणी
सयम दरसन ज्ञान चारित्र्ये मुगत
बेह करणी अ० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

नेम नाथ मेरी अरज सुणीजे मे
हू दासी घरणे की तोरन आए फि
र मत जायो तुम को सोगन यादव
की ने० ॥ १ ॥ जान लेई तुम व्या
हन आए छारे सेना माघव की ह
पस कोह यदु जान मे आए ए अ
बसर नहि फिरणे की ने० ॥ २ ॥
रथ फेरी गिर घर कु घाए हम कु
छादि नव मघ की मेरे श्याम बिन
श्याम सलूने अब मे नहि हो रहणे

की ने० ॥ ३ ॥ सुण जननी मैं ताकुं
 कहूं तूं देखी शोभा गिरवर की मा
 त पिता बधव कुं क्वांडी जास्यो सं
 गें यादव की ने० ॥ ४ ॥ राजुल सुं
 दर तिहां सुं निकसी जाय चडी तूं
 कै गिरवर की मेरे श्याम नें देख
 घानंद मे ततखिण पाये पडनें की
 ने० ॥ ५ ॥ हाथ जोड के विनवै
 राजल वात सुणो पिय मुझ घर की
 हम कुं क्वाड चले निरधारी श्रव हूं
 पर सम सरणे की ने० ॥ ६ ॥ नेम
 कहै तूं सुण हो राजल विषया रस
 छै विष धारी यह शंसार असार नि
 रंजन कर करणी तुम तिरणे की ने०
 ७ ॥ पिड जी पहिली शंयम लीनें इण

सु कारज शरणे की तपस्या करणी
 उत्तम कीनी हुण भव पार उतरने
 की ने० ॥ ८ ॥ पिउ जी पहिला
 राजल रानी पहुति छे परम पदवी
 मे केवल छेने नेम शिधाए एहवी
 शोभा जिन जी की ने० ॥ ९ ॥ च
 तर कुशल ने कही छावणी उन सु का
 रज शरणे की अरिहत ध्यान धरो
 दिल माहें फिर फेरा नहि फिरने
 की ने० ॥ १० ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

हेरी भाई मेरो नेम गयो गिर
 नार उसे जा कहना जाके दरश यि
 ना तरसे हमारे नयना हे रो भाई
 मादय छि जान जोरावर शय बसि

आइ पशुवन से लगायो हेत मुझे
 छिटकाई मोहे बिलखी मेल महलूं
 में गये बन मांही सखि बैठी बीमा
 र मन कुं खंडी गम खाई मैं तोलूं
 हूंगर की ओट ठारें नहि रहना जा
 कै दरस बिनां तरसे हमारा नैनां हे०
 १ ॥ हेरी माई मोहे जावन दे बन
 मांहि ममत तज मेली मोहे बिबु
 डावो लै बोल जगत मे रावैरी हे०
 जग में काया कुमलाय काची जां
 कैरी तप जप संयम की लहूं सांक
 डी सेरी हे० इस महलों में नहि पा
 उं रती सुख चैनां जा० ॥ २ ॥ हे०
 नव भव को नवल नैमि नाथ पति
 मेरी व्रण रह्यो हिया को हार सीस

को सेहरो हे० उन तजा सोलह सि
णगार दियो धन हेरो मेरी सुणी
नही पुकार कान को बहिरो मेरो
पत्तो बसै पर्वस पै पहिनुं नहि गै
ना जा० ॥ ३ ॥ हे० कुगुरु से कि
यो ध्यापार गमायो गहनो तेरी म
गति धिना में हुषो बहुस मति ही
नो हे० । किण हीन हुषा बख उसी
का सीना काम घेनु घर माहि दूध
का घीना हे० । मोहे दुखी काल का
जीव कु दरमण टेना जा० ॥ ४ ॥
हे० । क्या भयो यही अचरिज जग
त में आयो मेरे पल्ले लाग्यो पाप
सुजस नहि पायो धुध होण भयो मे
रो जीव न जिन गुण गायो जिम

तिम करले पार शरण तेरे आयो
थोलै मजलिस में मलगान की मैनां
जा० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

सुनियेरे यातां राव सदाशिव न
ही षठ आणा धूलेवै गढ पति इन
का बडा अटंका मत क्खेडो तुमे उण
देवा सु० ॥ १ ॥ सकतावत चूंडावत
बोलत हमही नोकर उनही का हिं
दूपति वाकुं शीश नमावे तीन भवन
मांहे उंका सु० ॥ २ ॥ स्वर्ग मृत्यु पा
तालै बसतै सुर नर वाकुं ध्यावत है
इंद्ध चंद्ध मुनि दर्शन आवे मनकी
मोजा पावत है ॥ ३ ॥ गया राज
उनहीसे आवे निरधनीयां कुंधन दे

ये धाम खिलावत सुदर लम्का सदा
सुखी ज्यो नित ध्यावे सु० ॥ ४ ॥
तिरै जिहाज छेड़ समुद्र मै रोग
निवारण भव भवका भूप भुयंगम
नाहर गजन घोरन घघन अरि दध
का सु० ॥ ५ ॥ गिगढदो गिगढदो
घूसा घाजे दधो दिशा मा हैडका
माठ सातिया आण भुलाया मत य
सलायो गढ यका सु० ॥ ७ ॥ राणा
जी के उमराव योले जानत नही है
एधाता घाकी कीधी घेइज पायो
म्हे नही आया तुम साथे सु० ॥ ७ ॥
मूछ भरोही घढ अभिमानी जहर
भस्या है निज रामे रिपम दास क
है साहिब मेरा देख तमासा फजरा

मै सु० ॥ ८ ॥ इति षडम् ॥

॥ पुनः ॥

शांतिनाथ माहाराज देव देवन
का जाके दरसन ते दुख दूर होय
भविजन का जाके तात विश्व वि
ष्यात विश्वसेन राया सति अचिरा
देवीमात तनुज मन भाया जाके च
रण सरण मे हरिण चिन्ह मिसठा
या वांकि सोहै धनुष चालीस हेम
मय काया प्रभु गर्भधकी किये दूर
रोग लोकन का शां० ॥ १ ॥ प्रभु
भोगवी पदवी दीय एक भव भारी
तिहां चक्री अल्प सुख जान भये
व्रत धारी जिन कृद मस्थे सहु कर्म
काष्ट दिये जारी तब प्रगटयो केव

लना ण जगत हितकारी तिहा स
 कल विषुध पति आय पाय नमे
 जिनका शा० ॥ २ ॥ तिहा समव स
 रण सुर आय स्वैचित लाई मये प्र
 तिहारज यसु मगट अधिक जुलसा
 ई तिहा बीठे जिन महाराज मुकृति
 पदवाहै यह परस्वद्वारे मडाण प्रेम
 अधीकाहै तिहा सोहै स्वरूप अनूप
 मूप त्रिभुवन का शा० ॥ ३ ॥ प्रमु
 जोजन मान प्रमाण बाणि घमवर
 से मधिषात्रक करिके पान अधिक
 मन हरसे तिहा सप्तनयात्मक स्या
 दवाद धूम दरसे तय गणधर मुनि
 महाराज बाणि गुण फरसे मुनि २
 के घूमे मर नार कोटि देवन का

शां० ॥ ४ ॥ ईक लक्ष करस इम
आयु पाली उकरंगें आये समेत शि
खर प्रभु साथ लिये मुनि संगें तिहां
अनसन करि गया नाथ मुक्ति चि
त चंगे नित प्रणमें अमृत चंद्र सूरि
निर भंगे जपो श्रच्छ शांति गुण ल
च्छि विघन टले तन का शां० ॥
५ ॥ इति पदम् ॥

॥ वसंत ॥

कित जइये क्या कहिये वृतांत
आली किस विध लूटै मेरे मन की
भांत कि० ॥ १ ॥ कुक्क कहन सुणन
की है न बात दिन २ क्कीजै तन
सिथिल गात कि० ॥ २ ॥ चंचल
चित किंचित धरै न धीर स्वाभी

शिन कौन मिटावे पीर कि० ॥३॥
मीत धिवेक तुम हो सुजान इहा
जान सुजान धू हो अजान दूषण
अत्र काकु दे सुमिप्र इहाँ कर्मन की
गति है विधिप्र कि० ॥-४॥ थोले
तय धीर धिवेक धान समता घर
धीर न खेद धान ओसर पाए घर
आवे कत धुनी छाल सहित खेले य
सत कि० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

आये सुग्ध दायक रितु बसत ।
मिल खेलेत फाग सुसाधु सत यदो
धिवेक बासर प्रमान घट गइ कुम
ति रजनी नीदान अति जोर गयो
जाहो अज्ञान तिहा मोह कप की

मिटी है धान आ० ॥ १ ॥ ज्ञान
 भानु को चढो है धाम ममता हिम
 गिर गल गयी है ठाम समता सरि
 ता को बढो है जोर वह चली सरि
 त सागर की ओर आ० ॥ २ ॥ उप
 शम मोर है अंघ सार नये पत्र भये
 वैराग भाड तिहां बिरति बेल की
 नो बिथार मन मधुकर कीनो है
 गुंज सार आ० ॥ ३ ॥ अगटी रुचि
 भूमि सुगंध व्याप शुभ मति कोकि
 ल कीनो अलाप उपयोग कुसुम फू
 ले सुगंध तिहां बहै निकट सरधान
 गंग आ० ॥ ४ ॥ या बिधि उपज्यो
 है घट बसंत सुनि बुदित भए सु
 नि जन महंत तजि गृह वास वन

बिन कौन मिटावे पीर कि० ॥ ३ ॥
मीत धिवेक तुम हो सुजान इहा
जान सुजान क्यू हो अजान दूषण
अथ काकु दे सुमिप्र इहां कर्मन की
गति है विधिप्र कि० ॥-४ ॥, घोले
तय वीर धिवेक धान समता घर
धीर न खेद भ्रान भोसर पाए घर
आवे कत धुनी छाल सहित खेले य
सत कि० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

आये सुख दायक रितु बसत ।
मिल खेलेत फाग सुसाधु सत यढी
धिवेक धासर प्रमान घट गइ कुम
ति रजनी नीदान अति जोर गयो
जाइो अज्ञान तिहा मोह कप की

॥ पुनः ॥

तुम ज्ञान विभो फूली वसंत मन
मधुकर सुख सों रसंत तु० ॥ १ ॥
दिन बडे भए बैराग भाव मिथ्या
मति रजनी को घटाव तु० ॥ २ ॥
बहु फूली फेली सुरुचि वेल ग्याता
जन समता संग केल तु० ॥ ३ ॥
द्वानत बानी पिक मधुर रूप सुर
नर पशु आनंद घन सरूप तु० ॥ ४ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

कित जैये क्या कहिये चयांन तु
म जांन सुजान क्योहो अयांन कि०
इह स्याद वाद कुल की मूजाद पर
घर पग घरनें क्या सवाद कि० ॥ १ ॥

दियो है चित्त तिहा आय मिले स
तोसे मित्त जा० ॥ ५ ॥ निज श
क्ति सुहागन, सजि सिगार, घली, य
हुत सुखी सग लिये ही लार, तिहा
समकित केसर रग्यो है धीर सगर
गुलाल, आश्रय, धवीर जा० ॥ ६ ॥
पिचकारी परम समाधि, ज्ञान गुरु
वचन राग धू पद यखान, तिहा अ
नहद ध्वनि वाजत मृदग नव मेद
भक्ति नाथत सुदग जा० ॥ ७ ॥
बहु विधि कर्म को कियो है नाथ
कुक रहे सहज अनुभव धिलाय ति
हा हृषख चद आत्म प्रकाश परमा
त्म पद कीनो नियास जा० ॥ ८ ॥
इति पद्य ॥

ति मेलिरंग कि० ॥ ३ ॥ उत काम
कपट मद मोह मान इत केवल अ
नुभव अमृत पान कि० ॥ ४ ॥ अ
ली कहैं सुमता उत दुख अनंत इत
खेलें आनंदघन बसंत कि० ॥ ५ ॥
ईति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

मेरे हृदय पदम प्रभु भ्रमर रूप
काया नगरी में आप भूप मे० ॥ १
॥ पल पल आपन कुं जपति आप
जोगी जन जपत हैं अजपा जाप
मे० ॥ २ ॥ सोहं सोहं फिर हंस हं
स आत्म परमात्म कोहि अंस निह
चै नय याही ठीक ठान व्यवहारें
बाहिज रूप मान मे० ॥ ३ ॥ क्रम

अलबेली अकेली हू उदास पैं खिण
हकटोरु। नहि अयास अजपने मुख
अपनी कया प्रशंस धरनें जय सोभा
जात यस कि० ॥ २ ॥ घर ए नीकी
एतो पमान जग घादी कूक्या दित
मान समकाय धीर धर आन कस
जिह ज्ञान सार खेळत असत कि०
इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

कित जाण मते ही प्राणनाथ इ
त आय निहारी ने घरको साथ
कि० ॥ १ ॥ उत माया काया कौन
जात बोहे जड तू हे खेतन जग वि
ख्यात कि० ॥ २ ॥ उत करम भरम
विष बेलि सग वत परम निरम म

प निहार सु० ॥ ३ ॥ इण विध खे
लत काल अनंत लख चौरासी जी
वा जंत अव तुम वांह गहो भगवंत
शुद्ध चेतन विजय खेलें वसंत सु०
॥ ४ ॥ इति पदम् ॥ पुनः ॥
क्यूं आज अचानक आण भोर ।
कर महिर निजर ललनी की और
क्यूं पर भाव रूप अंधि यार तोर
सुसुभाव उदै रवि कै सजोर क्यूं ॥
१ ॥ अब सुद्ध रूप गहि कै अनूप
वरिये केवल कमला सरूप तव ज्ञान
सार पद तुम्ह सरूप पावो आतिम
परमात्म रूप क्यूं ॥ २ ॥ इति
पदम् ॥

यद्यत्त वाच्योऽतोऽलुःजीवितुममुगतं
 होत यह शिवःसदीय पदमःप्रमू के
 गुण करित गोन क्वधिःराज लहत
 अक्षय निधान मे० ॥१४॥ इतिपदम्

॥ १ ॥ पुनः ॥ १ ॥

सुधिधिनाथ सुम देवे अनतासौ
 मैं बोलू आज वसंत समकित शोभि
 त केशर रग खबर लाल गुलाल सुष
 ग सु० ॥ १ ॥ कर पिधकारी करुणा
 जान ओश्रय अवीर उडावो मान
 आगम धुनि करिये शुमद गान प्रमु
 गुण गावने कुं रख सुवान सु० ॥ २
 ॥ घीरज घप न्य याजस मृदग सा
 रिग म प घनी तान तरग नेम धा
 रणां नाटक सार सुमति सुस्वीकु जा

जय सैं मैं जाण्यो जिन अन्नंत मे० ॥
मे० ॥ १ ॥ जाको जस परिमल है
महंत मेरो मन मधुकर तिहां गुण गुण
त मे० ॥ २ ॥ करुणा करि तारे ज
गत जंत निज रस मैं राजे शुद्ध सं
त मे० ॥ ३ ॥ सुख दरसन ज्ञान
सुकृति वंत श्री गुण विलास शिव
रमणि कंत मे० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

मन मोहन मेरे नेम जिनंद जिन
राय म० । शिवा देवी नंदन सहु
जग वंदन समुद्ध विजे जी के नंद
अद्भुत रूप स्वरूप अनूपम कोटि
रवी असु चंद्र म० ॥ १ ॥ आठ भ
वां लग संग मैं राखी नव मैं न दी

आंण जग्यो अंतर बसंत मा० ॥

२ ॥ अब लेह लहर उपशम शरीर

फूली फुल वारी गुण गंभीर मा० ॥

३ ॥ जिहां की जित समकित सरस

पान कृकिये घुल रहि सुकल ध्यान

मा० ॥ ४ ॥ ऐसे पूरण प्रभु जी के

अंगनमाय अजिन भक्ति रमै जि

न वर सहाय मा० ॥ ५ ॥ इति

पदम् ॥

॥ पुनः ॥

आतम अनुभव रस कथा प्याला
पिया न जाय मत वाला तोढहि
धरे निमता परै पचाय क्वीले ला
ल नरम कहै आली री गरम करत
कहावात आ० ॥ १ ॥ माके आगे मांमूं

जे छेह प्राण पिघारा - सज्जन मेरा
अरज सुणी परि नेह म० ॥ २ ॥
उमा ही मिलया तणोसरे । उपजत
हे निस दीस सो मन जाणें माहरी
के जाणे जगदीस म० ॥ ३ ॥ यादव
मिल कर जान यना आए तोरव
पास पसुवन पें करुणा करी राजुल
कीनी निरास म० ॥ ४ ॥ प्रीतम
पहली राजुल पामी सुदर शिथ नो
वास अमृत बंद सूरिअर जपे पूरो
बलित आस म० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ यसत धमाल ॥ -

माहं रग भर खेलें गे धमाल ।
हम भीत मिले अश्व सेन लाल मा०
जिहा जाड़े पापीयो सहेज अत इहा.

रिये रे दमवा को किरकाव ज्ञान
पिचर को षकर कै वारी मुगति ब
धू चित लाय हो० लेश्या मादल
भाव डफरे क्रोध मान दीय ताल
पांच सुमति को अरगजो वारी न
व तत्व लेइ गुलाल हो० ॥ ३ ॥

औसा साज बणाय के रे रिषभ देव
गुण गाय श्री जिन चंद्र इम खेल
तां वारी भव २ पातिक जाय हो०
॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ भैरवी होरी ॥

बनि आया मा होरी का सिंगार
री सुरुचि समकित बागा पहिर के
ज्ञान विमल गले हार री व० ॥ १ ॥
प्रभु गुण श्रवण सोहै युग कुंडल

को कोई धरनन करत गधार अंज
हु कपट के कोधरा हो कहा कहे
सरधा नार छ० ॥ २ ॥ ममता खाट
परे रमै हो ओली दै दिन रात छे
ना न देनो इन कथा हो भोर ही
आवत जात छ० ॥ ३ ॥ कहे सरधा
सुन सामिनी हो एतो न कीजे खेद
हेरे २ प्रमु आवही हो यदै आनद
घन मेद छ० ॥ ६ ॥ इति पदम् ॥

॥ घमाल ॥

होरी खेळीये नर यदुरन औसो ।
दाव हो० । दया मिठाई रस मरी
रे तप मेधा परधान शील अया
णो अति भलो धारी समय नागर
पान हो० ॥ १ ॥ ममता केसर घो

न भाव बतार्ई प्र० ॥ २ ॥ केसर

कुसुम सुगंध सलिल भरि भरि पिच

कारि चलाई रंग फोंहार लसत बूंद

नि सी स्वास पवन सने नाई प्र०

३ ॥ चमर दुरत मैं दंड गगन नें च

पला जोत दुराई पास प्रभू गल मा

ल सुरंगी सुर चांपक सी पाई प्र०

४ ॥ नाचत तान सुनावत गावत

होरी को ढंग रचाई ओसर पाय

धाय प्रभु पद तेल नमत गुलाब

सदाई प्र० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ होरी ॥

रंग लयायो वनाय सखी भूट पट

होरी पेलुं मैं आज अली चट पट

र० ॥ १ ॥ पांच नार इक मंदिर अं

आज्ञा मोड शिर धार री य० ॥ २ ॥
मृदु गुण अथीर लिये मर भोरी स
मता रग पिचकार री य० ॥ ३ ॥
प्रम गुण गान करे शुभ सार्ने मुख
घोले जम कार री य० ॥ ४ ॥ दास
धुनी असा साज यनाय के होरी
पेले हरख अपार री य० ॥ ५ ॥
इति पदम् ॥

॥होरी काफी ॥

प्रम घर आज अधिक कृषि काइ
देखो फागुन घरखा आई मुवन भ
धिक जिन घर साहिय के घूम घुमार
सघाई प्र० ॥ १ ॥ उठत गुलाठ क
ए घन यदरा सार्ज गमक गहराई
सठ तठ पढत अथीर कुकुमा ओर

ज मतीन्नी प्रीत पुरानी ज्ञानी ध्या
नी जदुरइया रतन कहत नेमनाथ
कृपा कर राजुल पंचमि गत पइया
हो० ॥ ३ ॥ इति पदम्

॥ पुनः ॥

अचरिज होरी आईरे लोको अ
चरिज होरी आईरे लाला अ० ला
ल गुलाल उडत आटेकी एह मि
थ्यात उडाईरे अ० ॥ १ ॥ पिचका
रिन की भडसी लगी है बाणी रस
भर खाईरे अ० चंग मुदंग वाजत
ख्यालन की अनहद नाद घुराईरे
अ० ॥ २ ॥ वह मिथ्या मत होरी
गावत इह भवि जिन गुण गाईरे
अ० काठ षंड की होरी जगाई इ

दर एक से एक घड़ी नट खट र० ॥
पांचे नार पधरग बनी है निस दि
न मोसे करत खट पट र० ॥ २ ॥
एक होय तो पकड़ ले आउ पाषो
कु कैसे करू गट पट र० ॥ ४ ॥
धुन्नी आतम रग घटक ले छावो
पाषो कु आज करू लय पध र० ॥

॥ पुनं ॥

होरी खेलै दो महया देखो नेमी
सरने कान्हीया हो० धपो धपेली
धौर केतकी सयही फूली धन रइया
हो० ॥ १ ॥ शीतल मद सुगध सु
हामण धजत धयार मनोहरिया रा
धा रुफमण सहु मिल हरखित व्या
ह मनाघो देधरिया ही० ॥ २ ॥ रा

जे हे अघ मोचन तारक तारेश्वर
शां० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

ऐसो दाव मिलोरी लाल क्यांन
खेलत होरी । मानव जन्म अमोल
जगत में सो बहु पुन्य लहोरी अब
तो धार अध्यातम सैली आयु घट
त थोरी थोरी वृथा नित विषय प
गोरी औ० ॥ १ ॥ सुमति सुरंग सुरु
चि पिचकारी ज्ञान गुलाल सजोरी
भट पट धाय कुमति कुलटा गहि
दलि मलि शिथिल करोरी सदाघट
फाग रचोरी श्रै० ॥ २ ॥ शंम दम
साज बजाय सुधर नर प्रभुगुण गा
य नचोरी सुजश गुलाब सुगंध प

ह कथु कर्म जलाई रे अं० ॥ ३१ ॥
मद पानी जन मदिरा पीवत कोई
मुह फेरे न माई रे अ० ज्ञानसार के
ज्ञान नयन में अनुभव सुरखी जा
इ रे अ० ॥ १ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

शांति करो श्री शांति जिणे श्व
र भवभय भीति हरो परमेश्वर शा०
॥ १ ॥ पूरन ब्रम्ह परम परमेष्ठी शि
ष करता प्रभु जिन जगतेश्वर शा०
॥ ३ ॥ अलख निरजन देव प्रभाक
र निरकार निरगुन अलयेसर शा०
॥ २ ॥ पुरसोत्तम परमात्म नायक
जगन्नाथ जगदीश विसेशर शा० ॥
१ ॥ दास चुनीकु निरमय सुख दी

जे हे अघ मोचन तारक तारेश्वर
शां० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

ऐसो दाव मिलोरी लाल क्योंन
खेलत होरी । मानव जन्म अमोल
जगत में सो बहु पुन्य लहोरी अब
तो धार अध्यातम सेली आयु घट
त थोरी थोरी वृथा नित विषय प
गोरी औ० ॥ १ ॥ सुमति सुरंग सुरु
चि पिचकारी ज्ञान गुलाल सजोरी
भट पट धाय कुमति कुलटा गहि
दलि मलि शिथिल करोरी सदाघट
फाग रचोरी औ० ॥ २ ॥ शम दम
साज वजाय सुधर नर प्रभुगुण गा
य नचोरी सुजश गुलाब सुगंध प

सारी निरगुण ध्यान धरोरी कहा
जल मस्त परोरी ॐ ॥ ३ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

सावरो सुख दाई जाकी ह्यवि
घरणी न जाई । श्री अश्वसेन यामा
नदन की कीरति त्रिभुवन छाइ स
मेत शिखर गिर मदन प्रभु को देख
दरस हरखाई हृदय मेरो अति हुल
साई सा० ॥ १ ॥ आज हमारे सुर
तरु प्रगटयो आज आनद यधाई
तीन मुषन को नायक निरप्यो प्रग
टी पूर्य पुन्याइ सफल मेरो जनम
कहाई सा० ॥ २ ॥ प्रभु के सरस
ठरस दिन पाये भय २ भठक्यो में

भाई अब तेरो चरण शरण चित चा
हत बाल कहै गुण गाई प्रभू से ल
गन लगाई सां० ॥ ३ ॥ इति पदम्
॥ पुनः ॥

नेमनाथ बर पायोरी सजनी ध
न राजुल तेरो भागरी । पहली मैं पू
जूं रिषभ जिनंदा जिण मोहे दियो
हैं सुहाग री ने० सोनें को छत्र ध
रुं शिर उपर गल मोतियन की मा
लरी ने० ॥ १ ॥ चंपा चंवेली दमना
मरुआ फूल चढाउं गुलाबरी ने०
धूप दीप नैवेद्य प्रारती मुख वालै
जय जयकार री ने० ॥ २ ॥ जयरं
ग की प्रभु प्ररज वीनती भव २ दी
ज्यो दीदार री ने० ॥ इति पदम् ॥

सारी निरगुण ध्यान घरीरो कहा
 अल मस्त परोरी औ० ॥ ३ ॥ इति
 पदम् ॥

॥ पुन ॥

साधरो सुख दाई जाकी छवि
 धरणी न जाई । श्री अश्वसेन धामा
 नदन की कीरति अत्रिमुधन छाई स
 मेत शिखर गिर मसन प्रमु को देख
 दरस हरखाई हृदय मेरो अति हुल
 साई सा० ॥ १ ॥ आज हमारे सुर
 तरु प्रगटयो आज आनंद अघाई
 तीन मुधन को नायक निरप्यो प्रग
 टी पूय पुन्याई सफल मेरो जनम
 कहाई सा० ॥ २ ॥ प्रमु के सरस
 दरस धिन पाये मध २ मठयो में

धरम जिनेसर राय होरी मन सुं
षेलूं । तुम बिन अवर नहि कोई
जिणसुं चित्त लगाय हो० ॥ १ ॥
ज्ञान गुलाल लाल घट बादल कुम
ति अवीर उडाय हो० ॥ २ ॥ तन
का डफ मनमृदग बजाउं रीभूं जिन
गुण गाय हो० ॥ ३ ॥ समकित केस
र चौर रंगाउं पहरी मन चितलाय
हो० ॥ ४ ॥ सुमति सखी संग ली
जे चेतन अविचल षेल मचाय हो०
॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

नेम निरंजन ध्यावो रे वैन में
तप कीनों । सव यादव मिल व्या
हन आए पहरि जराव जरी नों रे

॥ पुन ॥ - २२,

पायो नर अघतार होरी आतम
पेले ॥ फिर नहि औसो दाव मिलेगा
आपा आप निहार हो० लख चौ
रासी रूप यनाये जीव नर्चे गति
ध्यार हो० ॥ १ ॥ तन करसाळ घजे
घट माहीं मन मादळ घोकार हो०
धीरज ध्यान धरम को डफ ले गा
वत आगम सार हो० ॥ २ ॥ ज्ञान
गुलाळ, लाल रंग लागे सुमति सखी
से प्यार हो० ॥ ३ ॥ अथीर अत्रत
कुमति कुडारे परमातम पद धार
औसा पेले मयिक जन धारे बेषन
उतरे पार हो० ॥ ४ ॥ इति पदम्

॥ पुन ॥

क सुजस्ता संयम वासन भर भोरी
चि० ॥ ४ ॥ द्वादश भाव गुलाब सुं
लेकर तप पिचकारी भर भोरी चि०
आगम अगम सुं धमाल सुनावत
अति संवर गुण साभ तुरी चि० ॥
७ रतन सागर कहै धन २ ते नर
इण बिध खेलै जे होरी चि० ॥ ८ ॥
॥ इति पदम् ॥

॥ होरी ॥

सांवरी सुरत मन मोह लियो मे
रो प्रभु जी से ध्यान लगाउं गी अ
रे मै तो उनही से ध्यान लगावुंगी
सां० । मन बच काय करी एकांतै
जिन चरणे चित लावुंगी अरे मैतो
प्रभु चरणे चित लावुंगी सां० ॥ ९ ॥

ष० ककन मुकुट हाथसे तोड़े पशुवन
 पर चित दीना रे० । १ । सहसायन की
 कुज गरिन में पच महाव्रत लीना जि
 नधर मूषण कहै भविजन सेँ सहु ज
 गर्में जसलीना रे ष० ॥ २ ॥ इति
 पदम् ॥

॥ होरी ॥

चिदानद खेलें होरी सग लिये
 समता गोरी । भाष मृदग दया डफ
 घाजत विनय वियेक घुनि जोरी
 षि० ॥ १ ॥ पाच सुमति जिहा भा
 क थजतहै छतियोग जगति ताल
 मजोरी षि० ॥ २ ॥ स्नेह विनय वै
 राग अरगजा निर्मल घन केसर घो
 री षि० ॥ ३ ॥ ज्ञान गुलाब विये

जन दरसण आनंद कारी भला हो
 प्रभु दरसण आनंद कारी हो स० ।
 चोरासी लख योनी में भटकत पा
 यो नर अवतारी हो स० ॥ १ ॥
 भंगी भाडी विषम पहाडी मैतो पंथ
 उलंग्यो भारी हो नदीयां नाला व
 हत विशालां फूल रही फुलवारी हो
 स० ॥ २ ॥ प्रथम चरम वारम ति
 हां जिनवर नेम जिणंद ब्रम्ह चारी
 हो स० ॥ इन विन बीस जिणेसर
 गिर पर वरिया शिव पद नारी हो
 स० ॥ ३ ॥ बीस जिणंद प्रसिद्ध ज
 गत में त्रिभुवन जन हित कारी हो
 स० ॥ मैहुं अनाथ नाथ मुझ दीजे
 अविचल पद अविकारी हो स० ॥

अश्व सेन नदन सहु, जग, धदन ता
मा के गुण गाउगी अरे मै०, सा० ॥
२ ॥ समेत शिखर गिर भावे फरसी
सुध समकित उपजाउ गी सा० ॥
३ ॥ श्री चितामणि पास दरस, ते
परमानद पद पाउ गी सा० ॥ ४ ॥
लखमण पुर, से श्री सुध हरंखै समेत
शिखर चित लाउगी सा० ॥ ५ ॥
सयत अठारे घाणर्वे यरसे माघ ते
रस सुख - पाउगी सा० ॥ ६ ॥ श्री
जिन घद गुरु सुपसाये नदी यद
न गुण गाउगी सा० ॥ ७ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

समेत शिखर तुम अदी रे भवि

ले वा० ॥ अमृत चंद्र सूरि कहै भ
विजन परम ज्ञान धन समझ ले वा०
जा० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

छांड दई लाखन में या जदुराज
कुं लाज नही है छां० ॥ १ ॥ अरे
लाला० व्याहन आए सब सुख पाए
कृषन कोडि लाये संग में अ० जा
न बनाय जुगत सुं आए उगृसेन
आंगन में अ० ॥ २ ॥ तोरण आए
संगल गाए मूले पशु भाषण में अ०
नव भव नेह निवार पलक में फेर
चले रथ किन में अ० ॥ ३ ॥ कर्म
अरीनें दूर करण कुं व्रत लियो सह
सा वन में अ० केवल पाय भविक

४ ॥ सवत उगणीसे षोषीस धरसे
जात्रा करी जय कारी हो पोस सुदी
पूनिम सुभ दिवसे राम कहत बलि
हारी हो स० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

धरम जिनद पद मजले घाघरे
जासे होरी पेछन मग पढ़हे घा० ।
प्रमु पद कज मकरद पान ते सधि
त अघ मल तजि ले घा० जा० ॥
१ ॥ श्री जिन धर याणी चित आ
णी विषय विकार धरज ले घा०
जा० ॥ क्रोधा दिक् विष अरि मय
दुख तजि जिन धर्म तत्व कु सजले
घा० जा० ॥ २ ॥ ज्ञानादिक गुण
ई घट अतर अनुभव करि कै समक

जाकी भव्य कुमुद विकसायोरी अ०
३ ॥ कहन सकै गुण वासव सुर गुरु
विधिना ध्यान लगायोरी अ० । ज्यो
ति स्वरूप अरूपी अर्ह भक्त वक्कल
मन भायोरी अ० ॥ ४ ॥ संवत सय
उगणीस अठोत्तर सुदि फागुण मन
लायोरी अ० - द्वितीया दिवसे श्री
जिन गावत रिषि राम चंद बंदे पा
योरी अ० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ धूरिया सोरठ मिश्रित ॥

पर घर खेलत मेरो पिया कबु
वरजो नहि येहनें भईया प० ॥ नक
टोरिन के संग नचत हो तत तत
तत ता थैइया चंग वजावे गाशी
गावे कैंन वनाव बन्यो दइया प० ॥

जन तारे पहुँचे मुक्ति नगर में अ०
१ ॥ चद कहै कर जोड़ि नेम नें रा
खो सुमरी शरण में अ० इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

ॐ नद पायो री चद प्रनु पद
पकज देख मै आ० । काशी देश पु
री चदायती माता लखमणा जायो
री उजाल वर्ण शरीर अनोपम सुर
मिल मंगल गायोरी आ० ॥ १ ॥
सञ्चित सुख परि पूर्ण मनोहर योगी
ध्यान में ध्यायोरी अ० । अलख नि
रजन अगुरु लघू फुनि आत्म ज्ञान
सुहायोरी अ० ॥ २ ॥ त्रिभुवन चदा
लोक चदमा चरण शरण में आयो
री अ० । दोउ पक्ष में चढती कला

प्याल सूं भा० ॥ २ ॥ इति पदम् ॥

॥ होरी ॥

साहव श्राद जिणंद चंद मोहे अ
पनें रंग में रंग दे रे मो० ज्ञान गु
लाल विवेक अरगजा शमता केसर
रग दे रे सा० ॥ १ ॥ मन वच काय
लगाय सुरत से ज्ञानं हिये विच भर
दे रे सा० ॥ २ ॥ चैन विजय कर
जोडि के विनवे चरण कमल चित
धर दे रे सा० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

तज राजुल भयो अनुरागी देखो
अबहि चढो है गिर नारी त० । गिर
पर जाय महा व्रत लीनों काटे कर्म
के दुख भारी त० ॥ १ ॥ समव श

१ ॥ स्वर घसवारी धमर धुहारी श्या
 म घदन सिर पर घरिया विष्टा
 रगरी जूती पधरी लाज भरत हू
 मैं मढ़या प० ॥ २ ॥ इह सब घेष्टा
 पर परिणत की निज घर में रमिहें
 भयिया आतम सीस गुरु ही खेलै
 ज्ञान सार जिन में मिलिया प० ॥
 ३ ॥ इति पद ॥

॥ होरी काफी ॥

भाई मति खलै तू माया रग गु
 लाल सूं मा० माय गुलाल गिरन ते
 मूदी आख अनते काल सूं भा० ॥ १
 जल विवेक भर रुचि पिचकारी छि
 रके सुमति सुघाल सूं भा० उधरत
 ज्ञान नयन तें खेलै ज्ञान सार निज

टक उठ सुमति सखी भट रंग लै च
टक हो० ॥ १ ॥ शील सिंगार पहेर
सत बागा लोड असत भेटो मन की
भटक हो० ॥ २ ॥ खेलै फाग समकि
त शुध घर कै घरही के सब जंजाल
पटक हो० ॥ ३ ॥ ज्ञान गुलाल लगा
य सुरत सुं प्रभु पद पकज में जा
अटक हो० ॥ ४ ॥ सुभ मन की पि
चकारि हाथ ले असुभ करम तक मार
सटक हो० ॥ ५ ॥ चुबि निज आतम
रग में बेलै देख सुधर की अनूठि ल
टक हो० ॥ ६ ॥ ईति पदम् ॥
॥ पुनः ॥

होरी आई तू समता कूं भजलै
भटक पर गुण की संग ते अलग य

रण जाको इहू रच्यो है को धरणे
शोभा सारी त० । चैत विजय कर
जोहि के धिनर्वे ऐसे नेम धरण की
घलिहारी त० ॥ २ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

- मेरो परम सनेही पास कुमर मो
कु याद कायत हूँ धार २ मे० ॥ १ ॥
अधत्तेन धामा जी के नदन मध जल
धी मीहे तार तार मे० ॥ २ ॥ घडि
२ पल २ ध्यान धरत हू येही जगत
में सार २ मे० ॥ ३ ॥ मैं तुम धरण
धरण लपटो हू अग्रि कहे गुण धार
धार मे० ॥ ४ ॥ इति पठम् ॥

॥ पुन ॥

होरो आर्ह सु चैठी है क्या वे स

विरहा नल अति दुसह पिया विन
कान बुभावे री मे० कै० ॥ २ ॥
सुमति संग ले अनुभो आये सब प
रठ सुनावे री अ० ज्ञानसार प्यारी
दो हिल मिल सोरठ गावे री मे०
कै० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

चेतन षेलै होली इस काया नग
र में चे० चेतन राय सुमति पठ राणी
रंग रमें अति हित आणी इ० शम-
ता दिवान बडो जस आगे विनय
सदा सुत जाणी इ० ॥ १ ॥ मोह म
हीपति वीजो राजा कुमति कही त
सु नारी इ० मान दिवान लीभ ज
सु आगे राग केसरी सुत भारी इ०

टकं हो०-१ परिहर मन नृपकी च
 खलता निज गुण कु पहिघान सटक
 हो० ॥ १ ॥ निस दिन जिनवर के
 गुण गावो विषय कसाय की छोम
 घटक हो० ॥ २ ॥ सरधा शीयल सं
 तोस सजम घर आगम धमृत पीषो
 गटक हो० ॥ ३ ॥ कहत अघोर सु
 मति सखि सगे होरी पेछो जिन राज
 निकट हो० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ होरी सोरठ ॥

अरी मैं कैसे मनावु री मेरो पिया
 पर सग रमत हि कै० सौखिन सग री
 न रग रमता मोहे न धुलावे री मे०
 कै० ॥ १ ॥ हा हा कर सखि पैषा
 परत हू पीय मिलावे री अरी कोई०

विरहा नल अति दुसह पिया विन
कान बुभावे री मे० कै० ॥ २ ॥
सुमति संग ले अनुभो आये सव प
रठ सुनावे री अ० ज्ञानसार प्यारी
दो हिल मिल सोरठ गावे री मे०
कै० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

चेतन खेलै होली इस काया नग
र में चे० चेतन राय सुमति पठ राणी
रंग रमें अति हित आणी इ० शम-
ता दिवान बडो जस आगे विनय
सदा सुत जाणी इ० ॥ १ ॥ मोह म
हीपति वीजो राजा कुमति कही त
सु नारी इ० मान दिवान लोभ ज
सु आगे राग केसरी सुत भारी इ०

१ ॥ १ ॥ १ ॥ पुनः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥
 होरी खेलत नेम चित्त घारी हो०
 होरी पेलस पहुचे याग मे तिहा फू
 लि रही है। फुलवारी हो० ॥ १ ॥
 गोपिन सहित कृष्ण तिहा आये
 राग घालापत है मारी हो० याज
 त ताल मदग तयूर डेक धीणां येणु
 सितारी हो० ॥ २ ॥ अज गौरी मिल २
 भर भोरी अधीर अनेक उछारी हो०
 औसो प्रभु जी को पेल वस्त्र के सवल
 हरख नर नारी हो० ॥ ३ ॥ ईति पद
 ॥ पुनः ॥

ज्ञान ती अजहू न पायो। मोकु
 औसो भेद यतायो। एता दिन दिल
 में पूजा नित घेद को अर्थ में पायो

पण प्रभु मुखसे अर्थ सुन्यो जब सोई
अर्थ ठरायो ज्ञा० ॥ १ ॥ ओहि अर्थ
ओहि अक्षर में पणमें कबहून पायो
केवल ज्ञान बिना सब अैसे भूठ
को सांच ठरायो ज्ञा० ॥ २ ॥ इंदु
भूति आदि सबही को संशय तिमिर
हरायो हाथ जोड़ के प्रभुजी के आ
गे बिनय सु शीस नमायो ज्ञान०
३ ॥ इति पदम् ॥ -

॥ होरी ॥

मधुवन में जाय मची होरी म० ।
सिरि संघ सदा खेलें होरी म० ॥ १ ॥
ज्ञान गुलाल अवीर उडावो समता
केसर रंग घोली म० ॥ २ ॥ अमृत
रूप धरम जिनवर को शुद्ध क्षमा

कहै कर जोडी म० ॥ ३ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुनः ॥

समेत शिखर जी को दरसन कर
के ध्यानद अधिक उछाह री स० ।
जिहा तीर्थ कर भीसु ही सीधा दिन
दिन अधिक धधाय री स० ॥ १ ॥
घार निकाय देयता मिल के भाव
ना अधिक भाव री स० ॥ २ ॥ से
ष करी तुम भाव घरी नें पातिक
दूर पुलाव री चित में हर्ष घरी प्रमु
जी के क्षमा समुद्ध गुण गाव री स०
३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

औसे खेलत होरी नामिजी के दर

धार सुर नर इंद्र प्रमुख मिल आए
इंद्राणी पर वार औ० ॥ १ ॥ नाभि
नरेशर नुवन दिनेसर मरुदेवी मात
मल्हार सब मिल रंग बनाय खेलत
है नगरी विनीता वार औ० ॥ २ ॥
ताल कंसाल पखाल बजावत गावत
फाग श्रीकार भर पिचकारी अति
मनुहारी छिरकत रिषभ कुमार औ०
३ ॥ गोरी गुलाल उडावत है सखि
नाचत इंद्र की नार गहर कसूवा
पीवत हरखत गल फूलन को हार
औ० ॥ ४ ॥ तुम प्रभु तीन भुवन के
नायक प्रतपो प्रभु चिर काल सेवक
की प्रभु याही अरज है भव जल पार
उतार औ० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

रग मच्चो जिन द्वार चलो खेलि
ये होरी कनक कटोरी केसर घोरी
पूजो विविध प्रकार जि० ॥ १ ॥
कृष्णागर की धूप घटत है परिमल
मह के अपार जि० ॥ २ ॥ छाल गु
छाल घघीर उढायत गावत फाग
श्री कार जि० ॥ ३ ॥ ताल मृदग
यीणा घसी घाजै भेरी भूगल को
भण कार जि० ॥ ४ ॥ सत सबे मि
छ घमाल सुनावत गावै मगल धार
जि० ॥ ५ ॥ रतन सागर प्रभु भाष
ना भावै मुख योळै जय कार ॥ ६ ॥
ईति पदम् ॥

॥ पुन ॥

लागी मेरी प्रीति जिनेसर सुं हे०
परमेसर सुं ला० । फागुन मास अ
ठाई महोक्व पूजा लावे घर घर
सुं केसर चंदन भरी रे कठोरी जतने
पूजे जिन करसुं ला० ॥ २ ॥ गा
वत गीत धमाल सुरंगी अंधिकी तां
न मधुर स्वर सुं ला० ॥ ३ ॥ लाल
गुलाल की धूम मचावत पिचकारी
भर केसर सुं ला० ॥ ४ ॥ सुर नर
भूप यही नित चाहै प्रभु के चरण
कमल फर सुं ला० ॥ ५ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

सांवरे से कहियो मोरी सां० ।
यह रितु मास फांगुण मेरी सहियां
मत मेरे चैर पडोरी मेरो पिया मेरो

मन हरे लीनो अथ मैं कैसी करू री
धीर नाही जीव घरे री सा० ॥ १ ॥
जाय सखी समभाय कहो री नव
भव प्रेम पियारी कुरग यवन सुणि
क्यु रघ फेस्यो मो सिर कलक षठे
री सखी सुम जाय कहो री सा० ॥
२ ॥ सख सखि फाग पेलस मेरी स
जनी मो प्रभु छाह गयोरी सजम रग
रगू मेरी सजनी मुकृति सखी से मि
लू री सखी गिर नार बलो री सा०
३ ॥ सखियन सग गई प्रभु चरणें
चारिध्र ले हुलसानी लहि केवल शि
व पुर कु पोहची ऐसी राजुल रानी
सखी देखी सुजस लह्यो री सा० ॥
४ ॥ नेमि जिनेश्वर चरण कमल में

मनमेरो अटक रह्योरी राम चंद प्रति
दिन समरत आवा गमन मिटै री
मैं सरण तिहारि लहूं री सां० ॥

५ ॥ ईति पदम् ॥

॥ होरी भैरो ॥

आज भविक जन होरी खेलै ज्ञा
न गुलाल सुहायो है । कर पिचकारी
करुना कीन्ही शमंता रंग भराया है
आ० ॥ १ ॥ शील सुरंगी चीर बि
राजै तन मन ध्यान लगाया है ध
प मप धां धां किट मादल बोलै रि
म भिम ताल बजाया है आ० ॥ २
तन नन तूम तन नन् आलापें सा
री ग म प ध नी गाया है धन नन
धूम घुघरू बाजै थूंगि थन थैई नृ

त्य मघाया है आ० ॥ ३ ॥ जिनम
दिर मे इण विध होरी सुमति सखी
सग लाया है सुद्ध चेतना अनुभव
चाहे धीसा पेठ यताया है आ० ॥
४ ॥ इति पदम् ॥

॥ होरी ॥

किन डारी पिषकारी रे मैतो सा
री मीज गई । घोषा अदन अवर
छरगजा केसर की छवि न्यारी रे
मे० ॥ १ ॥ यत्तिस सहस्र गोपी मि
ल पेठत वासु देवकी नारीरे मे०
२ ॥ नेम कुमर कु मनाषन चाली
घोळत भोली घारीरे मे० ॥ ३ ॥ न
घल कहे धीसे नेमकुमर सू हसि ह
सि देत है तारीरे मे० ॥ ४ ॥ इति

सुध लीजे नेम कुमर मेरी सु० ।
 लपन कोट यादव संग लीये व्याह
 न काज कीए देरी सु० ॥ १ ॥ पसु
 वन की करुणा करि स्वामी तुम तो
 रण सुं रथ फेरी सु० । हम को क्हांड
 चले गिर नारी प्रभु तुम मुक्ति
 चधू हेरी सु० ॥ २ ॥ बिन अवगुण
 प्रभु कहे न दीजै हूं नारी आठ भवां
 के री सु० । नव में प्रीत तजो मत
 प्यारे हम संग न क्हांड अब तेरी सु०
 ३ ॥ राजुल के पिय नेम जिनंदा
 अविचल सुख दीजे हे री सु० । सुद्ध
 चेतना लुभसन कीजे मन बंछित फल
 पावे री सु० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥
 ॥ पुनः ॥

मेरा नेम पिघा पर वेश हेरी
 ना ना पेलु मे० । जो मैं लीसी जाण
 सी रे सजसी तोरण घाय तो निश
 प्रति करसी नही रे करती और उ
 पाय हो० ॥ १ ॥ सुख सुखिभन मिल
 एकठी रे जायो मुक्त पिउ पास रा
 जुल रुढी गोरुडी धारी ये किम छो
 डो निरास हो० ॥ २ ॥ मैं उगुसेन
 घर नदनी रे सुम यादव कुल भान
 नेह निजर सुजसे मिलो धारी जान
 करू कुरथान हो० ॥ ३ ॥ सहज सु
 र्ग लोयणी रे आय मिलो मुक्त मी
 त खिण २ चित्तमा सामरे धारी नव
 मध केरी प्रीत हो० ॥ ४ ॥ रेवत गिर
 पर कामिनी रे पोहूची निज पिउ

पास संजम ले मुगतें गई वारी
ज्ञान सफल अर दास हो० ॥ ५ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

साधो भाई निज रंग चटक ले
अइये इक रंग रंग मचइये घोल २
अमृत रस पी पी सुख आनंद उप
जइये सा० ॥ २ ॥ निर्मलता आनं
द लहर में ज्ञान गुलाल लगइये सुद्ध
समाज सुरुचि रंग ढंग से शमता रंग
बरखइये सा० ॥ २ ॥ धूम धमाल-
सुचाल हारी में रंग से रंग मिलइये
सा० ॥ ३ ॥ पिचकारी भर ध्यान-
सुरंग की सन्मुख ताक लगइये सा०
॥ ३ ॥ अविचल ठाठ मिला संपूरन

मुख की तान सुनइये साँ० ॥ सिं
द अमेद गीत धुं पद का दास धुं
नी नित गइये साँ० ॥ ४ ॥ इति
पदम् ॥

॥ कालिगढा होरी ॥

कुन खेले सोसू होरीरे संग लागोई
आवे कुन० । अपने जो अपने मंदिर
से जो निकसी कोई साधरी कोई गो
रीरे स० घोषा घदन अवर अरग
जा केसर गागर घोरीरे स० भर पि
धकारी मुख पर डारी भीजगई तने
सारीरे संग० आनद घन प्रमु रसभ
रि मूरति आनद रहि धा भोरीरे
संग० ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

मत छोड़ी म्हांनुं युंहीरे कोई चूक
बतावो अवीर गुलाल भावसे रमतां
हमसुं काहे नहीं मिलियो रे म० ॥ १ ॥
बहुत हंठांसुं घ्याह रचायो जीव दे
ख दया आणीरे रथफेरी प्रभुजी घ
र भ्राए चढियो गढ गिरनारी रे म०
॥ २ ॥ राजुल उभो बिनती करे के
एक बार फिर जोवो रे नेम राजुल
मिल मुगति सिंधाये पहली राजुल
नारी रे म० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

जय बोलो पास जिनेसर की ज०
मस्तक मुगट सोहै मनमोहन अंगि
या सोहै केसर की ज० ॥ १ ॥ त्रिभु
वन ज्योति अखंडित तिनकी श्याम

घटा जैसी जलधर की ज० ॥ २ ॥
कमठ उहाय वाय जू घादल जीत
करी अपने घरकी ज० ॥ ३ ॥ घाल
पने में अद्भुत ज्ञानी करुणा कीनी
विष धर की ज० ॥ ४ ॥ अष्ट क
र्म दल सधल स्वपाये श्रेणि षडे
वा शिवपुर की ज० ॥ ५ ॥ माता
धामा उदर जिन आयो राणी अश्व
सेन नरेश्वर की ज० ॥ ६ ॥ कहे
जिन अद् मेरे प्रभु पारश्व जैसी छा
या सुर तरु की ज० ॥ ७ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

मन लागो मेरो नाथ निरजन
सु मन लागो मेरो० । निरजनसु हो अ

रि ढल भंजन सूं मन० जोतीजोति
माहें जोत विराजै योगी जाप जपे
जिन सूं म० १ ॥ रात दिवस दिल
लाग रह्यो है जगनायक जग वंदण सूं
म० जनम मरण दुख दूर निवारो अ
रज करूं अरि गंजन सूं मन० ॥ २ ॥
इति पदम्

॥ पुनः ॥

नेम श्याम से कहियो मेरी सांव
रे से कहियो मेरी ने० ॥ समुद्ध वि
जय शिवा देवी के नंदन यादव कुल
उदयो री तेज पुंज तन सब अति
रूढो कित गयो मो चित चोरी अ
रज नांही लीनी मोरी ने० ॥ १ ॥
व्याहन आये मेरे मन भाये ल्याये

यहु दल जोरी तोरन सेरप फेर
दियो है तज गये गिर की छोरी
मदन महा रिपु तोरी ने० ॥ २ ॥
दीन दयाल कहावत हैं प्रभु जैसे क
ठिन कठोरी शिव कामिनि से हेत
कियो है दे पशुवन शिर जोरी नव
भव प्रीत हि तोरी ने० ॥ ३ ॥ आ
कुल धरुं दरश दिन देखे रहिये स
न्मुख मोरी कमलनेन राजेमति स
खियन यिनति करत कर जोरी ग
हो है मुक्तिने होरी ने० ॥ ४ ॥ इति
पदम् ॥

॥ होरी भैरवी ॥

अरे मन प्रभु चरणन लग स्थाने
फाग खेलन दिन नगिचाने अ० ।

फागुन में इकरंग बनावे ते नर धन्य
बखानें अ० ॥ १ ॥ चंचल मन थिर
ता में ले आवे निज आत्म गुण
जानें अवसर आय मिल्यो भागन तें
शुध समकित मन आनें अ० ॥ २ ॥
प्रभु गुन चीत करे मन सुकृत भव
बंधन सुरभानें दास चुनी शमता रं
ग रचकर जनम सफलकर मानें अ०
३ ॥ इति षट्कम् ॥

॥ होरी ॥

जय बोलो रिषभ जिनेश्वर की ।
जनम अयोध्या माता मरु देवा ना
भि नंदन जगतिश्वर की ज० ॥ १ ॥
धनुष पांचसे काया जिनकी लंछन
वषभ धरेश्वर की ज० ॥ २ ॥ लख

चौरासी पूरव घायू कुल इक्ष्वाकु क
रेश्वर की ज० ॥ ३ ॥ दास चुकी प्रमु
सेवा चाहै तारन तरन तारेश्वर की
ज० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

मेरे प्रमुसे आज लगन लागी श
मता जाग कुमति भागी मे० ॥ १
सुमति सखी मिल मगल गावे पिय
के गल मे कर हारी मे० ॥ २ ॥ ज्ञा
न गुठाल अघीर उभावे रग भर
मारी पिधकारी मे० ॥ ३ ॥ स्वामी
सखी सग हिल मिल खेले दास चुनी
जावे यलि हारी मे० ॥ ४ ॥ इति
पदम् ॥

॥ पुन ॥

होरी खेलै बामा जूके नंद आतम
रंग सूं । ज्ञान गुलाल संयम भर भो
री भाव वसन धरि अंग हो० ॥ १ ॥
अशुभ करम मल सकल धुवानें ध्या
न गग जल संग हो० ॥ २ ॥ दास
चुनी जग नाथकी शोभा निरख ह
रख मन रग हो० ॥ ३ इति पदं ॥

॥ पुनः ॥

यादव मन मैरो हरलियो रे या
द० । सजम हूती कान लगी जब शिव
नारी पर चित दियो रे याद० ॥ १ ॥
तोरण सें रथ फेर चले हो नव भव
नेह अलग कियो रे या० ॥ २ ॥ मु
झ कुं क्वांड गिरनार सिधाए नेम जि
नंद तुम कहा कियोरे या० ॥ ३ ॥

तुम हो तीन भवन के स्वामी सुर
नर कहै तुम धिर जियो रे या० ॥
४ ॥ धार २ मेरी यदना हुय ज्यो
षद कहै मन हरखियो रे या० ॥ ५ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

केवल घाले की लटक मेरे मन
घटकी के० सिंह सेन सुत सकल गु
णाकर सद्य जानै सद्य के घटकी के०
१ ॥ जन्म जरा मरणादि रूपनी ज
ग माया सगली पटकी के० ॥ २ ॥
एते काल स्वामी जोग बिना मैं ए
कली घर २ मैं मटकी नायक लाय
क अनत जिनद घर नाम सुनत ष
ट पट छिटकी के० ॥ ३ ॥ सद्य सूर

त से खट पट कर के कुमति अली
भट पट सटकी हीर धर्म की विमल
चेतना सुयसा सुत पट तें अटकी के०
५ ॥ इति पदम्

॥ होरी ॥

आए हो काना रूम भूम० । वं
दो भवियण वार २ नर भवन मिल
तु हैं सार २ आं० । चंद्र पुरी में
चंद्र जिनेश्वर चरण कमल सुख कार
कार वं० ॥ १ ॥ मन बच काय करी
जे प्रणमें भव जल उतरत पार पार
व० ॥ २ ॥ ध्यायक ध्येय रूप होवें
ठिन में महिमा अनंत अपार पार
वं० ॥ ३ ॥ कीरत येह सुणी मैं श्रवणें
आयो तारक तार २ वं० ॥ ४ ॥ मह

सेन कुलायर बद्ध प्रतापी जिनघर
जगदा धार २ थ० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

आज घालो रो सखी गिरि भेट
न कु त्रयि देखन कु सघन कर्म दल
भेटन कु आ० । थीस दूक पर थीस
जिनेसर सीधे जग जन तारन कु ।
आ० ॥ १ ॥ पस्कज चिन्ह धरे गिरि
उपर भव्य जीव प्रति बोधन कु आ०
२ ॥ निरमल नीर सघन यन राजी
देखि प्रमोद धरे मन कु आ० ॥ ३ ॥
घातक केकि भधुर आलार्पे स्तवत
गुणी जन जिन गुण कु आ० ॥
४ ॥ छाव रही महिमा त्रिभुवन में
कहे न सके कोई धरणन कु आ० ॥

५ ॥ नगराज सुसीस चरण का सेवक
याचक बंछित पावन कुं आ० ॥ ६ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

घर आए चिदानंद कंत होरी मैं
खेलूं गी घ० । सिसिर मिथ्यात गई
और झाई काल की लडिघ वसंत
हो० ॥ १ ॥ आनंद जल अनुभव
पिचकारी बिडकूं नीकी भांत आज
वियोग कुमति सौतिन के हमरे ह
रख आनद हो० ॥ २ ॥ पिथा संग
खेलन कुं हम बहुधा तरसी काल अनं
त हरख चंद सोही धन जाके सुमति
पिथा के संग हो० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

मुनि सुव्रत जिन राया रे होरी
 सुघ मन पेले मु० । सोल आभूषण
 अग बिराजी सुमति सखी चित्त लाया
 रे हो० ॥ १ ॥ कर पिचकारी करुणा
 लीनी सुमता रग मराया रे हो० ॥
 २ ॥ ज्ञान गुलाब सरस रग लागे कु
 मति अघोर उदाया रे हो० ॥ ३ ॥
 दया धरम उफ बाजत नीके आगम
 घन गुण गायारे हे० ॥ ४ ॥ इन विघ
 जिनघर खेलै होरी आया गमन मि
 टायारे हो० ॥ ५ ॥ अविचल राज
 करे जिन स्वामी सुख पाए अधिका
 यारे हो० ॥ ६ ॥ चेतन कु प्रभु शिव
 सुख दीजे अहनिष लागू पाया रे
 हो० ॥ ७ ॥ इति पदम् ॥

॥ होरी ॥

पावा पुर सुभ थान होरी खेलि
ये पा० ॥ जल विच कमल कमल
विच देहरा सो भें तिहां भगवान
पा० ॥ १ ॥ पूजा अष्ट प्रकारी कीजे
जल चंदन सुभ ध्यान पा० २ ॥ कु
सुम धूप दीपक अक्षत ले नैबद धरो
पकवान पा० ॥ ३ ॥ फल पूजा
सुं शिव पद पावें आरति करिये सु
जान पा० ॥ ४ ॥ सुभ भाव अवीर
गुलाल विराजै गावे जिन गुण तान
पा० ॥ ५ ॥ धन धन जय जय वीर
जिनेसर सेवै सुर शशि भान पा० ॥
६ ॥ चेतन कुं अविचल सुख दीजे
तुम साहिव गुण खान पा० ॥ ७ ॥

इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

होरी खेलो भविक हित आनी
जिन धर्म के मर्म कु आनी । घट
घटर क्रोधादिक कषयर दूर करो
हित आनी ममता मयल नौ मर्म
छारि कै भरिये समकित पानी विषे
क यख सु छानी हो० ॥ १ ॥ करु
णा केसर ज्ञान गुलाल के करिये रग
सुहानी आगम रुचि पिचकारी कर
के छिरके घातम ज्ञानी अनुभव गुन
की खानी हो० ॥ २ ॥ कुमति कुटि
लता दूर करो भवि सुमति गहो पट
रानी आगम धुनि अमृत रस पीकै
खेलो यखत सु ज्ञानी जासे भल भ्रम

ण मिटानी हो० ॥ ३ ॥ इह विध
होरी खेलो भविजन करण तीन इक
ठानी अमृतचंद सूरि सुपसाये लच्छि
कहैं सुख दानी अध्यातम पदअभि
धानी हो० ॥ ४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

या जिन द्वार धूम होरी की गा
वत फाग सुहाईहो या० । भर पिच
कारी ज्ञान सलिल की छांटत भवि
जन भाई स्याद बाद नय ताल मृदं
ग डफ गरजत मधुर सुहाईहो या०
१ ॥ शमता रूप बनी सब बनिता
दामिनि सी दरसाई प्रभु मुख व
चन सवे चिहुं दिशसे मानुं बरखा
रितुसी छाईहो या० ॥ २ ॥ आगम

घघन अतर बहु विघसू यानि सुनत
लपटाई भाव गुलाल भरे मरभोरी
खेलत तन मन लाई हो या० ॥ ३ ॥
शील सुमन की दाम सुहावत पहिर
त परमल छाई हसराज हित सु
होरी खेलो शिष सपत सुख दाई हो
या० इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

सखीरी थोधि सुरग रग घन प्र
गटे होरी खेलन जिनद्वार स० ॥
१ ॥ श्री जिन धरण कमल नित य
दो सुध दरशण चित धारी विनय
धरी प्रमु पूजन करिये दूपण दूर
निधारी स० ॥ २ ॥ जग प्रति जिन
धरके गुन गायो भावना मूरि समारी

परम ज्ञान घन जन मन हुलसै जाये
कश्मल कारी स० ॥ ३ ॥ सुमति स
धव महिला सुख लहिये वहिये कुम
ति कु नारी अमृत चंद्र सूरि कहै
भविजन षेली वसंत सु प्यारी स०
४ ॥ इति पदम्

॥ पुनः ॥

वदन के कदन कदंब टालनी पि
या पै चली प्राक् प्रीत पालनी ब०
१ ॥ तोरण आय छार गये मोपै क
र गए बात सु संशय कारनी ब० ॥
२ ॥ चली सखियन संग करत तान
रग सज नेपथ्य सु मुक्ता जालनी
ब० ॥ ३ ॥ शिषर शैल पर प्रभु पै
झाए कम युग कज कृत शिरसि धार

नी घ० ॥ ४ ॥ मोह सुमट घट धि
 कट हटक करि शुद्ध व्रत न की भई
 हैं मालनी य० ॥ ५ ॥ कर्म निशा
 धर धमु पडन कर अचल लील ल
 ही मगल मालनी य० ॥ ६ ॥ कहे
 अमृत धिधु सकल सूरिधर कुमति
 तजो नित सुमति मालनी य० ॥ ७
 इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

सैयारे भरे कोई की न मानो कोई
 की न मानी सै० । आण्ये जय व्याह
 करण कू सग लिए जदुधानी तोरण
 से रथ फेर चलयो है पशुधन की द
 या आणी सै० ॥ ९ ॥ यैठी धी में
 रग महल में सहिधर सग सयानी

मनकी मन में रही मेरे प्यारे कर
गयो दूध को पाणी सै० ॥ २ ॥ जो
चतुराई वे कर गए हमसे सो मैंने अब
जानी भई सो भई अब वाको कहा
है कासे कहूं यह क्वानी सै० ॥ ३ ॥ गढ
गिर नार मिली जाय उनसे संजम
ले हुलशानी कहत अबीर पिया से
पहली मुक्ति गई है राजुल राणी सै०
४ ॥ इति पदम्

॥ पुनः ॥

होरी आई सजन सुख दाई रे
रंग सुरंग भटपट संभार रुच से धार
अध्यात्म सेली आत्म गुण वरदाई
रे हो० ॥ १ ॥ वीर विवेक परम सं
वेगी समता नार सुहाई रे हो० ॥

२ ॥ मृदुगुण अवीर लिये आनद से
ज्ञान गुलाल सजाई रे हो० ॥ ३ ॥
ध्यान साध भरे पिषकारी सन्मुख
ताक लगाई रे हो० ॥ ४ ॥ रग से
रग मिले जय चुकी घर २ हरख
धधाई रे हो० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥
॥ होली संपूरण ॥



॥ अथ राग फजली ॥

तुमे रहो रे यादव दीय घडिया
दीय च्चार घडिया तुमे० । मोज म
हिराण शिवा देवी जाया तुमे धा
धार ठो अहवडिया तु० ॥ १ ॥ पशु
ध प्रकार सुनी किय करुणा ठोड
दिये जसू धिडिया ॥ २ ॥ गोद धि

ढाय अमे वलिजाउं विनती करुं चरणे
पडियां तु० ॥ ३ ॥ बिरह दिवानी मल
पति योवन बाढ बढै जिम सेरडियां
तु० ॥ ४ ॥ पिउ विन खिन मुक्त
धरस समोबड न गमें सैनन सेभरियां
तु० ॥ ५ ॥ यादव वंश विभूषण ने
मजी राजुल गुण नी बेलमियां तु०
६ ॥ सहसा बन में स्वामी सुनके रा
जुल रेवत गिर चडियां तु० ॥ ७ ॥
अष्ट भवांतर नेह निभावन नवमें
वभ ते बीढडियां तु० ॥ ८ ॥ नयन
विमल प्रभु निरखत जपतां हरखित
हुवे मेरी आंखडियां तु० ॥ ९
इति पदम् ॥

॥ कजली ॥

२ ॥ मृदुगुण अवीर लिये आनद से
ज्ञान गुलाल सजाई रे हो० ॥ ३ ॥
ध्यान साध भरे पिघकारी सन्मुख
ताक लगाई रे हो० ॥ ४ ॥ रग से
रग मिलै जय घुस्ती घर २ हरख
यघाई रे हो० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥
॥ होली संपूरण ॥

॥ अथ राग कजली ॥

तुमे रहो रे मादव दीय घडिया
दीय घ्यार घडिया तुमे० । मोज म
हिराण शिया देवी जाया तुमे घा
घार ठो अठवडिया तु० ॥ १ ॥ पशु
य पुकार सुनी किय करुणा ठोड
डिये जतू चिडिया ॥ २ ॥ गोड थि

॥ पुनः ॥

में तो लागुं रे सुपास जी के लु
लि लुलि पाय मे० । भवसायर निर्या
मक सुणिनें आयो तुमपे धाय मे० ॥
१ ॥ मेरे तन की ताप हरो प्रभु तु
महो त्रिभुवन राय मे० ॥ २ ॥ क
र्म दवानल दूर हरो प्रभु अनुभव
अमृत पाय मे० ॥ ३ ॥ बैदा धनंत
र तुम ही मेरे दूजो दिल न सुहाय
मे० ३ ॥ चंद्र कहै कर जोमि जिनंद
नें करिये मेरि सहाय मे० ॥ ५ ॥
इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

देखो जिनजी के आगुं नाचें सुर
कुमरी देखो । वत्तीस बद्ध संगीत न

॥ मुझा मानो मेरा कहनवा ॥

सखियन मानो मेरा कहनवा ले आ
घो नेम जी मनाय श्याम घरन कु
देखत सजनी नैन रहे लोभाय स० ॥

१ ॥ हरि हल घर सय यिनति
करतु हैं परणो राजुल नार स० ॥

२ ॥ जान सक्ती व्याहन कु आए
दसो दसारण सार स० ॥ ३ ॥ रघ

फेरी गिरधर कु धारी लीनो सयम
भार स० ॥ ४ ॥ प्रीतम पहिले रा

जुल नारी पौहती मय जल पार स०

५ ॥ अष्ट मघातर नेह तजी प्रभु
पौहते मुक्ति मभार रामबद्ध की य

ही भरज है आधा गमन निधार स०

६ ॥ इति पदम् ॥

चतुरंग सोहना साजनियां च० ॥ १ ॥
काम धनुष सम भृकुटी सुभगा जग
सुख देवा नुं अवतरियां च० ॥ २ ॥
तोरन आय सुनि बचन पशूनां रथ
फेरि चलिया हो विनवरियां च० ॥ ३ ॥
चंद्र कलंक सिय विरह करेना ता
कुरंग बानीयां बैरनियां च० ॥ ४ ॥
व्याह समै कर पर कर न धस्यो मेरे
शिर दो दीक्षा में हथियां च० ॥ ५ ॥
राजमती इम बिल २ करती संयम
लहिनें थड़ केवलियां च० ॥ ६ ॥
राम चंद्र कहै भज मन नेमी नेमी
जिन रणों में लग रहियां च० ॥
७ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

घस तेती देती तालें तले घालें घा
लें घुमरी देखो० ॥ १ ॥ गानस्वर
तान मान लय सय लावत गावत
स्थाल प्रवध तुमरी दे० ॥ २ ॥ धीणा
वेणु मृदग यजावत मन माहि घ्या
न जिनद सुमरी दे० ॥ ३ ॥ तुम प्र
भु तीन भुवन के साहिब घाल कहे
बलि जाउ सुमरी देखो० ॥ ४ ॥
इति पदम्

॥ पुनः ॥

॥ नीपीयेत्यु एचाल ॥

शक्ति आठ्यु सक्ति घाल्यु उगुसेन
अगन मा देखीये त्यु आवी नें सहे
लिया । मोहन नय घन रुचिर ह्यीले

रतियां कोइ कहै सुनो वहिनी लि
 खो क्युं न पतियां कोइ कहै सांवल
 वदन नहि जोरियां चढ गइ चित
 मेरे सांवरी सूरतिया ॥ १ ॥ प्रीत
 लगाय प्रभु तुम काहे फिरिया फिर
 आवो मति जावो तजि गिर नारि
 या पिउ बिना तडफत मोरी आंख
 डियां रा० ॥ २ ॥ नेमि प्रभु परणें
 मुकृति सवतिया प्रभु विन कैसे होवे
 मेरी गतियां नेम जी से जाय लेउ
 सरव विरतिया जासुं मिटै जनम
 मरण की फेरियां रा० ॥ ३ ॥ अनुम
 ति लहीं राजुल गिर चढियां सहसा
 वन जइ संयम आदरियां नेमि रा
 जुल केवल ही शिव सुख वरियां

आज हरख बघाई यई मेरे अ
गना मैं मेठा अद्भुत नामीनटना
सोने की रेखी में हीरा की कठोरी
नित प्रभु पूजू केसर बदन जयणा
की मैं जुगति बनाउ समकित पट
दया रग रगना ॥ १ ॥ मरु देवी सुत
घरण कमल प्रति सेवक धीर करे ब
दना आ० ॥ २ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

—*~*~*~*~*

॥ धरमा मे से निकषल ॥

राजुल कहै सखी सुनो मेरी ब
तिया नम प्रभु बढ गए गढ रेवति
या पिय जी कु देखत हुलसे मेरी
छतिया सावरी सूरत यिन कैसे कटै

रतियां कोइ कहै सुनो वहिनी लि
 खो क्युं न पतियां कोइ कहै सांवल
 वरन नहि जोरियां चढ गइ चित
 मेरे सांवरी सूरतिया ॥ १ ॥ प्रीत
 लगाय प्रभु तुम काहे फिरिया फिर
 आवो मति जावो तजि गिर नारि
 या पिउ विना तडफत मोरी आंख
 डियां रा० ॥ २ ॥ नेमि प्रभु परणें
 मुकृति सवतिया प्रभु विन कैसे होवे
 मेरी गतियां नेम जी से जाय लेउ
 सरब विरतिया जासु मिटै जनम
 मरण की फेरियां रा० ॥ ३ ॥ अनुम
 ति लही राजुल गिर चढियां सहसा
 वन जइ संयम आदरियां नेमि रा
 जुल केवल ही शिव सुख दरियां

राम षड् कहै जैसे प्रभु की मैं आज
घलिहारियां रा० ॥ ४ ॥ इति पद ॥

॥ पुन ॥

कहत पुकार पुकारी सखियन से
हाथ जोड़ सखि पैया पडत हु कठो
नाह मनायो इह पुर में क० ॥ १ ॥

पशुन पुकार सुनी किय करुणा नव
भव नेह निधास्यो प्रजु छिन मे क०
२ ॥ श्याम धरन पिया सुदर सूरत

वेख दरस हुलसाई प्रभु जिय में क०

३ ॥ हरि हल घर सय धिनति करत
हे अरज सुनो धित लाई द्वारामती
में राजुल उठ गिरधर कु धाई अथ
मे शरन तिहारी सहसा मन में क०
५ ॥ घस मस घठीय मिठी संयम

घर हरख २ चित लाई गिरनारी
में क० ॥ ६ ॥ राम कहत कर जो
डी प्रभुसुं मुक्त कुं शरन तिहारी भ
व भव में क० ॥ ७ ॥ इति पदम् ॥
॥ कजली ॥

लालन की शोभा कहियन जाय
तोरण त्रिभुवन पति जब आए हय
गय रथ पायक न समाय ला० ॥
१ ॥ सुर नर किन्नर असुर विद्राघ
र गंधूप होय सहु मिलि गुन गाय
ला० ॥ २ ॥ अपकूर नृत्य करै तत्ता
थेइ थेइ मोतियन मूठी लिए बधा
य ला० ॥ ३ ॥ कन्या गौरी बाला
तरुणी मंगल गावत आय सुहाय
ला० ॥ ४ ॥ नेम जिनेसर दुलहो

निरखत नयन रहे हैं लोभाय ला०
५ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

नेम आष्या भर भर मारी रे बि
न घष गुण मोहे मार घले हो भूठ
गर्ह तन सारी रे ने० ॥ १ ॥ जाय
सखी समझाय कहोरी अष्ट भवातर
घारी रे ने० ॥ २ ॥ तू करुणा कर
ठाकुर मोपर मारी प्रेम कटारी रे
ने० ॥ ३ ॥ नाथ निरजन औसी न
कीजै मैहु दासी तुम्हारी रे ने० ॥
४ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुन ॥

कौन दिन दरसन कौन दिन
दरसन कौन दिन यदन हो प्रमु पै

यां जिह दिन करम विवर होय मे
रो । वोही दिन दरसन हो प्रभु पर्ई
यां जेही दिन दरसन वही दिन बंद
न वही दिन जनम सफल मुक्त गि
णियां क० ॥ १ ॥ शिव सुख दायक
सब जग ज्ञायक बहु गुण लायक
हो प्रभु रसिया मोहनि मूरत सोह
नि सूरत विघन कुं चूरत है प्रभु र
सिया क० ॥ २ ॥ भव दुख भंजन
करम निकंदन हम अरि गंजन है
जिन रसिया बहु गुण धारी पर उ
पकारी प्रभु मुक्त चित्ते हो नित व
सिया ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ पुनः ॥

मेरे आज अनंद बधईयां मेरे

प्रमु आज ध्यानद धर्माया आ० ॥
काल अनत फिरत चिहु गतिमा तु
रलम नरभव पार्हिया मे० ॥ १ ॥ आ
रज क्षेत्र उत्तम कुल आदिक सुगु
रु सयोग सहार्हिया मे० ॥ २ ॥ ए
अवसर फिर २ मिलना होत नही
हठ लार्हिया मे० ॥ ३ ॥ अवसर सफ
ल होवे प्रमु मिरस्वत आदि जिनद
जुहारिया मे० ॥ ४ ॥ राम कहत
कर जोही प्रमुसे नव निघ रिघ सि
घ पार्हिया मे० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥

॥ गरमा ॥

श्री चित्तामणि श्याम नयर्णे निर
व्या रे म्हारो हुलस्यो चित्त धाराम
धिमल गुण धरस्या रे-जिनवर पास

जिणंद सकल सहाई रे अनुपम उदयो
भोग दरसन दीठा रे कांई साकर
दूध समान लागें मीठा रे महिर क
रो महाराज दरशण दीजे रे श्रीजिन
चंद नो श्राम मुजरो लीजे रे इति
पदम् ॥

॥ पुनः ॥

प्रभु जी संभव श्रामि सुजान कै
सेवुं अहै निशी रे लो प्र० ॥ १ ॥ देषुं
तुम दीदारक हूं थांउं खुसी रे लो प्र
२ ॥ दरसन दो महाराज कै मुझ
नें एक ठोरे लो माहरा वाल हारे
लो प्र० ॥ ३ ॥ अति आतुर थयो
चित्त कै प्रभु जी ने भेटवा रे लो प्र०
४ ॥ हा जर हैज भरा ककै अंतर

मेटवा रे लो प्र० ॥ ५ ॥ सेना नदन
देष के अभिनय उपना रे लो प्र० ॥
६ ॥ जन्म्या जात सुजात के परमल
के सया रे लो प्र० ॥ ७ ॥ सेवक नें
मरोसो मोटो तुम तणो रे लो प्र० ॥
८ ॥ सामलसा तुम्ह वयण के मन
हु गहगहै रे लो प्र० ॥ ९ ॥ बीस
स नही पद पकजकी सास तेह थी
रे लो प्र० ॥ १० ॥ मोक्ष रूपी आ
उय घर्गमें जह नें तुमे यस्या रे लो
प्र० ॥ ११ ॥ कपूर यिजय नो सीस
के तुम घरजी करे रे लो मान कहे
सभि गाता आसा सहु फली रे लो
प्र० ॥ १२ ॥ इति पदम् ॥
॥ ढाल हठीछानो देशी ॥

पहिलो अंग सुहामणो रे अनुपम
 आचारांग रे सुगुण नर वीर जिणंदै
 भाषियो रे लाल उबवाई जासु उ
 षंग रे सु० ॥ १ ॥ बलिहारी ए अंग
 नी रे लाल हूं जाउं बारंबार रे सु०
 चिनय सुं गोचरी आदरै रे लाल जि
 हां साधु तणो आचार रे सु० ॥ २ ॥
 सुय खध दो अवै जेहनां रे लाल प्रवर
 अध्ययन पचवीस रे सु० । उहेशा
 दिक जाणिये रे लाल पंच्यासी सुज
 गीस रे सु० ॥ ३ ॥ हेतु जुगत करि
 शोभता रे लाल पद अठारहजार रे
 सु० । अक्षर पद नें छेहूडै रे लाल
 संख्याता श्री कार रे सु० ॥ ४ ॥ ग
 मा अनंता जेहमारे लाल बलि अ

देखी तिहारी रीत बालम सजन
हमारे दे० परघर रघणिदिवस रंगराते
काल अनत गए बीत स्यादवाद कु
लकी मरजादा कहां रही शुभ नीत
बा० ॥ १ ॥ कासुं कहिये कैंन सुनतहै
कैंन करै वरजीत औघट घाट बाद
नहि सूझै अनुभव सरिखे मीत बा० ॥
२ ॥ चुन्नी समझ बूझ मन अपनै
निहचे गहि परतीत रीत परम जोडि
सुमति संग पूरण पाली प्रीत बा० ॥
३ ॥ इति पदम् ॥

साधो भाई निज गुन में रम रहिये
नहि मरम किसीसै कहिये सा०। करम
उदै से वाणक जैसा वणै खुसीसै सहि

ये धीर हीर गुण धारण करकैङ्ग से
 मारग ग्रहिये सा० ॥ १ ॥ पथ कठिन
 याथा शिव पुरका जिहा परमादन
 ग्रहिये भय अटवी दूरघट है इस में
 ध्यान समाधी गहिये सा० ॥ २ ॥
 चिन्ता गई निश्चित भए शमता सुख
 सेक विलहिये दासचन्नी आनद चैन
 से अविषल पदवी लहिये सा० ॥ ३ ॥
 इति पदम् ॥

प्रभु मया करी दिल रजन दीदा-
 रक मुक्तने दीजिये श्रीसिद्धा चल
 गिरराया परमात्म पद सपद पाया
 श्री रिपभ जिनेश्वर तिहा राया
 म० ॥ १ ॥ जे शमता शुद्ध सुधा आ

पै जडता युत कुमति लता कापै व
लिवोध वीज सु थिर थापै प्र० ॥ १
जेहथी भव परणति चित न वसे अ
ध्यातम अनुभव गुणविकसे तिहां सह
ज समाधि दशा उलसे प्र० ॥ ३ ॥
पर पुद्गल ममता दूर गर्में चेतन
ता निजघर मांहि रमें तिहां जनम
मरण दुख सहु विरमें प्र० ॥ ४ ॥
ए अध्यातम वीनति मधुरी वाचक
गणी क्षमाकल्याण करी ते सफल
करी प्रभु हेत धरी प्र० ॥ ५ ॥ इति
पदम् ॥

सिद्धाचल गिर भेटा रे धन भाग
हमारा । विमलाचल गिर भे ० इ

ण गिरधर नी महिमा मोटी कहता
 नावे पारा रायण रूख समोसत्या
 स्वामी पूर्व ननाणु धारा रे घ० ॥ १
 मूल नायक श्रीधरादि जिनेसर घड
 मुख प्रतिमा धारा अष्ट दृष्यसु पू
 जो भार्ये समकित मूल आधार रे
 घ० ॥ २ ॥ माघ भगतसे प्रभु गुण
 गावे धपना जनम सुधारा आश्र
 करी भावि जन शुभ भार्ये नरक तिर्य
 घगति धारारे घ० ॥ ३ ॥ दूर दे
 शातर धी हू आयो अघण सुणी गुण
 ताहरा पतित उधारण विरुद सु
 मारो एकीरत जग सारा रे घ० ॥
 ४ ॥ सद्यस् घठारै प्रयासी आसाद्वै
 घदि आठम मोम धारा प्रभु के घ

रण प्रताप संघमें क्षमा रतन प्रभु
 धारा रे ध० ॥ ५ ॥ इति पदम् ॥



मेरे प्रभुजी की शोभा बरनी न
 जाय निरमल गुणों पे क्या उपमा
 धरुं मे० मोहनी मूरत सोहनी सूरत
 बचना मृत से ताप बुझाय मे० ॥ १ ॥
 रूप मनोहर नयना नंदी सुर नर मु
 नि जन रहे है लोभाय मे० ॥ २ ॥
 शोभा सुंदर देव पुरंदर रहि कीरत
 त्रिभुवन में क्वाय मे० ॥ ३ ॥ तेज प्र
 ताप कहालुं धरनुं रवि शशि जिनके
 आगे लजाय मे० ॥ ४ ॥ जो कोइ
 ध्यावे बंक्ति फल पावे आवा गम
 न छिनमें मिट जाय मे० ॥ ५ ॥ प्र

ण गिरधर नी महिमा मोटी कहता
 नावे पारा रायण रूख समोसस्या
 स्वामी पूर्व ननाणु धारा रे घ० ॥ १
 मूल नायक श्रीआदि जिनेसर अउ
 मुख प्रतिमा धारा अष्ट दृष्यसु पू
 जो भार्खे समकित मूल आधारारे
 घ० ॥ २ ॥ भाव भगतसे प्रमु गुण
 गावे अपना जनम सुधारा जात्रा
 करी मधि जन शुभ भार्खे नरक तिर्य
 अगति धारारे घ० ॥ ३ ॥ दूर दे
 शासर धी हू आयो अखण सुणी गुण
 साहरा पतित उधारण यिसद तु
 मारो एकीरत जग सारा रे घ० ॥
 ४ ॥ सयत् अठारै अयासी आसाई
 यदि आठम भोम धारा प्रमु के अ

या वे तीन अवस्था भव रे हारी तो
भी ठोर न आया वे म० ॥ ३ ॥ ता
कारन समता संग लेके चुन्नी चर
ण चित लाया अब तो शिव पुर सु
ख लहेंगे मन बंक्कित फल पाया वे
म० ॥ ४ ॥ इति पदम्

टुक नजर महरदी करना टु० ।
मैं तो अगम पापकी मूरत मेरा दो
स न धरना टु० ॥ १ ॥ ले दीक्षा प्र
भु गिर कों चाले षच महा व्रत च
रना टु० ॥ २ ॥ केवल ज्ञान उपाय
जिनेसर हम कुं क्यों नहि सरना टु०
३ ॥ इति पदम्



भु सुख लायक शिव सुख दायक दा
स घुन्नी जिन के गुन गाय मे० ॥
६ ॥ इति पदम्

। मै नाहि दूध पाया हे २ माय मे
री मै० एषाल ॥ तुम्हे समझाया घे
मनुषा यार तुम्हे समझाया म० ॥
लख घोरासी योनि में भटकत रुल
त रुलत इत आया पञ्च इद्दी के
धस में पद के नाहक जन्म थिताया
बे म० ॥ १ ॥ काम क्रोध और मोह
लौम की सगत का फल पाया नाना
गत के दुख सहे में फिर पीछे पछ
ताया घे म० ॥ २ ॥ जिनवर नाम
जपा नहि मनसे गुरुसे चित नहिछा

गफलत में सारी उमर गईं कांर
ज की सुध नांहि रही ग० ॥ १ ॥
काल अनादि सुख दुख में खोए मो
ह निद्रा में शुद्धी नांहि रही ग० ॥
२ ॥ ज्ञान दया सिंधु ने अपने का
रण हित की बात कही ग० ॥ ३ ॥
गईं सो गईं अब हाथ न आवे औ
सर देख विचार सही ग० ॥ ४ ॥
दास चुन्नी सतगुरु सांचे की आज्ञा
सिर पर धार लही ग० ॥ ५ ॥ इति
प्रदम् ॥

सिद्ध चक्र ध्यान धरिये धन व
कृ कर्म हरिये हो वरियेरे ज्ञान धन
धट में सि० ॥ १ ॥ अरिहंत पद

अथ तो चेतन श्वेत सत युद्धि
सभाला चाहिये लख अरूपी ज्ञान
गुन अपने को पाला चाहिये अ० ॥
१ ॥ इस जगत की रीति भूठी में
फसे त्रिमुषन के लोक इनसे ये मुख
हो सजन अंगुन को मिटाना चाहि
ये अ० ॥ २ ॥ जो धरम यूको है अप
ना जिनके घर आनद है पाप के
विषयस को उजाला चाहिये अ० ॥
३ ॥ सूत्र सिद्धान्त से सत गुरु का
यही आदेश है काज सिद्धीके लिए
मारग सु पाला चाहिये अ० ॥ ४ ॥
दास बुद्धी ज्ञान सिधु मय कै पाया
सार रस पीने वालों का जगत में
बोल वाला चाहिये अ० ॥ ५ ॥ इति

जन सारा रे न० । श्री अरिहंत इंद्र
गण अंचित कुंचित कलुष निवारण
भव्य कमल विकसावन हेते लसत
भानु अनुकारा रे न० ॥ १ ॥ अनंत
ज्ञान दर्शन चारित्र युत अनंत वीर्य
गुण धारा गुण निकुरंव निलय सि
द्धा स्यद अलख रूप अवतारा रे न०
२ ॥ श्री सूरेश्वर गच्छ धुरंधर पाठक
श्रुत दातारा सयल साधु पंचम पद
नमतां दुख दोहग होय न्यारा रे
न० ॥ दर्शन ज्ञान चरित तप वरिये
हरिये कर्म कुठारा ए नव पद शिव
सुख के कारण वारण विघन विका
रा रे न० ॥ ४ ॥ उगणीसे चौवीसे
वरसै सरद पूनिम सुख कारा अमृत

हित कारी सिद्धा तिसय मर भारी
सहु वृजिन सघन दिये जारी हो०
२ ॥ आचार्य गुण रामी उवकाय
शास्त्र दानी मुनि माल सहु सिरना
मी हो० ॥ ३ ॥ सम्यक्त ज्ञान लहिये
आरिस्त चित्त गहिये तपधारि दुष्क
त दाहिये हो० ॥ ४ ॥ ए नव पद सु
म रागें सेव्या विज्ञान आगें दुर्भाव
यक्ष मार्गें हो० ॥ ५ ॥ उगणीसैं ते
वीस घरसे अमृतेंदु सूरि दरगें घन
पति सिंह हरखैं हो० ॥ ६ ॥ इतिपदम्

कुयरी ने जादू मास्या मोह्या
स्याम हमारा रे एचाल । नव पद
जग सैं जय कारा नित सेयो भवि

न सिद्धी अनुक्रम बलि ज्ञान तणी
वृद्धी लहुं सहजै संयम समृद्धी ध० ॥
४ ॥ प्रभु पनरम दरसन अर चरणां
वाचक गणि नेमि विजय सरणा प्रभु
आनंद विमल जिनंद करणा ध० ॥
५ ॥ इति पदम् ॥

श्री सीमंधर जिन स्वाम मुजरो
मानां हमारो दाता जान आयो तुम
तीरै सुण साजन अभिराम अभिला
खा प्रभु दरस फरस की ध्याउं मै
आहुं ही याम साहिव नेक निहारो
श्री० ॥ १ ॥ दरस सुधा रस पान
करन ते पावे जी विसराम पुरुषो
त्तम परमात्म पूरन पूरो वंदित

बद्ध सूरि इम जपता धनपति सिद्ध
चित्त धारा रे न० ॥ ५ ॥ इति पद

धर्मेश्वर जी तुम दरसन दिन
काल अनतै हु भक्त्यो परमेश्वर जी
लक्ष्यो मानव भव युधि प्रमाद यसै
गम्यो । मैं ममता धनिता धारी जी
तिण हुवो बहुल ससारी जी आकिम
दूटै उपकारी जी घ० ॥ १ ॥ ममता
के कथन चलन सेती मुक्त पासे धी
शमता जेती ते दूर गई मन भय
लेती घ० ॥ २ ॥ क्रोधादिक मित्र
पणै धास्या निज मित्र क्षमादिक स
हास्या ज्ञानादिक आत्म धन हास्या
घ० ॥ ३ ॥ प्रभु तुम दरसन से दर्श

हियडे हरख धर धर व० ॥ १ ॥ क्षत्री
कुंड में जनम सहोच्छ्रव घर २ मंग
ला चार बधाई सिद्धारथ घर व० ॥
२ ॥ जायो सुत त्रिशला देवी नें श्री
वर्धमान कुमार देखो नयन भर २
व० ॥ ३ ॥ छप्पन दिश कुमरी हि
ल मिल कै बोलै जय जय कार चि
रंजी रही जिनवर व० ॥ ४ ॥ चो
सठ इंदु उखव नें काजे इंद्राणी
लिये लार मेरु शिखर उपर व० ॥
परमानंद भयो चुनी याचक मांगे
दान अपार धन धन ए अवसर व०
५ ॥ इति पदम् ॥

याजत रंग बधाई नगर में बा

मन काम घतर दूर निवारो श्री० ॥
२ ॥ भव दुख दाह रोग से प्रभु यिन
कैान करे आराम भक्त बल्लभ भगवत
जगत में तारक तू सरनाम भव जल
पार उतारो प्रभु श्री० ॥ ३ ॥ महा
रक जिन महेंद्र सूर जी नें किये सु
जस के काम जेठ सुकल द्वितिया
सुभ यासर धापें धिय सु ठाम देखूं
में दरस तुमारो श्री० ॥ ४ ॥ दास
घुनी अपने आपे में जपै परमेष्टी
नाम आरत तिमिर मिटै ततखिण
ही मिलै केवल गुण धाम घातम
काज सुधारो श्री० ॥ ५ ॥ इतिपद

धन धन आई सुघर नर नार

एके मुख गुन कहुं के ता मेरे हिये
ज्ञान नहि एता लाल चंद की अरज
सुन लीजे चरन की भक्ति मोहि दी
जे कु० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ इति स्तवन पदावली समाप्ता ॥

मुद्रासहस्रकिरणैर्गन्थानुपलब्धि
तिभिरसंहारी । पुस्तककमलविकासी
द्युनिशं जैनप्रभाकरोजयतु ॥ १ ॥

जस रग बघाई जै जै कार भयो जिन
शासन धीर जिनद की दुहाई था०
१ ॥ सय सखियन मिल मगल गावे
मोतियन चौक पुराई था० ॥ २ ॥
केतकि बपो फूल मगावो जिन जी
नी अगिया रघाई था० ॥ ३ ॥ न्याय
सागर प्रमु धरण कमल से दिन २
जीत सघाई था० ॥ ४ ॥ इति पद ॥

कुशल गुरु देव के दरसन मेरा
दिल होत है परसन जगत में या
समा कोई न देखा नैन भर जोई ॥
१ ॥ धिरुद भूमडले गाजै फरसता
पाप सब भाजै पूजता नपदा पावे
अधिसी लच्छि घर आवै कु० ॥ २ ॥

एके मुख गुन कहुं के ता मेरे हिये
ज्ञान नहि एता लाल चंद की अरज
सुन लीजे चरन की भक्ति मोहि दी
जे कु० ॥ ३ ॥ इति पदम् ॥

॥ इति स्तवन पदावली समाप्ता ॥

मुद्रासहस्रकिरणैर्गन्धानुपलब्धि
तिमिरसंहारी । पुस्तककमलविकासी
द्गुनिशं जैनप्रभाकरोजयतु ॥ १ ॥

सम्वत् १९३२ मिति फागुनसुदी ११

